



शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें



2

कक्षा

आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका
गणित

सत्र 2022-2023

शिक्षक संदर्शिका में अलग-अलग आइकन (icon) और रंगों का संकेत के रूप में उपयोग किया गया है जिनके माध्यम से आप दी गई जानकारी को समझ और संसाधनों को पहचान सकते हैं।


शिक्षक संदर्शिका में संसाधन: _____



शिक्षण योजना | अभ्यास गतिविधि | समेकन गतिविधि | रेमीडीयल गतिविधि _____



कार्यपुस्तिका _____





आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा-2

सीखने-सिखाने के अनुभवों में विविधता एवं रोचकता!

बुनियादी गणित पर आधारित यह संदर्शिका शिक्षक के सहयोग के लिए बनाई गई है जिसमें वार्षिक योजना और दैनिक शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक संसाधन दिये गए हैं।



60

शिक्षण योजना



60

अभ्यास गतिविधि



4

समेकन गतिविधि




4

रेमीडीयल गतिविधि




3

ट्रैकर



शिक्षण संसाधन (शिक्षक) और कार्य पुस्तिका (बच्चों) मिलकर प्रेरणा लक्ष्य को निपुणता से एवं समय से प्राप्त करने में मार्ग दर्शन करेंगे।



मुख्य संरक्षण : श्री दीपक कुमार, आई. ए. एस, प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, ऊ. प्र.।

संरक्षण : श्रीमती अनामिका सिंह, आई. ए. एस, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

निर्देशन : डॉ. सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समन्वयन : श्री आनंद कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ विशेषज्ञ एवं प्रभारी, गुणवत्ता, समग्र शिक्षा।
डॉ. प्रदीप जायसवाल, प्रवक्ता (शोध), राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
श्री पी. एम. अन्सारी, राज्य सलाहकार, गुणवत्ता, समग्र शिक्षा।

विशेष सहयोग : श्री अतनु साई, विक्रमशिला एजुकेशन रिसोर्स सोसाइटी।
श्री राकेश कुमार, विक्रमशिला एजुकेशन रिसोर्स सोसाइटी।
श्री रेवंथ पेड्डी, सेंट्रल स्कवायर फॉउंडेशन।
श्री शिवम् रावल, सेंट्रल स्कवायर फॉउंडेशन।
सुश्री जूही निझावन, कंसलटेंट।

समीक्षा : श्री आशुतोष दुबे, प्राचार्य, एस. आई. ई., प्रयागराज।
श्रीमती रिचा जोशी, प्राचार्य, राज्य हिंदी संस्थान, वाराणसी।

लेखन मंडल : डॉ. जनार्दन सिंह, प्रवक्ता गणित, (राज्य शिक्षा संस्थान उ. प्र. प्रयागराज), श्रीमती मनीषा, प्रवक्ता गणित (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, खैराबाद-सीतापुर), श्री दिनेश कुमार, प्रवक्ता गणित (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उन्नाव), श्री राजकुमार सिंह, प्रवक्ता गणित (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सारनाथ, वाराणसी, श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, प्रधानाध्यापक SRG (उच्च प्राथमिक विद्यालय करपिया, बाराबंकी), श्री पंकज कुमार वर्मा, प्रधानाध्यापक SRG (उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटवा, लखीमपुर खीरी, श्री पंकज सोनी, प्रधानाध्यापक ARP (प्राथमिक विद्यालय भतोइया, मलिहाबाद), श्री सुभाष चन्द्र कुशावाहा, प्रधानाध्यापक, (प्राथमिक विद्यालय शेखनापुर घाट, लखनऊ), श्री देवांकुर, सहायक अध्यापक SRG (उच्च प्राथमिक विद्यालय भटजन, गाजियाबाद), श्री संदीप कुमार दूबे, सहायक अध्यापक ARP (उच्च प्राथमिक विद्यालय रैपुरी, भदोही), डॉ ओम प्रकाश गुप्त, सहायक अध्यापक ARP (कम्पोजिट विद्यालय बडेरी, बदलापुर, जौनपुर), श्री विवेक कुमार, सहायक अध्यापक (प्राथमिक विद्यालय मंगलपुरवा रेउसा, सीतापुर), श्री हरिहर पाठक, सहायक अध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालय टी.पी. नगर कादीपुर, सुलतानपुर), श्री दिनेश कुमार वर्मा, सहायक अध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालय कोपवा, बाराबंकी), सुश्री आकांक्षा मिश्रा, सहायक अध्यापक (प्राथमिक विद्यालय बेनीमाधवपुर पहला, सीतापुर), श्री विकास शर्मा (विक्रमशिला एजुकेशन रिसोर्स सोसाइटी), श्री सायण वंद्योपाध्याय (विक्रमशिला एजुकेशन रिसोर्स सोसाइटी), श्रीमती पूजा मंडल (विक्रमशिला एजुकेशन रिसोर्स सोसाइटी)।

लेआउट : श्री कौस्तुभ खरे

ग्राफिक्स : श्री रामबाबू पाल

आभार : पाठ्यपुस्तक के विकास में विभिन्न संस्थाओं की पाठ्य-सामग्री/साहित्य का उपयोग किया गया है। हम उन सभी के प्रति आभारी हैं।

मुद्रक एवं प्रकाशक :
संस्करण :
शिक्षा सत्र : 2022-2023
मुद्रित प्रतियों की संख्या :

अन्तः पृष्ठ के कागज का विशिष्टीकरण : प्रयुक्त कागज मिल सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर्स वर्जिन पल्प युक्त कागज बैम्बू अथवा वुड बेस्ड (Bamboo or wood based) के अतिरिक्त अन्य एग्रो बेस्ड (Agro based) अर्थात् बगाज पर आधारित एवं क्रीम लेड एण्ड क्रीमवोड पेपर 70 जी.एस.एम. भार तथा आकार 50.8 सेमी. X 76.2 सेमी. का है। कागज की ब्राइटनेस न्यूनतम 80 प्रतिशत, वन मिनट कोब टेस्ट अधिकतम औसत 22, ब्रेकिंग लेन्थ क्रॉस डायरेक्शन 1700, मशीन डायरेक्शन 2500, ओपेसिटी न्यूनतम-85 प्रतिशत एवं रजिस्टेन्ट टू फेदरिंग-टू पास द टेस्ट, टियर इन्डेक्स सी.डी. 40 एवं एम.डी. 3.5 है। प्रयुक्त होने वाला कागज में अन्य विशिष्टियां बी.आई.एस. कोड-1848 (चौथा पुनरीक्षण) के अनुसार है। पुस्तकों में प्रिन्ट साइज : 15.9 सेमी. X 22.1 सेमी., ट्रिम साइज : 1841 सेमी. X 24.13 सेमी. है।

उत्पादन : पाठ्य पुस्तक विभाग, शिक्षा निदेशालय (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
© उत्तर प्रदेश शासन।

सन्देश

घर और समाज से शुरू हुई अनौपचारिक शिक्षा विद्यालय में औपचारिक और व्यवस्थित हो जाती है। प्राथमिक शिक्षा बच्चों के विकास की बुनियाद होती है। यह मजबूत बुनियाद बच्चों को एक सशक्त नागरिक के रूप में तैयार करती है, और ऐसे बच्चे आगे चलकर एक प्रगतिशील एवं विकसित समाज का सृजन करने में महत्वपूर्ण एवं सक्रिय योगदान देते हैं।

उत्तर प्रदेश में 'मिशन प्रेरणा' कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से राज्य में प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षण को एक नई दिशा मिली है। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' भी बुनियादी शिक्षा के महत्त्व को रेखांकित करती है। बुनियादी शिक्षा और कौशलों के महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा देशव्यापी 'निपुण भारत मिशन' की शुरुआत की गयी है।

विगत दो वर्षों में कोविड महामारी ने बच्चों की शिक्षा, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के समक्ष अनेक चुनौतियाँ खड़ी की हैं, जिसके कारण बच्चों के अधिगम की क्षति हुई है। बच्चों की अधिगम क्षति को दूर कर कक्षा के अनुसार निर्धारित शिक्षण सम्बन्धी परिणामों को सुनिश्चित कराना एक बड़ी चुनौती है। इस परिप्रेक्ष्य में कार्ययोजना तैयार करायी गयी है। इस कार्ययोजना द्वारा आगामी वर्षों में बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हुए उनकी अधिगम क्षति को पूरा करने का प्रयास किया जायेगा। इससे सभी बच्चे आयु और कक्षा के अनुरूप निर्धारित दक्षताएँ प्राप्त कर पायें। इस कड़ी में कक्षा 1 से 3 के बच्चों के लिए 'कार्यपुस्तिकाओं' और शिक्षकों के लिए 'शिक्षक संदर्शिकाओं' का विकास कराया गया है।


बच्चों को केन्द्र में रखकर तैयार करी गयी ये संदर्शिकाएँ एवं कार्यपुस्तिकाएँ शिक्षकों को नई शिक्षण विधियों, गतिविधियों आदि से परिचित करायेंगी और बच्चों को अभ्यास के विविध अवसर प्रदान करेंगी। वहीं दूसरी ओर यह पुस्तिकाएँ अभिभावकों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करेंगी कि वे बच्चों की शैक्षिक प्रगति पर शिक्षकों से सतत् संवाद बनाये रखें।

भाषा की संदर्शिका मुख्य रूप से 'संतुलित भाषा शिक्षण पद्धति' एवं गणित की संदर्शिका मुख्य रूप से (अनुभव, भाषा, चित्र, संकेत/प्रतीक) के सिद्धांतों पर तैयार की गयी हैं। संदर्शिका में गतिविधियों एवं अभ्यास कार्यों को क्रमशः सरल से कठिन के क्रम में रखा गया है, ताकि बच्चे सतत् रूप से सीखते हुए वांछित दक्षताओं को हासिल कर पाएँ। आकलन की भी सम्यक व्यवस्था की गई है, जिसमें साप्ताहिक और सावधिक आकलन के द्वारा एक तरफ शिक्षक बच्चों के सीखने की गति पर दृष्टि बनाएँ रख पाएँगे वहीं आवश्यकता पड़ने पर अपनी शिक्षण विधि में भी बदलाव कर पाएँगे।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये संदर्शिकाएँ शिक्षकों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। इनके द्वारा न केवल बच्चों के सीखने की शक्ति को पूरा किया जा सकेगा, बल्कि सीखने को गति प्रदान करते हुए प्राथमिक शिक्षा की नींव को सुदृढ़ किया जा सकेगा। ये संदर्शिकाएँ शिक्षा के वृहत्तर लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगी।

शुभकामनाओं के साथ।

अप्रैल-2022



डॉ. (सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह)

निदेशक

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद् उ.प्र., लखनऊ।

✓ वार्षिक ट्रैकर (2022-23)

अकादमिक सत्र में कुल 32-35 सप्ताह होंगे, जिसमें 22 सप्ताह को शिक्षण सप्ताह माना गया है। एक शिक्षण सप्ताह में तीन चरण हैं- 1. अनुदेशात्मक कार्य (1-4 दिन), 2. समेकन और आकलन (5वाँ दिन) और 3. रेमीडीयल और पुनरावृत्ति (6वाँ दिन)। इस ट्रैकर से आपको यह नियमित रूप से पता चलता रहेगा कि अभी तक कितना कार्य हो पाया है।

साप्ताहिक कार्य

DD/ MM/ YYYY → DD/ MM/ YYYY

सप्ताह 1 2 3 ...

साप्ताहिक कक्षा कार्य के शुरुआत और समाप्ति के दिनांक भरें।

सावधिक कार्य

DD/ MM/ YYYY → DD/ MM/ YYYY

सप्ताह 11, 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



प्रत्येक दिन के शिक्षण एवं कार्य योजना पर कार्य करने के बाद इस ट्रैकर के संबंधित गोले में सही का निशान लगाएँ। साप्ताहिक एवं दैनिक योजना और आकलन एवं पुनरावृत्ति से जुड़े भाग में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। इन भागों एवं शिक्षण योजनाओं को ध्यान से पढ़ें।

DD/ MM/ YYYY → DD/ MM/ YYYY

सप्ताह 1 1 2 3 ...

DD/ MM/ YYYY → DD/ MM/ YYYY

सप्ताह 2 1 2 3 ...

DD/ MM/ YYYY → DD/ MM/ YYYY

सप्ताह 3 1 2 3 ...

DD/ MM/ YYYY → DD/ MM/ YYYY

सप्ताह 4 1 2 3 ...

DD/ MM/ YYYY → DD/ MM/ YYYY

सप्ताह 5 1 2 3 ...

DD/ MM/ YYYY → DD/ MM/ YYYY













सप्ताह 6 1 2 3 ...

DD/ MM/ YYYY → DD/ MM/ YYYY


सप्ताह 7 1 2 3 ...

DD/ MM/ YYYY → DD/ MM/ YYYY

सप्ताह 8 1 2 3 ...



संदर्शिका का उपयोग



सीखने-सिखाने के सिद्धांतों को समझें

निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को केंद्र में रखकर इस संदर्शिका को बनाया गया है। ये बच्चों में विकासात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारा मार्गदर्शन करेंगे।



60 शिक्षण उद्देश्य

पूरे वर्ष के साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्यों को जानें

अकादमिक वर्ष 2022-23 की रूपरेखा दी गई है जिसमें लक्षित दक्षताओं को साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्यों में विभाजित किया गया है।



सप्ताह के 3 चरण और कालांशवार संसाधनों की संरचना समझें

प्रभावी शिक्षण कार्य के लिए साप्ताहिक कार्य में अनुदेशात्मक कार्य, समेकन, आकलन और रेमीडीयल कार्य शामिल किया गया है। क्रियान्वयन के लिए क्रमबद्ध तरीके से शिक्षण सामग्री संदर्शिका में दी गई है।



अधिगम सामग्री और कक्षा प्रबंधन जानें

शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक अधिगम सामग्री को विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराया गया है जिसमें गणित किट, पोस्टर और गणित कार्ड-बोर्ड शामिल हैं। दिए गए शिक्षण सामग्रियों में इन्हें पूर्ण रूप से शामिल किया गया है।



बच्चों के सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में अभिभावकों की भूमिका को समझें

कक्षा में बच्चों द्वारा किए गए कार्यों के घर पर अभ्यास करने और उसमें अभिभावकों की भूमिका को संदर्शिका में रेखांकित किया गया है। साप्ताहिक गृह कार्य और व्यवधान के प्रबंधन के लिए अभिभावकों के साथ संवाद के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

संदर्शिका का उपयोग

हर सप्ताह के शुरुआत में



- वार्षिक योजना के अनुसार दिए गये साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्यों को समझें।
- शिक्षण योजनाओं के उपयोग के लिए रणनीति बनाएँ और आवश्यक अधिगम सहायक सामग्री को चिह्नित करें।
- बच्चों द्वारा किए गये पिछले सप्ताह के गृह कार्य को जांचें।

हर सप्ताह के अंत में



- प्रत्येक बच्चे की प्रगति और कठिनाइयों को चिह्नित कर उनके लिए कार्य की योजना बनाएँ।
- साप्ताहिक गृह कार्य के लिए बच्चों को निर्देश दें और अभिभावकों के साथ संवाद करें।
- प्रत्येक बच्चे का साप्ताहिक आकलन प्रपत्र में किए गए प्रदर्शन के अनुसार साप्ताहिक ट्रैकर में ग्रेड दर्ज करें।

हर दिन की शुरुआत में



- शिक्षण सामग्री के अनुसार कालांश से पहले तैयारी करें।
- आवश्यक अधिगम सहायक सामग्री को लेकर कक्षा में प्रवेश करें।

हर दिन के अंत में



- प्रतिदिन सभी बच्चों की कार्यपुस्तिका की जांच करें।
- बच्चों द्वारा कार्यपुस्तिका ट्रैकर को भरना सुनिश्चित करें।
- दैनिक कार्य पूरा होने पर वार्षिक ट्रैकर भरें।

सप्ताह 11 और 22 में



- कार्यपुस्तिका में दिए सावधिक आकलन प्रपत्र के माध्यम से प्रतिदिन पहले कालांश में आकलन करें।
- क्रमशः रेमीडीयल गतिविधि को दोहराएँ।
- प्रत्येक बच्चे का सावधिक आकलन प्रपत्र में किए गए प्रदर्शन के अनुसार सावधिक ट्रैकर में ग्रेड दर्ज करें।

व्यवधान आने पर



- अभिभावकों को दैनिक रूप से घर पर पढ़ाई करवाने के लिए प्रेरित करें।
- अभिभावकों और बच्चों के साथ संवाद करते रहें।
- व्यवधान की अवधि के अनुसार दी गई रणनीति के अनुसार तैयारी और शिक्षण कार्य करें।

विषय सूची



वार्षिक ट्रैकर ----- 4-5
शिक्षक के लिए स्वयं साप्ताहिक कार्य में प्रगति को आंकने के लिए वार्षिक ट्रैकर दिया गया है।



संदर्शिका का उपयोग ----- 6-7
संदर्शिका के सभी भागों के मुख्य बिंदुओं को और उपयोग से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं का चरणवार विवरण दिया गया है।



निपुण भारत और मिशन प्रेरणा ----- 10-11
निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को केंद्र में रखकर इस संदर्शिका को बनाया गया है। ये बच्चों में विकासोन्मुख लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारा मार्गदर्शन करेगा।



बुनियादी गणित सीखने के सिद्धांत ----- 12-14
प्रारम्भिक कक्षाओं के बच्चों के साथ सीखने-सिखाने के मूलभूत सिद्धांतों को इस भाग में प्रस्तुत किया गया है। पूरे अकादमिक योजना के निर्माण में इन सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया है जो प्रभावशाली शिक्षण कार्य के लिए महत्वपूर्ण है।



सामाजिक – भावनात्मक जुड़ाव ----- 15
संदर्शिका में बुनियादी गणित की दक्षताओं पर कार्य करने से साथ-साथ सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव के पहलुओं पर कार्य करने के लिए आवश्यक जानकारी पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिये गये हैं।



अकादमिक योजना ----- 16-35
वार्षिक योजना से दैनिक शिक्षण योजना तक की रूपरेखा संदर्शिका में प्रस्तुत की गई है। यह आपको लक्षित दक्षताओं को प्राप्त करने में नियमित रूप से मार्ग दर्शन करेगा। सतत् आकलन (साप्ताहिक और सावधिक) व्यवस्थित रूप से साप्ताहिक और दैनिक योजना में एकीकृत किया गया है।



2022-23	वार्षिक योजना -----	18-21
सप्ताह	साप्ताहिक योजना -----	22
दिन	दैनिक योजना -----	23
	आकलन एवं पुनरावृत्ति -----	24-26
① ② ③	कालांशवार की रणनीतियाँ और संसाधन -----	27-35



शिक्षण सामग्री और संसाधन ----- 36—144

इस भाग में उपयोग में आने वाली सभी शिक्षण सामग्री का विवरण दिया गया है। संदर्शिका में उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के तरीकों को चरणबद्ध तरीके से बताया गया है। सभी शिक्षण योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य हैं जो बच्चों को क्रमिक रूप से लक्षित दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करेंगे।



सप्ताहवार शिक्षण सामग्री ----- 36—126



शिक्षण अधिगम सामग्री ----- 127—129



कक्षा प्रबंधन ----- 130—131

बच्चों के सक्रिय प्रतिभाग के लिए सौहार्दपूर्ण और भयरहित वातावरण आवश्यक है। इस भाग में कक्षा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई है।



व्यवधान संभावनाएँ ----- 132—133

इस भाग में संभावित व्यवधानों को ध्यान में रखते हुए रणनीतियाँ दी गई हैं। व्यवधान के प्रबंधन के लिए अभिभावकों के साथ मिलकर बच्चों के सीखने को निरन्तर रखने पर बल दिया गया है।



अभिभावकों की भूमिका ----- 134—135

इस भाग में बच्चों के दैनिक शिक्षण कार्य का अभिभावक द्वारा नियमित रूप से सहयोग और इसके लिए अभिभावकों को प्रेरित करने में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा की गई है।



आकलन ट्रैकर

इस भाग में शिक्षक और बच्चों के आकलन के लिए ट्रैकर दिए गए हैं। ये ट्रैकर शिक्षक को अपने कार्य और बच्चों की प्रगति की जानकारी को व्यवस्थित रूप से रखने में मदद करेंगे।



साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 1 ----- 136—137



सावधिक आकलन ट्रैकर 1 ----- 138—139



साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2 ----- 140—141



सावधिक आकलन ट्रैकर 2 ----- 142—143

निपुण भारत और मिशन प्रेरणा




राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन की स्थापना की गई है। इस मिशन के तहत विद्यालयों में ऐसे अनुकूल वातावरण बनाने पर जोर दिया गया है जिसमें बच्चों की बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को सीखने के लिए सुनिश्चित किया जा सके, जिससे प्रत्येक बच्चा ग्रेड-3 के बाद पठन, लेखन और संख्या ज्ञान कौशल की अपेक्षित क्षमताओं को प्राप्त कर ले। ये मिशन 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की अधिगम जरूरतों पर केंद्रित है। इस मिशन को निपुण भारत (आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल) का नाम दिया गया है।

निपुण भारत मिशन का लक्ष्य


निपुण भारत मिशन के तहत दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना है। इन दीर्घकालिक लक्ष्यों को 2026-27 तक प्राप्त करने के लिए कार्य किया जायेगा। निपुण भारत कार्यक्रम के वृहत्तर लक्ष्यों को नीचे देखा जा सकता है।

समझ के साथ पढ़ना



बुनियादी साक्षरता के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है "समझ के साथ पढ़ना"। बच्चा जब किसी पाठ को पढ़कर उसका अर्थ समझने लगे तब माना जाता है कि वह समझ के साथ पढ़ रहा है। समझ के साथ पढ़ने के लिए कुछ बेहद जरूरी चरण होते हैं उनपर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जायेगा। जैसे कि ध्वनि जागरूकता, वर्ण पहचान, डिफ़ोडिंग और पठन।

बुनियादी गणितीय संक्रिया



बुनियादी गणित में संक्रियाओं की समझ एक महत्वपूर्ण घटक है। जोड़, घटाव, गुणा और भाग केवल संख्याओं का अमूर्त उपयोग नहीं है। इन संक्रियाओं का अनुप्रयोग दैनिक जीवन में व्यापक रूप में होता है। ये संक्रियाएँ विषयवस्तु के विश्लेषण, वर्णन और जीवन के संदर्भ में सरल समस्याओं की व्याख्या और समाधान के लिए उपयोगी हैं।

लिखना



समझ के साथ पढ़ने के साथ ही लिखने के कौशल का विकास भी बुनियादी साक्षरता के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। समझ के साथ लिखने का कौशल विकसित करने के लिए बच्चों को क्रमशः उनकी लेखन क्षमता को देखते हुए विभिन्न चरणों से गुजरना होगा।

जीवन के बुनियादी कौशल




निपुण भारत मिशन को केवल बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर ही केंद्रित नहीं किया गया है बल्कि बच्चों को विद्यालय और घर में ऐसा माहौल भी देना है जिससे वे जीवन जीने के कुछ बुनियादी कौशल भी हासिल कर पाएँ। इसके लिए बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने की गतिविधियाँ की जाएँगी।

बुनियादी शिक्षा के लिए सीखने के परिणामों के विकासात्मक लक्ष्य


दिए गए लक्ष्यों के साथ ही निपुण भारत के अन्तर्गत तीन विकासात्मक लक्ष्य भी दिए गए हैं।



बच्चे अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती बनाए रखें




बच्चे प्रभावी संचारक बनें



बच्चे विकसित शिक्षार्थी बनें और अपने परिवेश से जुड़ें

निपुण भारत मिशन का उद्देश्य


निपुण भारत मिशन के दीर्घकालीन वृहत्तर लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कुछ उद्देश्य रखे गए हैं, इन उद्देश्यों पर काम करते हुए निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।



खेल, खोज और गतिविधि-आधारित शिक्षण



शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षा प्रशासकों का क्षमता संवर्धन



बच्चों को स्वतंत्र रूप से समझ के साथ पढ़ने और लिखने लायक बनाना



आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाना



बच्चों की परिचित/घर/मातृभाषा (भाषाओं) में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।



सभी विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को देखते रहने के लिए सतत आकलन करना

निपुण भारत एवं मिशन प्रेरणा



निपुण भारत मिशन को साकार करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश में 'मिशन प्रेरणा' के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है ताकि 2025-2026 तक कक्षा 1-3 के सभी बच्चे बुनियादी भाषा और गणित की लक्षित दक्षताओं को हासिल कर पाएँ।

इस शिक्षक संदर्शिका में हम गणित से सम्बन्धित उद्देश्यों, गतिविधियों और शिक्षण सामग्री को उपयोग में लेते हुए कार्य करेंगे, इस पर विस्तार से बात की गई है।



बुनियादी गणित सीखने के सिद्धांत

बुनियादी गणित सीखने-सिखाने का क्रम

गणित शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो बच्चों में समझ आधारित अनुप्रयोग की दक्षता को विकसित करे। इसके लिए शिक्षण कार्य के दौरान बच्चों के अनुभव और परिवेश को गणितीय अवधारणाओं से जीवंत रूप में जोड़ना आवश्यक है।

ELPS का यह सिद्धांत पामेला लिएबेक (PAMELA LIEBECK) द्वारा 1984 में दिया गया था।



1- Experience with solid/concrete objects

ठोस/मूर्त वस्तुओं के द्वारा अनुभव: शिक्षक बच्चों को परिवेश में उपलब्ध ठोस वस्तुओं (पत्तियाँ, फूल, कांच की गोलियाँ और इमली के बीज आदि) के माध्यम से संख्या बोध कराएँ और इन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करते हुए गिनने, जोड़ने और घटाव करने की अवधारणाएँ सिखायें।



2- Language

ज्ञानेन्द्रियों द्वारा मूर्त वस्तुओं को अनुभव करते समय शिक्षक और बच्चों के मध्य वार्तालाप। शिक्षक बच्चों से ठोस/मूर्त वस्तुओं के प्रयोग के समय प्रश्न पूछते हैं, बच्चे उत्तर देते हैं, निर्देशानुसार बच्चे गतिविधि करते हुए दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रहती है।



3- Pictures

चित्रों के प्रदर्शन के द्वारा समझ: शिक्षक चित्रों को दिखाकर उनसे बातचीत करते हुए "संख्या समझ" की पुनरावृत्ति करते हैं। इस प्रक्रिया में बच्चों और शिक्षक के बीच लगातार बातचीत चलती रहती है।



4- Symbols

संकेत/प्रतीक: प्रक्रिया के अंत में शिक्षक बच्चों और गणितीय संकेतों/प्रतीकों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए संकेतों + (जोड़), - (घटाव), X (गुणा), ÷ (भाग), = (बराबर), > (छोटी संख्या), < (बड़ी संख्या) का बोध कराएँ।

स्रोत: आधारशिला, शिक्षक हस्तपुस्तिका (2019-2020), समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश

सीखने की प्रक्रिया



मैं करूँ




हम करें



तुम करो

कक्षा में बच्चों की सहभागिता शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाती है जिसके लिए इस प्रक्रिया में सभी बच्चों का शामिल होना अनिवार्य है। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक को अवधारणा की समझ पर कार्य करने के साथ-साथ बच्चों में स्वतंत्र रूप से अपनी समझ का अनुप्रयोग/उपयोग करने के कौशलों के विकास पर भी बल देने की आवश्यकता है। संदर्शिका में दी गई शिक्षण योजनाओं को इस प्रकार बनाया गया है जो शिक्षक द्वारा अवधारणा का परिचय (मैं करूँ), बच्चों के साथ मिलकर मूर्त वस्तुओं के साथ कार्य (हम करें) और बच्चों के स्वतंत्र कार्य का अवलोकन (तुम करो) की क्रमवार प्रक्रिया पर आधारित है।

सीखने की प्रक्रिया




सीखना एक सतत् प्रक्रिया है— यह बच्चों के लिए उतनी ही स्वाभाविक एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जितना कि वयस्कों के लिए। इस प्रक्रिया में सीखने वाले (बच्चे) सक्रिय तौर पर नए अनुभवों को ग्रहण करते और बढ़ते हैं। वे नए अनुभवों को अपने मस्तिष्क में व्यवस्थित करके नये विचारों को बनाते हैं। इस तरह से प्रत्येक नया अनुभव, उसके पहले के (सम्बन्धित) अनुभवों से जुड़ता और उनकी समझ को समृद्ध करता है, या इन नए अनुभवों के कारण पहले के अनुभवों की समझ में बदलाव या संशोधन होता है।

हम शिक्षकों को सीखने की इस प्रक्रिया को याद रखना चाहिए ताकि हम हमेशा सजग रहें कि क्या हम अपने सिखाने के तरीकों, बच्चों को अभ्यास के लिए दिए जाने वाले मौकों, उपयोग में लायी जा रही शिक्षण सामग्री, बच्चों को दिए जा रहे प्रोत्साहन एवं सीखने में आ रही कठिनाई की पहचान कर आवश्यकता अनुसार दी जाने वाली मदद द्वारा लक्षित दक्षताओं के हासिल करने में बच्चों की मदद कर पा रहे हैं। इससे बच्चे अपने पुराने अनुभव और समझ को समृद्ध कर पाएंगे या उनमें संशोधन या बदलाव कर बिलकुल नए अनुभव और समझ की रचना कर पाएंगे, जो उनके आगे के सीखने की यात्रा में उपयोगी सिद्ध होगी।

सीखने-सिखाने के सामान्य सिद्धांत


सीखने-सिखाने के कुछ सामान्य सिद्धांत हैं जो कक्षा-कक्ष में बच्चों के सीखने में प्रभावी रहे हैं। शिक्षक कक्षा में इन सिद्धांतों को अपनाकर कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया को और बेहतर बना सकते हैं।



1. सभी बच्चे सीख सकते हैं: सभी बच्चों में मस्तिष्क की बनावट एक जैसी होती है, इस कारण से सभी बच्चे सीखने की लिए समान रूप से तैयार होते हैं। यह जरूर है कि कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों की तुलना में थोड़े अधिक सहयोग एवं अभ्यास की आवश्यकता हो सकती है। यह प्रायः इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें सीखने के कितने मौके मिले या नियमित रूप से मिलते हैं और इस दौरान क्या इन बच्चों को सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के मौके मिलते हैं?



2. कक्षा में बच्चों के पूर्वज्ञान और अनुभव को इस्तेमाल करना: अगर हम शिक्षण प्रक्रिया को बच्चों के पूर्वज्ञान और अनुभवों से जोड़ दें तो कक्षा प्रक्रिया में एक तरफ जहाँ बच्चों के समझ को मान्यता एवं जगह मिलती है, वही कक्षा कार्य रोचक हो जाता है। बच्चों के पूर्वज्ञान और अनुभवों को शिक्षण प्रक्रिया में जोड़ने से उनकी अभिव्यक्ति के अवसर बढ़ जाते हैं जो सीखने के लिए बहुत ही आवश्यक है।



3. बच्चों को सहपाठियों के साथ सीखने के अवसर देना: शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक केन्द्रित नहीं होनी चाहिए। बच्चे अपने उम्र के साथियों के साथ ज्यादा सहज होते हैं और उनके साथ जुड़कर आसानी से नयी बातें सीख सकते हैं। ऐसे में अगर योजनाबद्ध तरीके से बच्चों को उनके सहपाठियों से/के साथ सीखने के अवसर दिए जाएँ तो परिणाम निश्चित ही बेहतर आएंगे।



4. सीखने में बच्चों की मदद करना: शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में सबसे ज्यादा समय एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहे तो बच्चों को स्वयं से कार्य या अभ्यास करने के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। इस मार्गदर्शन के दौरान शिक्षकों को बच्चों के कार्य का अवलोकन करना चाहिए और बच्चों को समस्या आने पर आवश्यकता के अनुसार उनकी मदद करनी चाहिए।




5. कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना: हमने ऊपर भी अनुकूल वातावरण की बात की है। यह सबसे जरूरी होता है कि कक्षा कार्य सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो। इसके लिए शिक्षक कक्षा की शुरुआत में गीत/कविता/खेल आदि करा सकते हैं। शिक्षक-बच्चों के मध्य और बच्चों के आपसी सम्बन्ध जितने सहज होंगे, सीखने की प्रक्रिया उतनी ही रोचक और बेहतर परिणाम देने वाली होगी।



6. सीखने की प्रक्रिया में सभी बच्चों का जुड़ाव सुनिश्चित करना: शिक्षक के तौर पर हमारी शिक्षण प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिसमें सभी बच्चे सीख सकें। इसके लिए बच्चों के अनुभव और अधिगम स्तर को देखते हुए उन्हें समूहों में बाँटा जा सकता है और शिक्षण की अलग-अलग रणनीतियाँ बनाई जा सकती हैं।



7. सोचने के मौके और प्रोत्साहन देना: कक्षा प्रक्रिया के दौरान हमारी शिक्षण रणनीति कुछ ऐसी होनी चाहिए, जिसमें बच्चों को थोड़ा रुककर सोचने के मौके मिलें। साथ ही उन्हें कक्षा कार्य में सहभागिता के दौरान सतत् रूप से प्रोत्साहित भी करते रहना चाहिए।



8. बच्चों के घर की भाषा का उपयोग और विस्तृत बातचीत के अवसर देना : प्रारम्भिक कक्षाओं के बच्चे सबसे ज्यादा अपने घर की भाषा में सहज होते हैं और इसके साथ ही इस भाषा में वे मौखिक रूप से बहुत सारे चिंतन संबन्धित कार्य करते हैं। इसलिए उनके घर की भाषा और इस चिंतन कौशल का उपयोग कक्षा प्रक्रिया में एक संसाधन के रूप में करना चाहिए। बच्चों को बातचीत के जितने अवसर मिलेंगे वे भाषाई रूप से उतने ही बेहतर बनेंगे। साथ में, उनमें अभिव्यक्ति क्षमता और कल्पना शक्ति का भी विकास होगा। सीखने की प्रक्रिया में यह एक कारगर कदम है।



9. सतत आकलन : कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए सतत् आकलन सीखने के चरणों में बेहद जरूरी चरण है। सतत् आकलन द्वारा शिक्षक यह पता लग सकते हैं कि कौन-सा बच्चा अभी किस स्तर पर है और कौन-सी शिक्षण रणनीति ज्यादा कारगर है।



10. सामाजिक और भावनात्मक विकास पर काम : तमाम शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि अगर बच्चे सामाजिक और भावनात्मक रूप से मजबूत हैं तो उनका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होता है। ऐसे में शिक्षक, बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास के अलग-अलग पहलुओं पर भी काम करें। सामाजिक और भावनात्मक विकास पर विस्तृत चर्चा इस संदर्शिका में आगे की गई है।

सामाजिक—भावनात्मक जुड़ाव

बच्चों के साथ कक्षा-कक्ष में काम शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव में कौन-कौन से घटक शामिल हैं।

1. लक्ष्य तय करना



बच्चे स्वयं या शिक्षकों और अभिभावकों की मदद से यह तय कर पाएँ कि उन्हें किसी निश्चित समय में क्या करना है और उसके लिए क्या-क्या उपाय किये जा सकते हैं।

2. व्यवहार में संतुलन रखना




व्यवहार में संतुलन रखना भी एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसमें एक-दूसरे से व्यवहार करना, अपने भावनाओं को कैसे और कब तथा कितना व्यक्त करना है इस पर ध्यान दिया जाता है।

3. सूचनाओं को समझना और निर्णय लेना—



सूचनाओं की समझ और उसके आधार पर निर्णय लेने का कौशल भी इसी में आता है। सूचनाओं के आधार पर व्यवहार और समाज सम्मत निर्णय के कौशलों का विकास किया जाता है।

4. बेहतर सम्बन्ध का निर्माण करना



एक सामाजिक प्राणी के रूप में हम एक-दूसरे से कैसे बेहतर तरीके से सम्बन्ध बनाकर रखें, समूह में काम कैसे करें जैसे आयाम भी सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव के हिस्से हैं।

कक्षा 1 से 3 में सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव की रणनीति

प्रारम्भिक कक्षाओं में बच्चों के साथ सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव पर कार्य करना आवश्यक है। संदर्शिका में शिक्षण के लिए दी गई योजनाओं और विभिन्न गतिविधियों में सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव के घटक को एकीकृत रूप से शामिल किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार से है।



शिक्षण योजना



अभ्यास गतिविधि



समेकन गतिविधि



रेमीडीयल गतिविधि




कार्य पत्रक

- संवाद और प्रश्नों के माध्यम से बच्चों से बातचीत करना।
- प्रत्येक कार्य से पहले बच्चों को निर्देश और लक्ष्य को स्पष्ट करना।
- बच्चों को स्वयं को अभिव्यक्त करने और अपने अनुभव को साझा करने के लिए प्रेरित करना।
- बच्चों को स्वयं द्वारा किए गए कार्यों और उसके लिए अपनाई गयी प्रक्रिया की व्याख्या करने के अवसर देना।
- बच्चों के साथ समस्या को हल करने के लिए उपयोग की गई विधि और उसके चयन के तर्क पर बातचीत करना।
- बच्चों को अपनी गणितीय समझ को दैनिक जीवन के अनुभव से गतिविधि के माध्यम से जोड़ना।
- दैनिक जीवन में होने वाली गणितीय प्रक्रियाओं को गतिविधि के माध्यम से समझने के अवसर देना।
- किसी भी कार्य को एक से ज्यादा विधि से करने और समझने के अवसर देना।
- बच्चों को स्वतंत्र रूप से और समूह में कार्य करने के पर्याप्त अवसर देना।
- गतिविधि के दौरान बच्चों को एक-दूसरे को सहयोग करने के लिए प्रेरित करना।

अधिगम क्षति

अधिगम क्षति और उसको कम करने की जरूरत



कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 के मार्च माह से ही विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित रहा है, जिसके कारण बच्चों में अधिगम की क्षति हुई है। यह क्षति सिर्फ अधिगम तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि बच्चों ने इस दौरान अपने परिजनों को भी खोया है, जिसके कारण बच्चों पर मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी प्रभाव पड़ा है। इस दौरान हुए अधिगम क्षति के कारक इस प्रकार हैं।

- विद्यालय बंद होने के कारण कक्षाएं सुचारु रूप से नहीं चल सकीं।
- बच्चों को शिक्षकों का पर्याप्त मार्गदर्शन व सहयोग नहीं मिल सका।
- कोविड से पूर्व प्राप्त दक्षताओं को बच्चे भूल गए।
- उम्र के अनुसार दक्षताओं में कमी पायी गयी।
- बच्चे अपनी भावनाओं और मनोभावों को व्यक्त कर पाने में असमर्थ पाये गए आदि।

बुनियादी गणित में हुई अधिगम क्षति

कोरोना काल में बच्चों के अधिगम पर हुए प्रभाव को समझने के लिए कई शोध हुए हैं, जो हमें लम्बे समय तक विद्यालय के बंद रहने के दौरान हुए अधिगम क्षति का आकलन कर क्षति के स्तर को समझने में मदद करते हैं।

20%

बच्चों ने दो अंकों की संख्याओं (21–30) में संख्यांक को पढ़ने की क्षमता को खो दिया है।

23%

बच्चों ने दो अंकों की संख्याओं को जोड़ (चित्रों के माध्यम से) पाने की क्षमता को खो दिया है।

23%

बच्चों ने अपने परिवेश के 3D मूर्त आकृतियों को पहचानने की क्षमता को खो दिया है।

14%

बच्चों ने दैनिक जीवन की समस्याओं को घटाव के माध्यम से हल करने की क्षमता को खो दिया है।

शोध के आँकड़े और निष्कर्ष एक ऐसी अकादमिक योजना की आवश्यकता की ओर इशारा करते हैं जिसमें हम चरणबद्ध तरीके से बच्चों के साथ काम करते हुए उन्हें अपेक्षित अधिगम स्तर तक ले जाएँ। अधिगम क्षति पूर्ति के लिए सामान्य तौर पर हम रेमीडीयल योजना के सहयोग से एक तय समय के लिए बच्चों के साथ कार्य करते हैं। कोरोना महामारी के कारण विशेष परिस्थिति सामने आई है, जिसके लिए हमें विशेष योजना बनानी होगी जो क्षति को पाटने के साथ-साथ बच्चों को कक्षा स्तर पर आने में मदद करें। आप संदर्शिका में दी गई अकादमिक योजना की आवश्यकता को समझने के लिए इन रिपोर्ट का अध्ययन कर सकते हैं। (स्रोत 1)

इस शिक्षक संदर्शिका में 2 वर्षीय अकादमिक योजना (2022–24) दी गयी है, जिसके क्रियान्वयन से अधिगम क्षति पूर्ति को कम करते हुए हम बच्चों में बुनियादी कौशलों के विकास पर कार्य कर पाएंगे। इस विशेष योजना में जिन दक्षताओं को केंद्र में रखकर कार्य किया जाएगा उन्हें प्रेरणा सूची में प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। सत्र 2022–23 में पिछले और वर्तमान कक्षा की उन दक्षताओं पर कार्य किया जाएगा, जिन्हें बच्चों द्वारा ग्रहण करना एवं उसमें महारत प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। सत्र 2023–24 में बच्चों के अधिगम स्तर को आगे बढ़ाया जायेगा ताकि वे कक्षा स्तर पर कार्य करने के लिए तैयार हो सकें। अकादमिक सत्र 2022–23 की लक्षित दक्षताओं का विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है। (स्रोत 2 और 3)

स्रोत 1– azimpremjiuniversity-edu-in/field-studies-in-education/loss-of-learning-during-the-pandemic

स्रोत 2– <https://blogs-worldbank-org/education/getting-back-learning-key-policy-actions-reopening-schools>

स्रोत 3– <https://www-the74million-org/a-better-equation-new-pandemic-data-supports-acceleration-rather-than-remediation-to-make-up-for-covid-learning-loss/>

2022–23 के लिए लक्षित दक्षताएँ

दक्षताएँ : 2022–23

एक शिक्षक के तौर पर आप यह बेहतर तरीके से जानते और समझते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य बच्चों में लक्षित दक्षताओं का विकास करना होता है। ये दक्षताएँ विषयवार अलग-अलग होती हैं और कक्षावार क्रमिक रूप से आगे बढ़ती हैं। लक्षित दक्षताएँ नीचे दी गयी सूची में वर्णित हैं।



संख्या समझ

- संख्या पूर्व अवधारणाओं (कम-ज्यादा, दूर-पास, एक-एक की संगति आदि) की समझ बना सकें।
- 1-9 तक की संख्याओं के मान व प्रतीकों को समझ और लिख सकें।
- 1-9 तक की संख्याओं की तुलना कर सकें।
- शून्य की अवधारणा को समझ सकें।
- 1-99 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई में समझ और लिख सकें।
- 10-99 तक की संख्याओं को विस्तारित रूप में लिख सकें।
- 1-99 तक की संख्याओं की तुलना कर सकें।
- 1-99 तक की संख्याओं को आगे और पीछे के क्रम में गिन और लिख सकें।
- स्थिर अंतराल में (2,3,4,5,10) गिनती बोल और लिख सकें।



33 शिक्षण उद्देश्य



संक्रिया

- एक अंक की संख्याओं का जोड़ और घटाव कर सकें।
- एक अंक की संख्याओं को शून्य के साथ जोड़ और घटाव कर सकें।
- दो अंकों की संख्याओं का जोड़ और घटाव कर सकें (बिना हासिल और हासिल के साथ)।
- एक अंक की संख्याओं का गुणा और भाग कर सकें।



19 शिक्षण उद्देश्य



ज्यामिति व मापन

- परिवेश और चित्रों में दो आयामी आकृतियों को पहचान सकें।
- वस्तुओं की विशेषताएँ जैसे-सरकना और लुढ़कना को पहचान सकें।
- वस्तुओं का विभिन्न अमानक इकाइयों से मापन कर सकें।



5 शिक्षण उद्देश्य



- चित्रों से सामान्य सूचनाएँ इकट्ठा कर अनुमान लगा सकें।
- सिक्कों और नोटों को पहचान सकें।
- चित्रों और संख्या पैटर्न को पहचानकर आगे बढ़ाना।



3 शिक्षण उद्देश्य



ELPS सिद्धांत के अनुसार गणित का संचयी प्रकृति और सोपान क्रमिकता को ध्यान में रखते हुए लक्षित दक्षताओं पर योजनबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए दक्षताओं को 60 शिक्षण उद्देश्यों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक शिक्षण उद्देश्य के लिए शिक्षण योजना, अभ्यास गतिविधि और अभ्यास पत्रक (कार्यपुस्तिका) दिए गए हैं।

वार्षिक योजना

प्रति सप्ताह संसाधन



3 शिक्षण योजना



3 अभ्यास गतिविधि



1 समेकन गतिविधि



1 रेमीडीयल गतिविधि



7 कार्यपत्रक

शिक्षक संदर्शिका

कार्यपुस्तिका



नमूने के रूप में दी गई गतिविधि के आधार पर समेकन गतिविधि और रेमीडीयल गतिविधि बनाएँ।

सप्ताह	साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्य	पृष्ठ संख्या				
सप्ताह 1	<ul style="list-style-type: none"> ● कम-ज्यादा की समझ बना सकें। ● दूर-पास की समझ बना सकें। ● छोटा-बड़ा की समझ बना सकें। 	37 to 39	40	41	42	13 to 19
सप्ताह 2	<ul style="list-style-type: none"> ● आगे-पीछे की समझ बना सकें। ● ऊपर-नीचे की समझ बना सकें। ● हल्का-भारी की समझ बना सकें। 	43 to 45	46			20 to 26
सप्ताह 3	<ul style="list-style-type: none"> ● लम्बाई-मोटाई-ऊँचाई की समझ बना सकें। ● आकार और वजन की समझ बना सकें। ● बंटवारा करने की समझ बना सकें। 	47 to 49	50			27 to 33
सप्ताह 4	<ul style="list-style-type: none"> ● एक-एक की संगति व समूह की समझ बना सकें। ● 1-5 तक की संख्याओं के मान को समझ सकें। (ठोस वस्तुओं और चित्रों के साथ)। ● 1-5 तक की संख्याओं के प्रतीकों को समझ और लिख सकें। 	51 to 53	54	55	56	34 to 40
सप्ताह 5	<ul style="list-style-type: none"> ● 1-9 तक की संख्याओं के मान को समझ सकें। (ठोस वस्तुओं और चित्रों के साथ)। ● 1-9 तक की संख्याओं के प्रतीकों को समझ और लिख सकें। ● 1-9 तक की संख्याओं के मान और क्रमांक की समझ में अन्तर कर सकें। (Cardinality and Ordinality) 	57 to 59	60			41 to 47

सप्ताह

साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्य

पृष्ठ संख्या


सप्ताह
6

- 1-9 तक की संख्याओं को आगे और पीछे के क्रम में गिन और लिख सकें।
- शून्य की अवधारणा को समझ सकें।
- बन्डल (2, 3, 4, 5, 10) बनाने की समझ बना सकें।




सप्ताह
7

- 1-20 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई में समझ सकें। (ठोस वस्तुओं और चित्रों के साथ)।
- 1-20 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई में लिख सकें। (प्रतीक के द्वारा)।
- 1-20 तक की संख्याओं को आगे और पीछे के क्रम में गिन और लिख सकें।



सप्ताह
8

- 1-50 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई में समझ सकें। (ठोस वस्तुओं और चित्रों के साथ)।
- 1-50 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई में लिख सकें। (प्रतीक के द्वारा)।
- 1-50 तक की संख्याओं की तुलना कर सकें।



सप्ताह
9

- 1-50 तक की संख्याओं को आगे और पीछे के क्रम में गिन और लिख सकें।
- 1-99 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई में समझ सकें। (ठोस वस्तुओं और चित्रों के साथ)।
- 1-99 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई में लिख सकें।



सप्ताह
10

- 1-99 तक की संख्याओं की तुलना कर सकें।
- 1-99 तक की संख्याओं को आगे और पीछे के क्रम में गिन और लिख सकें।
- स्थिर अंतराल में (2, 3, 4, 5, 10) गिनती बोल और लिख सकें।



सप्ताह
11

- सावधिक आकलन (सप्ताह 1-10)।
- आकलन प्रपत्र के माध्यम से प्रतिदिन सप्ताहवार सभी बच्चों का आकलन करें।
- क्रमशः सप्ताहवार रेमीडीयल गतिविधि को दोहराएँ।



सप्ताह

साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्य

पृष्ठ संख्या

सप्ताह
12

- 1-99 तक की संख्याओं को क्रम में लिख और छोटी-बड़ी संख्या बता सकें।
- 10-50 तक की संख्याओं को विस्तारित रूप में लिख सकें।
- 51-100 तक की संख्याओं को विस्तारित रूप में लिख सकें।

 83 to 85	 86	 	 	 95 to 101
--	--	--	--	---


सप्ताह
13

- एक अंक की संख्याओं को (वस्तुओं और चित्रों के साथ) जोड़ सकें।
- एक अंक की संख्याओं को लम्बवत रूप में जोड़ सकें।
- एक अंक की संख्याओं को (वस्तुओं और चित्रों के साथ) घटाव कर सकें।

 87 to 89	 90	 	 	 102 to 108
--	--	--	--	--








सप्ताह
14

- एक अंक की संख्याओं को लम्बवत रूप में घटाव कर सकें।
- एक अंक की संख्याओं को शून्य के साथ जोड़ और घटाव कर सकें।
- दो अंकों की संख्याओं को (वस्तुओं और चित्रों के साथ) बिना हासिल के जोड़ सकें।

 91 to 93	 94	 	 	 109 to 115
--	--	--	--	--






सप्ताह
15

- दो अंकों की संख्याओं को लम्बवत रूप में बिना हासिल के जोड़ सकें।
- दो अंकों की संख्याओं को (वस्तुओं और चित्रों के साथ) हासिल के साथ जोड़ सकें।
- दो अंकों की संख्याओं को लम्बवत रूप में हासिल के साथ जोड़ सकें।

 95 to 97	 98	 	 	 116 to 122
--	--	--	--	--



सप्ताह
16

- दो अंकों की संख्याओं को (वस्तुओं और चित्रों के साथ) बिना हासिल के घटाव कर सकें।
- दो अंकों की संख्याओं को लम्बवत रूप में बिना हासिल के घटाव कर सकें।
- दो अंकों की संख्याओं को (वस्तु और चित्र के साथ) हासिल के साथ घटाव कर सकें।

 99 to 101	 102	 103	 104	 123 to 129
---	---	--	--	--

सप्ताह
17

- दो अंकों की संख्याओं को लम्बवत रूप में हासिल के साथ घटाव कर सकें।
- गुणा की अवधारणा को बार-बार जोड़ (एक अंक) के संदर्भ में समझ सकें।
- गुणा की अवधारणा को समूह और समूह में वस्तुओं की संख्या (एक अंक) के संदर्भ में समझ सकें।

 105 to 107	 108	 	 	 130 to 136
---	---	--	--	--

सप्ताह

साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्य

पृष्ठ संख्या

सप्ताह
18

- एक अंक की संख्याओं को गुणा कर सकें।
- वस्तुओं (9 तक) को बराबर बाँट सकें।
- भाग की अवधारणा को बार-बार घटाव (एक अंक) के संदर्भ में समझ सकें।



सप्ताह
19

- एक अंक की संख्याओं को भाग कर सकें।
- परिवेश और चित्रों में दो आयामी आकृतियों को पहचान सकें।
- वस्तुओं की विशेषताएँ जैसे सरकना और लुढ़कना को पहचान सकें।




सप्ताह
20

- विभिन्न आकृतियों को मिला कर नई आकृतियों को बना सकें
- वस्तुओं को विभिन्न असमान अमानक इकाइयों से मापन कर सकें। (कदम, पैर, अंगुली, बालिशत और हाथ)।
- वस्तुओं का विभिन्न समान अमानक इकाइयों से मापन कर सकें। (पेंसिल और डस्टर आदि)।



सप्ताह
21

- सिक्कों और नोटों को पहचान सकें।
- चित्रों और संख्या पैटर्न को पहचानकर आगे बढ़ाना।
- चित्रों से सामान्य सूचनाएं इकट्ठा कर अनुमान लगा सकें।














































सप्ताह
22

- सावधिक आकलन (सप्ताह 12-21)
- आकलन प्रपत्र के माध्यम से प्रतिदिन सप्ताहवार सभी बच्चों का आकलन करें।
 - क्रमशः सप्ताहवार रेमीडीयल गतिविधि को दोहराएँ।















साप्ताहिक एवं दैनिक योजना

साप्ताहिक योजना को 3 चरणों में बाँटा गया है। 1. अनुदेशात्मक कार्य 2. समेकन और आकलन 3. रेमीडीयल और पुनरावृत्ति। प्रत्येक चरण के लिए संदर्शिका में उपयुक्त शिक्षण और अधिगम सामग्री दी गई है।

दिन	संसाधन	कालांश			विवरण	ट्रैकर
		1	2	3		
1 अनुदेशात्मक कार्य	 3 शिक्षण योजना (शिक्षण संदर्शिका)		1		3 कालांश को योजना में रिक्त रखा गया है जिसे शिक्षक कक्षा की आवश्यकता के अनुसार उपयोग करें।	 वार्षिक ट्रैकर
	 3 अभ्यास पत्रक (कार्यपुस्तिका)		2			
	 3 अभ्यास गतिविधि (शिक्षण संदर्शिका)		3			
						
5 समेकन और आकलन	 समेकन गतिविधि (शिक्षण संदर्शिका)				शिक्षक प्रत्येक बच्चे के प्रगति की जानकारी ट्रैकर में भरें	
	 'मैंने सीख लिया' आकलन पत्रक (कार्यपुस्तिका)				रिक्त कालांश का उपयोग समेकन गतिविधि के लिए आवश्यकता के अनुसार करें।	 
6 रेमीडीयल और पुनरावृत्ति	 रेमीडीयल गतिविधि (शिक्षण संदर्शिका)				रेमीडीयल समूह पर विशेष ध्यान दें जिससे बच्चों को अगली अवधारणाओं को समझने में कठिनाई ना हो।	
	 साप्ताहिक अभ्यास (कार्यपुस्तिका)					
	 साप्ताहिक पुनरावृत्ति (कार्यपुस्तिका)					
सावधिक आकलन साप्ताहिक	1-10  सावधिक आकलन पत्रक (कार्यपुस्तिका)				शिक्षक प्रत्येक बच्चे के प्रगति की जानकारी ट्रैकर में भरें	

दैनिक योजना में चरणवार सभी कालांशों का विवरण दिया गया है। यहाँ हर चरण और कालांश में उपयोग किए जाने वाले संदर्भ सामग्री को चिन्हित किया गया है और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा किया गया है।

दिन	कालांश ① ② ③	कालांश ① ② ③	कालांश ① ② ③
अनुदेशात्मक कार्य	1  शिक्षण योजना कक्षा कार्य की शुरुआत	1,2,3  अभ्यास पत्रक क्रमशः बच्चों द्वारा कक्षा कार्य	 अभ्यास गतिविधि क्रमशः बच्चों द्वारा कक्षा कार्य
	2 बच्चों से प्रश्न पूछें और सभी को कक्षा संवाद में शामिल करें।	प्रश्नों के उदाहरण श्यामपट्ट पर देकर, पत्रक पर कार्य के लिए निर्देश दें।	प्रश्न और संवाद के माध्यम से हो रही गलतियों को समझाएँ।
	3 क्या 70% छात्रों ने शिक्षण योजना में दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दिया?	 हाँ: कालांश में अभ्यास पत्रक पर कार्य कराए	अभ्यास पत्रक पूर्ण होने के बाद कालांश में अभ्यास गतिविधि करवाएँ।
	4	 नहीं: कालांश में शिक्षण योजना को दोहराएँ।	
समेकन और आकलन	5  समेकन गतिविधि तीनों शिक्षण योजनाओं का साप्ताहिक समेकन	आवश्यकता के अनुसार समेकन गतिविधि के लिए कालांश का उपयोग करें।	 'मैंने सीख लिया' पत्रक सभी बच्चों का साप्ताहिक आकलन
	प्रश्न और संवाद के माध्यम अवधारणाओं को दोहराएँ।		बच्चों को उत्तर के अनुसार साप्ताहिक अभ्यास या रेमीडीयल गतिविधि के लिए चिह्नित करें।
रेमीडीयल और पुनरावृत्ति	6 साप्ताहिक आकलन के अनुसार कक्षा के बच्चों को दो समूह में बाँटें।	आवश्यकता के अनुसार रेमीडीयल गतिविधि के लिए कालांश का उपयोग करें।	 साप्ताहिक पुनरावृत्ति पत्रक सभी बच्चों से एक साथ कक्षा कार्य।
	 रेमीडीयल गतिविधि समूह के बच्चों की कठिनाइयों को समझते हुए कक्षा कार्य करवाएँ।		 गृह कार्य {अभ्यास पुस्तिका} अभिभावकों से संवाद करें और बच्चों के गृहकार्य में सहयोग के लिए उन्हें प्रेरित करें।
सावधिक आकलन सप्ताह	1-10  सावधिक आकलन पत्रक सभी बच्चों का सावधिक आकलन	 रेमीडीयल गतिविधि सभी बच्चों के साथ कक्षा कार्य	आवश्यकता के अनुसार रेमीडीयल गतिविधि के लिए कालांश का उपयोग करें।

आकलन एवं पुनरावृत्ति

आकलन अपने आप में कोई अलग प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह शिक्षण कार्य का ही अभिन्न अंग है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए दक्षता के अनुसार सतत् आकलन करना शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। आकलन शिक्षण को उद्देश्य आधारित प्रक्रिया बनाता है जिसे नियमित और योजनाबद्ध रूप से किया जाना आवश्यक है।

आकलन एवं उद्देश्य



1. बच्चों की प्रगति को जानना

हर बच्चे के सीखने की गति अलग-अलग होती है। कक्षा के किस बच्चे ने क्या सीख लिया और क्या छूट गया है, इसे तय करने में आकलन हमारी मदद करता है। निश्चित अंतराल में किया गया आकलन व्यवस्थित तौर पर बच्चों के सीखने के स्तरों का बारीक तौर पर विश्लेषण करने में सहायक होता है।



2. सीखने में आ रही कठिनाइयों को जानना

बच्चों को अवधारणों को समझने या किसी भी अवधारणा के अनुप्रयोग में आ रही कठिनाइयों को समझने में सतत् आकलन बहुत ही प्रभावी होता है। आकलन के दृष्टिकोण से किए गए प्रश्न और संवाद बच्चों द्वारा की गई सामान्य भूल को भी उजागर करता है।



3. बच्चों की मदद के लिए प्रभावी रणनीतियाँ बनाना

सुनियोजित आकलन शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर करने का कार्य करता है। शिक्षण कार्य की तैयारी में मदद और बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उनके लिए प्रभावी रणनीति बनाने में मार्गदर्शन करता है।



4. आगे की शिक्षण योजना बनाना

आकलन आगे की शिक्षण कार्ययोजना के लिए संदर्भ बिंदु की तरह हैं। आकलन बच्चों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण योजना में बदलाव के विकल्प ढूँढने में मदद करता है।

आकलन और शिक्षण को एक समग्र और एकीकृत प्रक्रिया के रूप में देखना अधिगम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है।

- यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को सीखने के लिए न्यूनतम समय और अभ्यास के उचित अवसर मिलें।
- बच्चों की उपलब्धियों को जाँचते रहें और विश्लेषण के माध्यम से यह देखें कि कितने बच्चे लक्षित स्तर पर हैं और कितने लक्षित स्तर से पीछे हैं।
- बच्चों को होने वाली कठिनाइयों को चिह्नित कर लक्षित स्तर तक लाने के लिए उचित रणनीतियों का निर्धारण करें।
- शिक्षण पद्धति में आवश्यकता के अनुसार बदलाव और नई-नई गतिविधियों को योजना में शामिल करें।

आकलन प्रक्रिया

आकलन सतत प्रक्रिया के रूप में साप्ताहिक योजना के तीनों चरणों में लगातार चलती रहेगी। यह शिक्षक को बच्चों को हो रही कठिनाइयों से अवगत और शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाए रखने में मदद करेगी।



अनुदेशात्मक कार्य



कालांश



- अनुदेशात्मक कार्य के दौरान प्रत्येक सप्ताह 3 शिक्षण उद्देश्यों पर बच्चों के साथ कक्षा में कार्य करें। शिक्षण के साथ-साथ बच्चों की समझ, सामान्य भूल और उन्हें हो रही कठिनाइयों का निरंतर आकलन कर उनपर आवश्यक कार्य करें।



बच्चों के लिए कुछ प्रश्न शिक्षण योजना और अभ्यास गतिविधि में दिए गए हैं। ये प्रश्न अनुदेशात्मक कार्य के दौरान आकलन के लिए बहुत उपयोगी हैं, आवश्यकता के अनुरूप और प्रश्न बनाएँ।



शिक्षण योजना: यदि 70% छात्रों ने दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं तो अगले कालांश में कार्य पत्रक पर कार्य करें अथवा शिक्षण योजना को दोहराएँ।



1,2,3

कार्य पत्रक : बच्चों द्वारा दिए गए उत्तर का विश्लेषण कर उन्हें हो रही कठिनाइयों को चिह्नित करें।



अभ्यास गतिविधि: बच्चों द्वारा की जाने वाली सामान्य भूल पर संवाद कर समझ को सुदृढ़ करें।

समेकन और आकलन



कालांश



समेकन गतिविधि: पिछले 4 दिनों में किए गए अनुदेशात्मक कार्य को एक साथ समेकित और बच्चों की प्रगति को समझने का प्रयास करें। एक निश्चित अंतराल में यह समझना आवश्यक है कि बच्चे पिछली कक्षाओं में किए गए कार्यों को याद रख पा रहे हैं या नहीं और अपनी समझ का किस प्रकार से अनुप्रयोग कर पा रहे हैं।



आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध रिक्त कालांश का उपयोग करें।

आकलन प्रपत्र: प्रत्येक प्रपत्र अनुदेशात्मक कार्य के 3 दक्षताओं पर आधारित हैं। प्रपत्र के सभी प्रश्न दक्षताओं और उनके विभिन्न आयामों को समझने के लिए बनाया गया है। तीनों दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए बच्चों के लिए सभी प्रश्नों के 50% भाग को करना अनिवार्य है।



साप्ताहिक आकलन ट्रैकर: शिक्षक प्रत्येक बच्चे का आकलन प्रपत्र में किए गए प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड ट्रैकर में दर्ज करें।

- सभी प्रश्नों के 50% भाग से कम का सही उत्तर—A
- सभी प्रश्नों के 50% भाग या ज्यादा का सही उत्तर—B

रेमीडीयल और पुनरावृत्ति



कालांश



साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में दर्ज किए गए ग्रेड के अनुसार बच्चों को 2 समूह में बाँट कर रेमीडीयल कार्य और क्रमशः पुनरावृत्ति कराएँ।



रेमीडीयल गतिविधि— समूह A: जो बच्चे अनुदेशात्मक कार्य के 3 दक्षताओं को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उनपर शिक्षक विशेष ध्यान दें। गतिविधि के माध्यम से अवधारणा को पुनः स्पष्ट करें।



साप्ताहिक अभ्यास पत्रक— समूह B: अनुदेशात्मक कार्य के 3 दक्षताओं को प्राप्त कर चुके बच्चों को आवश्यक निर्देश देकर स्वतंत्र रूप से पत्रक पर कार्य करने दें।

आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध रिक्त कालांश का उपयोग करें।



साप्ताहिक पुनरावृत्ति पत्रक: सभी बच्चों के साथ पत्रक पर कार्य करें।

सावधिक आकलन प्रक्रिया

अकादमिक सत्र में दो बार सावधिक आकलन किया जाएगा, पहला 11वें सप्ताह में और दूसरा आकलन 22वें सप्ताह में। सावधिक आकलन को कक्षा के आंतरिक प्रक्रिया के तौर पर देखा जाना चाहिए।



- पूर्व के सभी 10 सप्ताह के आकलन के लिए क्रमशः 10 सावधिक आकलन प्रपत्र दिए गए हैं।
- सावधिक आकलन के दौरान प्रत्येक दिन 1 सावधिक आकलन प्रपत्र कर रेमीडीयल कार्य करें।
- रेमीडीयल कार्य लिए पूर्व सप्ताह के सभी 10 रेमीडीयल गतिविधियों को दोहराएँ।

कालांश



सावधिक आकलन प्रपत्र: पहले कालांश में बच्चों का आकलन करें।



सावधिक आकलन ट्रैकर: शिक्षक प्रत्येक बच्चे का आकलन प्रपत्र में किए गए प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड ट्रैकर में दर्ज करें। सभी प्रश्नों के 50% भाग या ज्यादा का सही उत्तर—B सभी प्रश्नों के 50% भाग से कम का सही उत्तर—A

कालांश



रेमीडीयल गतिविधि

समूह A: जो बच्चे अपेक्षित दक्षताओं को प्राप्त नहीं कर पाए, उन पर शिक्षक विशेष ध्यान दें। गतिविधि के माध्यम से अवधारणा को पुनः स्पष्ट करें।

आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध रिक्त कालांश का उपयोग करें।

समूह B: जब शिक्षक पीछे छूटे हुए बच्चों के साथ कार्य कर रहे हों तब कक्षा के बाकी बच्चों को उनकी दक्षता अनुसार गणित किट के साथ कक्षा कार्य दें।

कालांश की रणनीतियाँ और संसाधन

प्रति सप्ताह संसाधन



3 शिक्षण योजना

3 अभ्यास गतिविधि

1 समेकन गतिविधि

1 रेमीडीयल गतिविधि

7 कार्यपत्रक

शिक्षक संदर्शिका

कार्यपुस्तिका

कालांश	1	2	3	1	2	3	1	2	3
अनुदेशात्मक कार्य दिन 1-4	3 शिक्षण योजना	3 अभ्यास पत्रक	3 अभ्यास गतिविधि	1 समेकन	रिक्त कालांश	1 मैंने सीख लिया	1+1 रेमीडीयल और साप्ताहिक अभ्यास	रिक्त कालांश	1+1 साप्ताहिक पुनरावृत्ति
समेकन और आकलन दिन 5	10 सावधिक आकलन कार्यपत्रक	10 सावधिक आकलन कार्यपत्रक	रिक्त कालांश						
रेमीडीयल और पुनरावृत्ति दिन 6	10 सावधिक आकलन कार्यपत्रक	10 सावधिक आकलन कार्यपत्रक	रिक्त कालांश						
सावधिक आकलन सप्ताह सप्ताह 11, 22	10 सावधिक आकलन कार्यपत्रक	10 सावधिक आकलन कार्यपत्रक	रिक्त कालांश						



शिक्षण योजना

अनुदेशात्मक कार्य

दक्षता की प्राप्ति के लिए उसके विभिन्न आयामों को समझना आवश्यक है।

- संदर्शिका में एक दक्षता के लिए एक से अधिक शिक्षण योजना है जो अनुदेशात्मक कार्य के लिए दिया गया है
- 20 शिक्षण सप्ताह के लिए कुल 60 शिक्षण योजनाएँ हैं जो क्रमशः अभ्यास पत्रक और अभ्यास गतिविधि से जुड़ा है




कालांश



शिक्षण योजना अवलोकन

- सप्ताह।
- शिक्षण उद्देश्य।
- तैयारी के बिन्दु।



परिचय। मैं करूँ (शिक्षक)

- बच्चों का शिक्षण उद्देश्य से परिचय।
- अवधारणा का बच्चों के अनुभव से जुड़ाव।
- प्रश्न पूछें और संवाद करें।



अवधारणा निर्माण। हम करें (बच्चे)

- बच्चों द्वारा मूर्त वस्तुओं के साथ सामूहिक कार्य।
- प्रश्न पूछें और संवाद करें।
- सामान्य भूल पर बच्चों का ध्यानाकर्षण।



अभ्यास। तुम करो (बच्चे)

- बच्चों के लिए कक्षा कार्य।
- शिक्षक द्वारा अवलोकन।
- प्रश्न पूछें और संवाद करें।
- सामान्य भूल पर बच्चों का ध्यानाकर्षण।



महत्वपूर्ण बिंदु

- सप्ताह के पहले चार दिन अनुदेशात्मक कार्य के लिए नियोजित किया गया है।
- प्रत्येक शिक्षण सप्ताह में 3 शिक्षण योजना पर बच्चों के साथ कक्षा कार्य करें।
- सभी बच्चों को संवाद में शामिल करें और प्रतिभाग के अवसर दें।
- आवश्यकता के अनुसार गतिविधियों में बदलाव करें।

आगे के कार्य

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: अगले कालांश में अभ्यास पत्रक पर कार्य कराएँ



नहीं: अगले कालांश में शिक्षण योजना दोहराएँ

कार्यत्रक पूरा करने के बाद:



अभ्यास गतिविधि करवाएँ



प्रत्येक शिक्षण योजना के लिए क्रमशः एक अभ्यास पत्रक कार्यपुस्तिका में दिया गया है।

- एक दक्षता के लिए एक से अधिक अभ्यास पत्रक हैं जो अनुदेशात्मक कार्य के लिए दिया गया है।
- कक्षा 2 के लिए कुल 60 अभ्यास पत्रक कार्यपुस्तिका में दिए गए हैं जो क्रमशः शिक्षण योजना और अभ्यास गतिविधि से जुड़ा है।



कालांश



अभ्यास पत्रक अवलोकन

- सप्ताह
- अभ्यास पत्रक क्रमांक
- समय



शिक्षक द्वारा हल किये उदाहरण

- प्रत्येक अभ्यास पत्रक में एक से अधिक प्रकार के प्रश्न हैं जिनके लिए अलग-अलग निर्देश दिए गए हैं।
- शिक्षक प्रत्येक प्रश्न का एक उदाहरण (संख्या और वस्तु बदलकर) श्यामपट्ट पर दिखाकर बच्चों को कार्यपत्रक पर कार्य करने के लिए निर्देश दें।



अभ्यास पत्रक पूरा होने पर बच्चों से कार्यपुस्तिका ट्रैकर में निशान लगावाएँ।

दिनांक
01

अभ्यास 01

⌚ 40 मिनट

1 जल्दा वस्तुओं पर (✓) व धीरे वस्तुओं पर (X) का निशान लगाएँ-

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 धीरे वस्तुओं पर (✓) व जल्दा वस्तुओं पर (X) का निशान लगाएँ-

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3 जिस मिश्रण में उपादा पानी है उस पर धेरा लगाएँ-

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4 जिस काले में कम धावल है उस पर धेरा लगाएँ-

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5 निम्न सभ्य की पूर्ति वाली साथ से वस्तु-सोनु और पीत के पाव किये में कुछ खंडलेट दो। पीत जलो किये में कुछ खंडलेट सोनु को से दिया। उभ पीत के किये में खंडलेट (न्यास/कम) से नये, तैलिन सोनु के किये में खंडलेट (जल्दा/कम) से नये।

कार्यपुस्तिका निशान-2

13

महत्वपूर्ण बिन्दु

- सप्ताह के पहले चार दिन अनुदेशात्मक कार्य के लिए नियोजित किया गया है।
- प्रत्येक शिक्षण सप्ताह में क्रमशः 3 शिक्षण योजना और 3 कार्यपत्रक पर बच्चों के साथ कक्षा कार्य करें।
- निर्देश को स्पष्ट करें और एक प्रश्न पूरा होने के बाद अगले प्रश्न पर जाएँ।
- कठिनाई होने पर बच्चों को आवश्यकता के अनुसार मदद करें।

शिक्षक द्वारा कक्षा कार्य की जांच

- बच्चों में उत्साह के लिए आइकॉन पर निशान
- दिनांक
- हस्ताक्षर



श्रेष्ठ



बहुत अच्छा



अच्छा



अभ्यास गतिविधि

आनुदेशात्मक कार्य

प्रत्येक शिक्षण योजना के लिए क्रमशः एक अभ्यास गतिविधि दी गई है।

- कार्यपुस्तिका में एक दक्षता के लिए एक से अधिक अभ्यास गतिविधि हैं जो अनुदेशात्मक कार्य के लिए दिया गया है।
- 20 शिक्षण सप्ताह के लिए कुल 60 अभ्यास गतिविधि हैं जो क्रमशः शिक्षण योजना और अभ्यास पत्रक से जुड़ा है।
- प्रत्येक पृष्ठ में 3 अभ्यास गतिविधियां दी गई हैं।



कालांश




अभ्यास पत्रक अवलोकन

- सप्ताह
- कार्यपत्रक क्रमांक
- शिक्षण उद्देश्य
- संसाधन

अभ्यास गतिविधि के चरण

- शिक्षण उद्देश्य को बच्चों के परिवेश और उनके दैनिक अनुभव से जोड़ते हुए परिचय।
- बच्चों के साथ शिक्षण योजना की गतिविधि और अभ्यास पत्रक के अनुभव पर संवाद।
- गतिविधि में उपयोग होने वाले संसाधन से बच्चों का परिचय करवाएँ।
- निर्देश अनुसार गतिविधि का संचालन
- सामान्य भूल पर बच्चों का ध्यानाकर्षण करें।



महत्वपूर्ण बिंदु

सप्ताह के पहले चार दिन अनुदेशात्मक कार्य के लिए नियोजित किया गया है—

- प्रत्येक शिक्षण सप्ताह में शिक्षण उद्देश्य 3 शिक्षण योजना, 3 कार्यपत्रक और 3 अभ्यास गतिविधि पर बच्चों के साथ कक्षा कार्य करें।
- कठिनाई होने पर बच्चों को आवश्यकता के अनुसार मदद करें।
- प्रश्न और संवाद के माध्यम से बच्चों की कठिनाइयों और सामान्य भूल का निवारण करें।
- आवश्यकता के अनुसार गतिविधियों में बदलाव करें।

अभ्यास गतिविधि 1

अभ्यास गतिविधि 2

अभ्यास गतिविधि 3

प्रत्येक सप्ताह अनुदेशात्मक कार्य के दौरान 3 शिक्षण उद्देश्यों पर किए गए कार्यों के समेकन के लिए एक समेकन गतिविधि किया जाना निर्धारित किया गया है

- 20 शिक्षण सप्ताह में कुल 20 समेकन गतिविधि किए जाने हैं जिनमें से 4 सप्ताह के लिए समेकन गतिविधि नमूने के रूप में संदर्शिका में दिया गया है



कालांश




समेकन गतिविधि अवलोकन

- सप्ताह
- साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्यों
- संसाधन



प्रक्रिया

- साप्ताहिक अनुदेशात्मक कार्य के शिक्षण उद्देश्यों को दोहराएँ और और बच्चों के दैनिक अनुभव से जोड़ें।
- गतिविधि में उपयोग होने वाले संसाधन से बच्चों का परिचय करवाएँ।
- निर्देश अनुसार गतिविधि का संचालन
- प्रश्न पूछें और संवाद करें।
- सामान्य भूल पर बच्चों का ध्यानाकर्षण करें।
- आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध रिक्त कालांश का उपयोग करें।



स्वयं बनाएँ

4 सप्ताह के लिए समेकन और रेमीडीयल गतिविधि संदर्शिका में नमूने के रूप में दी गई है। साप्ताहिक 3 शिक्षण योजनाओं (अनुदेशात्मक कार्य) का उपयोग कर शिक्षक बाकी सप्ताह के लिए समेकन गतिविधि और रेमीडीयल गतिविधि स्वयं बनाएँ।

- तीनों शिक्षण उद्देश्यों को उनकी संचयी प्रकृति के अनुसार क्रम में रखें।
- गतिविधि में बच्चों को वस्तुओं के साथ कार्य करने के लिए ज्यादा अवसर दें।
- प्रश्न और संवाद के बिंदुओं को स्पष्ट रूप से लिखें।
- संसाधन के लिए गणित किट, गणित कार्ड और बोर्ड, पोस्टर और आसानी से उपलब्ध वस्तुओं का ही उपयोग करें।



मैंने सीख लिया

समेकन और आकलन



कार्यपुस्तिका में प्रत्येक साप्ताहिक आकलन के लिए एक कार्यपत्रक 'मैंने सीख लिया' दिया गया है

- 20 सप्ताह के लिए कुल 20 साप्ताहिक आकलन प्रपत्र दिए गए हैं




कालांश



उदाहरण

शिक्षक द्वारा हल किया उदाहरण

- प्रत्येक साप्ताहिक आकलन प्रपत्र में एक से अधिक प्रकार के प्रश्न हैं जिनके लिए अलग-अलग निर्देश दिए गए हैं।
- शिक्षक प्रत्येक प्रश्न का एक उदाहरण (संख्या और वस्तु बदलकर) श्यामपट्ट पर दिखाकर बच्चों को कार्यपत्रक पर कार्य करने के लिए निर्देश दें।
- आकलन पत्रक पूरा होने पर बच्चों से कार्यपुस्तिका ट्रैकर में निशान लगवाएँ।



साप्ताहिक आकलन ट्रैकर

प्रत्येक बच्चे के साप्ताहिक आकलन की जानकारी को रखने के लिए 2 साप्ताहिक आकलन ट्रैकर दिए गए हैं

- साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 1- सप्ताह 1-10।
- साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2- सप्ताह 12-21।



बच्चों द्वारा साप्ताहिक आकलन प्रपत्र में दिए गए उत्तर को जाँचें। उनकी द्वारा की गई गलतियों का विश्लेषण कर अवधारणा को समझने में आ रही कठिनाइयों को चिह्नित कर रेमीडीयल कार्य की योजना बनाएं। प्रत्येक बच्चे का साप्ताहिक आकलन प्रपत्र में किए गए प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड (A/B) दर्ज करें।



सभी प्रश्नों के 50% भाग से कम का सही उत्तर

सभी प्रश्नों के 50% भाग या ज्यादा का सही उत्तर



समूह 1 रेमीडीयल गतिविधि



समूह 2 साप्ताहिक अभ्यास सत्रह


पुनरावृत्ति और अभ्यास

प्रत्येक सप्ताह अनुदेशात्मक कार्य के दौरान 3 शिक्षण उद्देश्यों पर किए गए कार्यों के रेमीडीयल के लिए एक रेमीडीयल गतिविधि किया जाना निर्धारित किया गया है

- **समूह 1:** 20 सप्ताह में कुल 20 समेकन गतिविधि किए जाने हैं जिनमें से 4 सप्ताह के लिए समेकन गतिविधि नमूने के रूप में संदर्शिका में दिया गया है।
- **समूह 2:** 20 सप्ताह के लिए कुल 20 साप्ताहिक अभ्यास प्रपत्र दिए गए हैं।



कालांश



प्रक्रिया

- समूह के बच्चों को एक साथ बैठाएँ और साप्ताह के शिक्षण उद्देश्यों को दोहराएँ।
- उपयोग होने वाले संसाधन से बच्चों का परिचय करवाएँ।
- समूह के बच्चों पर विशेष ध्यान दें और गतिविधि के माध्यम से अवधारणा को पुनः स्पष्ट करें।
- प्रश्न पूछें और संवाद।
- सामान्य भूल पर बच्चों का ध्यानाकर्षण करें।
- आवश्यकता अनुसार रिक्त कालांश का उपयोग करें।

शिक्षक के लिए निर्देश

- समूह के बच्चों को एक साथ बैठाएँ।
- बच्चों को आवश्यक निर्देश देकर स्वतंत्र रूप से पत्रक पर कार्य करने दें।
- साप्ताहिक अभ्यास पत्रक पूरा होने पर बच्चों से कार्यपुस्तिका ट्रैकर में निशान लगवाएँ।



स्वयं बनाएं

- 4 सप्ताह के लिए समेकन और रेमीडीयल गतिविधि संदर्शिका में नमूने के रूप में दी गई है। साप्ताहिक 3 शिक्षण योजनाओं (अनुदेशात्मक कार्य) का उपयोग कर शिक्षक बाकी सप्ताह के लिए समेकन गतिविधि और रेमीडीयल गतिविधि स्वयं बनाएं।
- तीनों शिक्षण उद्देश्यों को उनकी संचयी प्रकृति के अनुसार क्रम में रखें।
- गतिविधि में बच्चों को वस्तुओं के साथ कार्य करने के लिए ज्यादा अवसर दें।
- प्रश्न और संवाद के बिंदुओं को स्पष्ट रूप से लिखें।
- संसाधन के लिए गणित किट, गणित कार्ड और बोर्ड, पोस्टर और आसानी से उपलब्ध वस्तुओं का ही उपयोग करें।

पुनरावृत्ति और गृह कार्य




प्रत्येक सप्ताह अनुदेशात्मक कार्य के दौरान 3 शिक्षण उद्देश्यों पर किए गए कार्यों के पुनरावृत्ति के लिए एक साप्ताहिक पुनरावृत्ति पत्रक कार्यपुस्तिका में दिया गया है।

- 20 शिक्षण सप्ताह के लिए कुल 20 साप्ताहिक पुनरावृत्ति पत्रक दिया गया है।



दिन
6


कालांश



साप्ताहिक पुनरावृत्ति पत्रक

शिक्षक द्वारा हल किया उदाहरण

- प्रत्येक साप्ताहिक पुनरावृत्ति पत्रक में एक से अधिक प्रकार के प्रश्न हैं जिनके लिए अलग-अलग निर्देश दिए गए हैं।
- शिक्षक प्रत्येक प्रश्न का एक उदाहरण (संख्या और वस्तु बदलकर) श्यामपट्ट पर दिखाकर बच्चों को कार्यपत्रक पर कार्य करने के लिए निर्देश दें।
- साप्ताहिक पुनरावृत्ति पत्रक पूरा होने पर बच्चों से कार्यपुस्तिका ट्रेकर में निशान लगवाएँ।



गृह कार्य

अभिभावकों को बच्चों के दैनिक पठन-पाठन कार्य से जोड़ने के लिए साप्ताहिक गृहकार्य पत्रक कार्यपुस्तिका में दिए गए हैं।

- 20 शिक्षण सप्ताह के लिए कुल 20 गृह कार्य पत्रक दिया गया है।

शिक्षक के लिए निर्देश


- बच्चों को 6वें दिन गृह कार्य के लिए आवश्यक निर्देश दें।
- अभिभावकों से संवाद करें और उन्हें बच्चों से उनके कक्षा के अनुभव पर बातचीत करने के लिए प्रेरित करें।
- अगले दिन शिक्षक गृह कार्य पत्रक को देखें और बच्चों से कार्यपुस्तिका ट्रेकर में निशान लगवाएँ।



- अकादमिक सत्र में दो सावधिक आकलन 11वें सप्ताह और 22वें सप्ताह में रखे गए हैं।
- पिछले 10 सप्ताह में किए शिक्षण कार्य और बच्चों के प्रगति का आकलन सावधिक आकलन में किया जाएगा।
 - सावधिक आकलन 1 और 2 के लिए 10-10 कार्यपत्रक कार्यपुस्तिका में दिए गए हैं।

कालांश

1 2 3




सावधिक आकलन पत्रक



उदाहरण

शिक्षक द्वारा हल किया उदाहरण

- प्रत्येक आकलन पत्रक में एक से अधिक प्रकार के प्रश्न और उनके अलग निर्देश हैं।
- शिक्षक प्रत्येक प्रश्न का एक उदाहरण (संख्या और वस्तु बदलकर) श्यामपट्ट पर दिखाकर बच्चों को कार्यपत्रक पर कार्य करने के लिए निर्देश दें।
- आकलन पत्रक पूरा होने पर बच्चों से कार्यपुस्तिका ट्रैकर में निशान लगावाएँ।



सावधिक आकलन ट्रैकर

बच्चों द्वारा सावधिक आकलन प्रपत्र में दिए गए उत्तर को जाँचें। उनके द्वारा की गई गलतियों का विश्लेषण कर अवधारणा को समझने में आ रही कठिनाइयों को चिह्नित कर रेमीडीयल कार्य की योजना बनाएँ।

प्रत्येक बच्चे का सावधिक आकलन प्रपत्र में किए गए प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड दर्ज करें।
A—सभी प्रश्नों के 50 प्रतिशत भाग से कम का सही उत्तर।
B—सभी प्रश्नों के 50 प्रतिशत भाग या ज्यादा का सही उत्तर।

कालांश

1 2 3



रेमीडीयल गतिविधि

रेमीडीयल गतिविधि को पूरी कक्षा के साथ दोहराएँ।

- शिक्षण उद्देश्यों को दोहराएँ और और बच्चों के दैनिक अनुभव से जोड़ें।
- गतिविधि में उपयोग होने वाले संसाधन से बच्चों का परिचय करवाएँ।
- जिन बच्चों ने A ग्रेड पाया है उन पर विशेष ध्यान दें और गतिविधि के माध्यम से अवधारणा को पुनः स्पष्ट करें।
- प्रश्न पूछें और संवाद करें।
- सामान्य भूल पर बच्चों का ध्यानाकर्षण करें।
- आवश्यकता अनुसार उपलब्ध रिक्त कालांश का उपयोग करें।









सप्ताह 1-10 सप्ताह 12-21

प्रति सप्ताह के लिए शिक्षक संदर्शिका में संसाधन

					
3	3	1	1		
शिक्षण योजना	अभ्यास गतिविधि	समेकन गतिविधि	रेमीडीयल गतिविधि	वार्षिक ट्रैकर	सावधिक ट्रैकर

प्रति सप्ताह के लिए कार्यपुस्तिका के पत्रक

				
3 अभ्यास पत्रक	1 मैंने सीख लिया	1 साप्ताहिक अभ्यास	1 साप्ताहिक पुनरावृत्ति	1 गृह कार्य

कालांश	1	2	3	1	2	3	1	2	3
अनुदेशात्मक कार्य सप्ताह 1-4									
	3			3			3		
	शिक्षण योजना			अभ्यास पत्रक			अभ्यास गतिविधि		
समेकन और आकलन दिन 5									
	1						1		
	समेकन			रिक्त कालांश			मैंने सीख लिया		
रेमीडीयल और पुनरावृत्ति दिन 6									
	1+1						1+1		
	रेमीडीयल और साप्ताहिक अभ्यास			रिक्त कालांश			साप्ताहिक पुनरावृत्ति और गृह कार्य		



📦 **संसाधन** : चार्ट, कंकड़, पत्ते, ब्लॉक्स आदि।

⏪ **आवश्यक पूर्व ज्ञान** : अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानते हैं।

🎯 **नये शब्द**: कम-ज्यादा।

⚠️ **सामान्य भूल**: बच्चे ज्यादा जगह घेरने वाली वस्तु को ज्यादा बताते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट




- शिक्षक कक्षा में सभी छात्र-छात्राओं को खड़े होने को कहेगा तथा निम्न कार्य कराएगा।
- सभी बालक तथा सभी बालिकाएँ अलग-अलग पंक्ति में, एक बालक के सम्मुख एक बालिका के क्रम में खड़े होंगे।
- ❓ **पूछें** : क्या सभी बालक के सामने बालिका खड़ी हो सकीं?

- प्रक्रिया को एक उदाहरण से दोहराएँ-मेज पर कुछ कंकड़ व कुछ पत्तों के ढेर रखते हुए।
- प्रत्येक कंकड़ को अलग-अलग पत्ते के ऊपर बच्चों से रखने को कहें।
- ❓ **पूछें** : क्या सभी पत्तों पर कंकड़ रखे जा सके?
- पत्तों और कंकड़ों में कौन ज्यादा तथा कौन कम है?



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट




- बच्चों को दो-दो के समूह में बाँटें और उन्हें कुछ फूल और पत्ते के चित्र कार्ड दें।
- बच्चों को प्रत्येक फूल को पत्ते से मिलाने को कहें।
- ❓ **पूछें**: क्या सभी फूल, पत्ते से मिलाए जा सके?
- **समझाएँ**- जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ मिलान करके देखते हैं तब हमें ये समझने में आसानी होती है कि कौन सी वस्तु

- ज्यादा है और कौन सी कम।
- 👉 **शिक्षक के लिए बिंदु** : नए शब्द "कम और ज्यादा" को दोहराएं।
- अब शिक्षक कक्षा में लगे "कम-ज्यादा" चार्ट से चर्चा प्रारंभ करें।
- ❓ **पूछें**: किस तरफ़ पुस्तक की संख्या ज्यादा है? उस पर अंगुली रख सकते हो?
- शिक्षक ऐसे और भी सवालों पर चर्चा करें।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट



- एक ही रंग के 5 ब्लॉक एक हाथ में और दूसरे हाथ में 3 ब्लॉक रखें।
- इसके ऊपर कम ज्यादा के सवाल बच्चों से पूछें।
- ❓ **तुमने कैसे पता किया कि किस हाथ में ज्यादा ब्लॉक हैं?**
- ❓ **क्या तुम्हारे दोस्त ने जो जवाब दिया वह सही है?**
- ❓ **ऐसी कोई एक चीज़ बताओ जो आज तुमने कक्षा में सीखी?**

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-01|1 कराएँ-पृष्ठ 13



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-01|1 कराएँ-पृष्ठ 40



संसाधन : चार्ट।


आवश्यक पूर्व ज्ञान : अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना।

नये शब्द : दूर-पास।

सामान्य भूल : बच्चे बातचीत में बिना सही अर्थ को समझे, दूर-पास का उपयोग करते हैं।

1. परिचय (मैं करूँ)

10 मिनट




● शिक्षक कक्षा की शुरुआत इस कविता से करेंगे।
दूर गगन में सूरज है,
पास में नदी बहती है,
बादल दूर गरजता है,
पास में धारा बहती है,
झट बतला दो बच्चों प्यारे,
कौन सा पर्वत पास तुम्हारे?

ये दूर हैं, वो हैं पास,
अपने आस-पास की वस्तुओं को ऐसे ही पुकारें।
? पूछें : सूरज और नदी में कौन हमारे पास है?
बादल और धारा में कौन हमारे से दूर है?
● 2-3 बच्चों से उत्तर लें।

2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

20 मिनट




● शिक्षक दो बच्चों को बुलाकर एक बच्चे को अपने थोड़ा पास और एक बच्चे को अपने से थोड़ी दूर खड़े होने को कहें।
? पूछें : कौन मेरे पास खड़ा है?
कौन मेरे से दूर खड़ा है?
● 2-3 बच्चों से उत्तर लें।
● प्रक्रिया को और कुछ बच्चों को

सामने बुलाकर दोहराएँ।
अब शिक्षक "दूर-पास" के चार्ट पर चर्चा प्रारंभ करें।
? पूछें: जिस चित्र में बच्चा गेंद के पास है, क्या आप उस पर अंगुली रख सकते हो? शिक्षक ऐसे और भी सवालों पर चर्चा करें।

3. अभ्यास (तुम करो)

10 मिनट



● श्यामपट्ट पर एक गेंद, एक पत्ता और एक फूल का चित्र बनायें। पत्ते को गेंद के थोड़ा पास और फूल को गेंद से थोड़ी दूरी पर बनायें।
? गेंद किसके पास है?
? कौन बॉल से दूर है?
? ऐसी कोई एक चीज बताओ जो आज तुमने कक्षा में सीखी?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक
सप्ताह-01|2 कराएँ-पृष्ठ 14



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि
सप्ताह-01|2 कराएँ-पृष्ठ 40



संसाधन : गेंद और अन्य परिवेश की सामग्री।



आवश्यक पूर्व ज्ञान : अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना।



नये शब्द : छोटा और बड़ा।



सामान्य भूल : बच्चे बातचीत में बिना सही अर्थ के छोटा-बड़ा का उपयोग करते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

10 मिनट



- शिक्षक कक्षा की शुरुआत इस कविता से करेंगे।
रात में टिम-टिम करते तारे।
लगते हमको कितने प्यारे।
चंदा मामा बड़े निराले।
घटते-बढ़ते रहने वाले।

? **पूछें** : रात में आपने आसमान में क्या-क्या देखा है?

- तारों की तुलना में चाँद का आकार कैसा है?
- क्या चाँद हर रात एक समान दिखता है?
- 2-3 बच्चों से उत्तर लें।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

20 मिनट



- मेज पर दो असमान आकार की गेंद रखें और बच्चों को बुलाकर एक को छोटी तथा दूसरे को बड़ी गेंद उठाने को कहें।

? **पूछें** : छोटी गेंद किसने उठाई है? बड़ी गेंद किसने उठाई है? तुमने कैसे जाना कि कौन सी गेंद छोटी है या बड़ी?

- इस प्रक्रिया को और भी बच्चों को बुलाकर दोहराएँ।

- **समझाएँ**— अपने आस-पास की वस्तुओं में छोटा-बड़ा पता करना होगा तो उन्हें गौर से देखना चाहिए।
- बच्चों को दो-दो के समूह में बाँटकर बोलिए कॉपी में अपने पसंद का कुछ चित्र बनायें और अपने साथी को दिखाएँ।


? **पूछें** : दोनों चित्र में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है?

☞ **शिक्षक के लिए बिंदु** : जिस समूह के बच्चों को छोटा-बड़ा समझने में दिक्कत हो, उनकी मदद करें।



3. अभ्यास (तुम करो)

10 मिनट



- शिक्षक श्यामपट्ट पर कुछ फल, सब्जी और फूल के दो-दो, छोटे-बड़े चित्र बनायें।

? **पूछें** : कौन सी सब्जी बड़ी है?

? **पूछें** : कौन सा फल छोटा है?

? **पूछें** : ऐसा कोई एक चीज बताओ जो आज तुमने कक्षा में सीखी?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-01|3 कराएँ-पृष्ठ 15



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-01|3 कराएँ-पृष्ठ 40




अभ्यास गतिविधि 01 ⌚ 40 मिनट

कम-ज्यादा की समझ बना सकें।



संसाधन

कम-ज्यादा के लिए चार्ट, कंकड़ एवं अनाज के दाने।



- कक्षा के बच्चों को दो-दो के समूह में बाँटें। प्रत्येक समूह में दो ढेरी दीजिये एक कंकड़ की और एक अनाज की।
- बच्चों से पूछें—किस ढेरी में सामग्री कम है? किस ढेरी में सामग्री ज्यादा है?
- कंकड़ और अनाज की मात्रा बदल-बदल कर ये प्रक्रिया बार-बार करवाएँ।
- बच्चों से अपने जवाब का कारण बताने के लिए कहें।
- बच्चे एक-एक की संगति की सहायता से कम-ज्यादा बता सकते हैं।
- इसके बाद कम-ज्यादा के चार्ट की सहायता से कम-ज्यादा पर बच्चों के साथ बात करें।
- बच्चों से उनके जबाब का आधार जरूर पूछें और आधार बताने में सहायता करें।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- ❓ चार्ट के किस गुलदस्ते में ज्यादा फूल हैं?
- ❓ चार्ट में किस तरफ कम गुब्बारे लगे हैं?

अभ्यास गतिविधि 02 ⌚ 40 मिनट

दूर-पास की समझ बना सकें।



संसाधन

दूर-पास के लिए चार्ट।



- चार्ट में दी गई वस्तुओं को परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों के साथ संवाद करें। पूछें— किस चित्र में लड़का पेड़ के पास है? किस चित्र में लड़का पेड़ से दूर है? किस चित्र में बंदर आम के पास है? किस चित्र में आम बंदर से दूर है? शिक्षक सभी बच्चों को जबाब देने अवसर दें।
- बच्चे भी परिवेश की वस्तुओं व चार्ट की सहायता से प्रश्न बनाएँ और एक-दूसरे से पूछें।
- शिक्षक बच्चों को अपने जबाब का कारण बताने के लिए भी प्रेरित करें।
- शिक्षक बच्चों के घर से उनके स्कूल की दूरी पर भी चर्चा करें।
- इस अवलोकन पर ध्यान दिलाएँ कि दूर की वस्तुएँ छोटी दिखाई देती हैं जबकि वास्तव में वह वस्तु बड़ी होती है।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- ❓ चार्ट में कौन सा पंछी घड़े के पास है?
- ❓ चार्ट में कौन सी बच्ची सेब से दूर है?


अभ्यास गतिविधि 03 ⌚ 40 मिनट

छोटा-बड़ा की समझ बना सकें।



संसाधन

फुटबॉल, क्रिकेट गेंद, कंचा, मटर के दाने।



- कक्षा के बच्चों को छोटे-छोटे समूह में बाँट दें। हर समूह को फुटबॉल, क्रिकेट गेंद, कंचा, मटर के दाने दें।
- शिक्षक बारी-बारी से सभी समूहों से पूछें—कौन-सी गेंद सबसे बड़ी है? सबसे छोटी गोल वस्तु क्या है? सभी समूह में बच्चे चर्चा करें कि कौन सी चीज छोटी है और कौन सी चीज बड़ी है।
- उसके बाद शिक्षक फुटबॉल दिखाकर पूछें—कक्षा में कौन-सी चीज फुटबॉल से बड़ी है और कौन-सी चीज उससे छोटी है।
- शिक्षक कक्षा कक्ष में उपलब्ध वस्तुओं के साथ भी छोटी-बड़ी वस्तुओं की पहचान कराएँ। शिक्षक कक्षा में से कोई भी दो चीजों को उठाकर पूछें—इनमें से कौन सी चीज छोटी है और कौन सी चीज बड़ी है?
- बच्चों से उनके जबाब का आधार जरूर पूछें और आधार बताने में सहायता करें।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- ❓ क्या तुम एक छोटे और बड़े फूल का चित्र बना सकते हो?



- कम-ज्यादा की समझ बना सकें।
- दूर-पास की समझ बना सकें।
- छोटा-बड़ा की समझ बना सकें।



संसाधन : बाल्टी और गेंद, ब्लॉक्स, लकड़ी के टुकड़े।

1. प्रक्रिया-1

⌚ 5 मिनट




- **समझाएँ** : सारे बच्चों को एक जगह बैठने को कहें।
- दो बाल्टी रखिये और उससे 2 फिट में कुछ गेंदें रखिये। दूरी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे जब गेंद बाल्टी में फेंकें तो वह बाल्टी के अन्दर आसानी से जा सके।
- दो बच्चों को बोलिए गेंद के पास

आकर खड़े हों।

- बच्चों को दूर से गेंद फेंकना है और बाल्टी में गेंद डालने की कोशिश करना है। इस खेल को कुछ देर होने दीजिये।
- अब दूसरे बच्चों को बाल्टी के अन्दर देख कर बताने को बोलिए कि किस बाल्टी में कम गेंद हैं और किसमें ज्यादा।

2. प्रक्रिया-2

⌚ 15 मिनट




- बच्चों को किसी भी तरीके से ब्लॉक्स को व्यवस्थित करने को कहिए।
- बच्चों को गोलाकार में बैठने के लिए कहिए तथा बारी-बारी बनाई गई आकृति का ऊपरी व निचला हिस्सा बताने को कहिए। किसी दूसरे समूह के बच्चों को उनके द्वारा ब्लॉक्स के द्वारा बनाई गई आकृतियों को सामने

रखने को कहिए तथा चर्चा कीजिए कि किस बच्चे की बनाई गई आकृति बोर्ड/दरवाजे से दूर व पास है?

- कक्षा का स्थानीय शब्दों का अंदर-बाहर, ऊपर-नीचे जैसे शब्दों का विकास करने में एक स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह बच्चों को अपने आस-पास के स्थान की स्थिति समझने में मदद करता है।

3. प्रक्रिया-3

⌚ 20 मिनट



- कुछ छोटे-छोटे लकड़ी के टुकड़े व इस गतिविधि को करने के लिए बच्चों को एक लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। बच्चों को पहले से बोलें कि वो कुछ छोटी-छोटी लकड़ी लायें।
- सभी बच्चों को एक जगह बैठने को कहें।
- बच्चे जितने लकड़ी के टुकड़े लाये हैं उसे एक जगह इकट्ठा कीजिये। अब बच्चों को अलग-अलग संख्या के लकड़ी के टुकड़े दीजिये। किसी को 3 दीजिये तो किसी को 4। पर

दो बच्चों को एक ही संख्या में लकड़ी न दीजिये।

- बच्चे को बोलिए अपने-अपने टुकड़े को गिनकर उसकी संख्या बतायें।
- अब बच्चों को बोलिए अपनी लकड़ी की संख्या के हिसाब से छोटे से बड़े एक लाइन में खड़े हो जाएँ।
- आप देखिये कि बच्चे ठीक लाइन से खड़े हुए हैं या नहीं।



- कम-ज्यादा की समझ बना सकें।
- दूर-पास की समझ बना सकें।
- छोटा-बड़ा की समझ बना सकें।




संसाधन : चार्ट।

- एक-अनेक या कम-ज्यादा।
- दूर-पास की अवधारणा।
- सबसे लम्बा-ऊँचा कौन है।

1. प्रक्रिया-1

20 मिनट



- कक्षा के बच्चों को तीन समूहों में बैठाएँ।
- तीनों समूहों को चार्ट देकर आपस में खास बातों को पता करने को कहें।
- **समझाएँ:** एक-अनेक या कम-ज्यादा के चार्ट में कम और ज्यादा पर चर्चा करें।
- बच्चों को भी अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त समय दें।
- बच्चों से अधिक वस्तुओं पर अंगुली रखने अथवा गोला खींचने के लिए कहें।
- दूर-पास की अवधारणा पर भी इसी प्रकार काम करें। सबसे लम्बा या ऊँचा कौन है, चार्ट पर भी इसी प्रकार करें।
- अब बच्चों को अपने-अपने समूह में

चार्ट पर कम-ज्यादा, दूर-पास, छोटा-बड़ा छोटने को कहें।

- हर समूह में जाकर देखें कि बच्चे सही से कर रहे हैं या नहीं, बच्चों को उपयुक्त समय दें कार्य पूर्ण करने के लिए।

पूछें :

- कक्षा में लड़कों की संख्या ज्यादा है या लड़कियों की?
- कक्षा में सबसे लम्बा कौन है?
- श्यामपट्ट के सबसे पास कौन है और कौन सबसे दूर?
- एक बच्चे को बेंच पर खड़ा करें और दूसरे को उसके पास फर्श पर, अब चर्चा करें कि कैसे तय करेंगे कि कौन लम्बा है?

2. प्रक्रिया-2

20 मिनट



- कक्षा के बच्चों को चार समूहों में बांटे। पहले समूह में 1 बच्चा, दूसरे समूह में 2 बच्चे, तीसरे में तीन और शेष बच्चे चौथे समूह में खड़ा करें। उन्हें कक्षा में अलग-अलग स्थान पर खड़ा करें।
- **समझाएँ:** सबसे ज्यादा बच्चों वाला समूह बड़ा है और एक बच्चे वाला समूह छोटा अथवा कम है। इसी प्रकार उनकी दूरी को भी स्पष्ट करें।
- श्यामपट्ट के पास कौन सा समूह खड़ा है? समूह चार में सबसे लम्बा कौन है?
- बच्चों को आपस में पास और दूर खड़ा होकर अवधारणा स्पष्ट करने का अवसर दें।

- मूर्त वस्तुओं (कंकड़, मोती, सिक्कों) की सहायता से चर्चा करते हुए भी बच्चों से एक-अनेक, कम-ज्यादा, दूर-पास, छोटा-बड़ा पर प्रश्न करके जानें कि बच्चों को यह अवधारणा स्पष्ट है या नहीं।

पूछें :

- क्या आप कम या ज्यादा बताने के कारण बता सकते हैं?
- कंकड़ के दो समूह को दिखाकर – इनमें से किस समूह में अधिक कंकड़ हैं?
- दरवाजे के पास कौन है? बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा करें।
- बच्चों के नाम के साथ सवाल करें जैसे- रिंकी के पास कौन है? कौन बच्चा नीरज से सबसे दूर है?



संसाधन : श्यामपट्ट ।

आवश्यक पूर्व ज्ञान : अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना ।

नये शब्द : आगे और पीछे ।

सामान्य भूल : बच्चे बातचीत में बिना सही अर्थ के आगे-पीछे का उपयोग करते हैं ।



1. परिचय (मैं करूँ)

10 मिनट




- शिक्षक बच्चों की रेलगाड़ी बनाएँगे, जिसमें शिक्षक इंजन बनेंगे तथा उक्त कविता को लय पूर्वक गाएँगे। ट्रेन चली भाई ट्रेन चली। छुक-छुक करती ट्रेन चली। आगे इंजन, पीछे डब्बे। सवारियाँ बैठी हैं नब्बे।।

- ? पूछें : ट्रेन में सबसे आगे कौन था? शिक्षक के पीछे-पीछे कौन चल रहा था?
- वास्तव में किन-किन बच्चों ने ट्रेन देखी है? ट्रेन में गार्ड का डिब्बा कहाँ होता है?
- बच्चों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

20 मिनट



- सीधी रेखा में खड़े हो जायेंगे। मैं जब आगे कहूँगा तब आगे की ओर कूदेंगे तथा पीछे कहने पर पीछे की ओर कूदेंगे। जो ऐसा नहीं करेगा वह खेल से बाहर होता जायेगा।
- ? पूछें : कुछ बच्चे खेल से बाहर क्यों हुए?
- अब पाँच बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा करेंगे।
- ? पूछें: सबसे आगे वाले बच्चे का

- नाम बताओ? सबसे पीछे वाले बच्चे का नाम बताओ। सबसे आगे वाले बच्चे के तुरंत (ठीक) पीछे कौन है? सबसे पीछे वाले बच्चे के तुरंत (ठीक) आगे कौन है?
- इस गतिविधि को और बच्चों के साथ दोहराएँ।
- शिक्षक के लिए बिन्दु: आगे-पीछे कहने से पहले अपने लिए एक दिशा निर्धारित करते हैं।



3. अभ्यास (तुम करो)

10 मिनट



- शिक्षक श्यामपट्ट पर कोई भी एक चित्र बनाएँ। फिर उसके आगे और पीछे अलग-अलग दो चित्र बनायें।
- ? बस के आगे कौन सा चित्र है?
- ? बस किस के आगे बना हुआ है ?
- ? क्या आप श्यामपट्ट पर बने चित्र को ऐसे बदल सकते हैं जिससे बस के पीछे वाला चित्र बस के आगे आ जाए?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-02|1 कराएँ-पृष्ठ 20



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-02|1 कराएँ-पृष्ठ 46



संसाधन : डस्टर, किताब, चॉक, चार्ट।



आवश्यक पूर्व ज्ञान : अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना।



नये शब्द : ऊपर और नीचे।



सामान्य भूल : बच्चे बातचीत में बिना सही अर्थ के ऊपर-नीचे का उपयोग करते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

10 मिनट




- शिक्षक कक्षा की शुरुआत इन पंक्तियों से करें।
पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे, नीचे आया साँप।
पक्षी सारे ऊपर उड़ गये, नीचे रह गया साँप।।
पंक्तियों को बार-बार दोहराएँ।

पूछें : पेड़ के ऊपर क्या-क्या है? पेड़ के नीचे कौन आ गया? पेड़ पर बैठे पक्षी कहाँ उड़ गये? पक्षी नहीं उड़ते तो साँप क्या करता? तुम पेड़ पर होते तो क्या करते?



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

20 मिनट



- शिक्षक कुछ सामान जैसे- डस्टर, चॉक, किताब आदि रखें।
- **समझाएँ**- एक-एक बच्चे को बुलाकर कुछ निर्देश दिया जायेगा। जैसे "डस्टर को मेज के निचे रखो"। तो आपको डस्टर मेज के नीचे रखना होगा। (इसे बोलते हुए शिक्षक काम को करके भी दिखायें)।
- अब बच्चों को एक-एक करके

बुलाकर गतिविधि कराएं।

- पूछें** : क्या आप चॉक को मेज के नीचे रख सकते हैं? एक किताब और चॉक को ऐसे पकड़ो कि चॉक किताब के नीचे रहे। डस्टर को अपने सिर के ऊपर रखो।
- इसके बाद शिक्षक गणित के "ऊपर-नीचे" चार्ट से एक गतिविधि कराएँगे।
- पूछें** : एरोप्लेन ऊपर है या पंछी? पुल के ऊपर कौन है?
- शिक्षक ऐसे और भी सवालों पर चर्चा करें।



3. अभ्यास (तुम करो)

10 मिनट



- शिक्षक श्यामपट्ट पर एक कुर्सी का चित्र बनायें। उसके ऊपर बैठी कोई एक बच्ची और नीचे एक बिल्ली का चित्र बनायें।
- पूछें** कुर्सी के ऊपर कौन है?
- पूछें** क्या बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी है? अगर हाँ, तो क्यों बैठी है?
- पूछें** आप बताओ आपने किस-किस को कुर्सी पर बैठते देखा है? और किस-किस को कुर्सी के नीचे बैठते देखा है?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-02|2 कराएँ-पृष्ठ 21



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-02|2 कराएँ-पृष्ठ 46



संसाधन : चार्ट, परिवेश की वस्तुएं।

◀ आवश्यक पूर्व ज्ञान : अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना।


नये शब्द : हल्का और भारी।

ⓘ सामान्य भूल : बच्चे बातचीत में बिना सही अर्थ के हल्का-भारी का उपयोग करते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

10 मिनट



- शिक्षक कक्षा की शुरुआत इस छोटी सी कहानी से करें।
- एक व्यापारी के पास एक गधा था। वह नमक लादकर बेचता था। एक दिन नदी पार करते हुए गधा पानी में बैठ गया। व्यापारी ने लाख उठाया पर वह न उठा। थोड़ी देर बाद जब गधा उठा तो उसे भार कम लगा। अब तो व्यापारी जब भी


उस रास्ते से गुजरता तो गधा बैठ जाता। उसे अब मजा आने लगा था। एक दिन व्यापारी ने नमक के स्थान पर रूई का बोरा लादकर जा रहा था। गधा फिर नदी में बैठ गया। जब वह उठा तो उससे चला नहीं जा रहा था। सोचो क्यों?

- ❓ पूछें: एक बोरा रूई व एक बोरा नमक में क्या भारी है? गधे को चलने में क्यों कष्ट हो रहा था?



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

20 मिनट



- शिक्षक कक्षा की शुरुआत परिवेश से जुड़े किसी संदर्भ में कुछ संवाद से करेंगे।
- **समझाएँ:** मैं ही कुछ चीजों का नाम लूँगी/लूँगा। आपको बताना है कि आपको वह हल्का लगता है या भारी।
- ❓ पूछें : कुर्सी व मेज में कौन हल्का और कौन भारी है? डस्टर व चॉक में कौन हल्का और कौन भारी है?
- चम्मच और थाली में कौन हल्का

और कौन भारी है? आधी ईंट और एक पूरी ईंट में कौन हल्की और कौन भारी होती है?

✍ शिक्षक के लिए बिंदु : बच्चों के जवाब अलग-अलग हो सकते हैं। यदि बच्चे अपनी बात का कारण बता रहे हैं तो उसे स्वीकार करें।


अब शिक्षक चार्ट की सहायता से बच्चों के साथ संवाद प्रारंभ करें।

- ❓ पूछें : पंख और ईंट में कौन भारी है। क्या आप उस पर अंगुली रख सकते हैं? शिक्षक ऐसे और भी सवालों पर चर्चा करें।



3. अभ्यास (तुम करो)

10 मिनट



- शिक्षक एक पीपल का पेड़ और एक गुलाब के पौधे का चित्र बनाएँ।
- ❓ पीपल का पेड़ और गुलाब के पौधे में कौन भारी है?
- ❓ आपके घर में कौन सबसे हल्का है और कौन सबसे भारी? आपको क्या लगता है इसका कारण क्या होगा?
- ❓ आपने सबसे भारी चीज क्या देखा है?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-02|3 कराएँ-पृष्ठ 22



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-02|3 कराएँ-पृष्ठ 46




अभ्यास गतिविधि 01 ⌚ 40 मिनट

🌀 आगे-पीछे की समझ बना सकें।



संसाधन

कहानी का चार्ट।



- शिक्षक पाठ्यपुस्तक में दिए गए चित्र की सहायता से बच्चों के साथ मिलकर आगे-पीछे शब्दों का उपयोग करते हुए कहानी का चार्ट बनायें। जैसे- किसान खेत से घर जा रहा था। बैलगाड़ी ने उसे पीछे छोड़ दिया। किसान के आगे से बैलगाड़ी निकल गई और वह उसे नहीं पकड़ सका। वह तेज दौड़ा बैलगाड़ी आगे-आगे और किसान पीछे ही रह गया।
- कक्षा के बच्चों को छोटे-छोटे समूहों में बाँटें। प्रत्येक समूह से उपरोक्त कहानी सुनाने को कहें। बारी-बारी से सभी समूह के बच्चों से पूछें कि पीछे कौन छूट गया? किसान के आगे से क्या निकल गया? आगे किसान चल रहा था या बैलगाड़ी?
- शिक्षक ध्यान रखें कि सभी समूह के बच्चे उत्तर दे रहे हों।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- ❓ बोर्ड पर जो बस का चित्र बना है उसके आगे एक फल और पीछे फूल का चित्र बना सकते हो?


अभ्यास गतिविधि 02 ⌚ 40 मिनट

🌀 ऊपर-नीचे की समझ बना सकें।



संसाधन

पेन, कलर, चॉक, बोतल, पत्थर, कंकड़ आदि।



- कक्षा में उपलब्ध कुछ चीजों को मेज के ऊपर रखें और कुछ चीजों को मेज के नीचे।
- बच्चों को चार-चार के समूह में बाँटें। प्रत्येक समूह से पूछें-मेज के ऊपर कौन-सी चीजें रखी हैं? मेज के नीचे कौन-सी चीजें हैं?
- उसके बाद शिक्षक कहें : मैं एक चीज का नाम लूँगा और आपको बताना है कि वह कहाँ रखी है- मेज के ऊपर या नीचे। शिक्षक एक-एक करके मेज के ऊपर और नीचे रखी चीजों का नाम लें और बच्चों को बताने का मौका दें।
- शिक्षक कक्षा की अन्य वस्तुओं के साथ उपरोक्त प्रक्रिया दोहराएँ।
- शिक्षक ध्यान रखें कि सभी समूह के बच्चे उत्तर दे रहे हों।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- ❓ बच्चों से कहें कि वे एक पेड़ का चित्र बनाएँ।
- ❓ क्या तुम पेड़ के ऊपर एक चिड़िया और पेड़ के नीचे बिल्ली का चित्र बना सकते हो?


अभ्यास गतिविधि 03 ⌚ 40 मिनट

🌀 हल्का-भारी की समझ बना सकें।



संसाधन

परिवेशीय वस्तुएँ जैसे- कंकड़, रूई, कागज, मिट्टी, लकड़ी आदि।



- बच्चों को छोटे-छोटे समूहों में बाँटें। प्रत्येक समूह को कंकड़, रूई, कागज, लोहे के टुकड़े आदि दें। बच्चों को दो चीजें दिखाकर पूछें-इनमें से कौन-सी चीज भारी है और कौन सी हल्की।
- स्पष्ट करें कि जब दो या दो से अधिक वस्तुएँ होती हैं, तो उनमें से हल्की और भारी वस्तुएँ छाँटना आसान होता है। बच्चों के साथ चर्चा करें कि जरूरी नहीं कि जो चीज बड़ी दिखती है, वह भारी हो। जैसे रूई का ढेर, लोहे के छोटे से टुकड़े से हल्की हो सकती है।
- आप बच्चों को पानी की बोतल दिखाएँ और बच्चों से कहें कि वह एक ऐसी चीज बताएँ जो बोतल से हल्की और बोतल से भारी हो।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- ❓ क्या तुम दो वस्तुओं के चित्र बनाकर उसमें जो भारी है उस पर घेरा लगा सकते हो?



संसाधन : चार्ट।

« आवश्यक पूर्व ज्ञान : अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना।


नये शब्द : लम्बाई, मोटाई और ऊँचाई।

! सामान्य भूल : बच्चे बातचीत में बिना सही अर्थ के लम्बाई-मोटाई-ऊँचाई का उपयोग करते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

10 मिनट



- शिक्षक दो बच्चों को बुलाए जिनकी लम्बाई असमान हो, उनको दीवार के पास खड़ा करें तथा दीवार पर चॉक से उनकी लम्बाई के बराबर निशान लगाएँ।
- ? पूछें: दीवार पर किस बच्चे का निशान ऊपर है?

- किसका निशान नीचे है?
- किस बच्चे की लम्बाई ज्यादा है?
- इस गतिविधि को और कुछ बच्चों के साथ दोहराएँ।
- ✍ शिक्षक के लिए बिन्दु : लम्बाई के साथ जोड़ कर ऊँचाई पर भी चर्चा करें।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

20 मिनट



- शिक्षक बच्चों को निम्न कहानी सुनाएगा। कविता और रुकसाना दोस्त हैं। एक दिन उन्होंने दूर आम के बाग से आम तोड़ने की सोची। दोनों अपने छोटे-छोटे पैरों से बाग की ओर चल पड़ीं। रास्ता बहुत लम्बा था। जब वे बाग के पास पहुँचीं तो देखा कि बाग का गेट बन्द था। गेट की कुछ ग्रिल टूटी हुई थीं। कविता आसानी से निकल गई पर रुकसाना बड़ी मुश्किल से घुस पाई। वे दोनों पेड़ के पास पहुँचीं और ऊपर देखा तो आम बहुत दूर थे। उनके पास दो छड़ी पड़ी थीं। उसमें से एक लंबी

- थी। कविता ने लंबी वाली छड़ी ले ली। अब उन दोनों ने आम तोड़ा और खुशी-खुशी घर चली गईं।
- पूछें: कविता और रुकसाना में कौन ज्यादा मोटा है? कैसे आम दूर लगे थे? छोटी छड़ी किसने उटाई थी? किसने ज्यादा अधिक आम तोड़ा होगा और क्यों? इसके बाद शिक्षक लम्बा या ऊँचा के चार्ट पर चर्चा करें।
- ? शिक्षक के लिए बिन्दु : यह जरूर स्पष्ट करें कि सबसे ऊँचा बताने के लिए सभी का एक तल में होना आवश्यक है।



3. अभ्यास (तुम करो)

10 मिनट



- शिक्षक बच्चों से चार्ट पर आधारित सवाल करेगा।
- ? क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी मोमबत्ती मोटी है?
- ? कौन सी बिल्ली पतली है?
- ? क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी किताब मोटी है?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-03|1 कराएँ-पृष्ठ 27



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ



कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-03|1 कराएँ-पृष्ठ 50



संसाधन : टाइल्स व अन्य सामग्री।



आवश्यक पूर्व ज्ञान : अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचाना।



नये शब्द : त्रिकोण, वर्गाकार, गोलाकार, आयताकार।




सामान्य भूल : बच्चे परिवेश की वस्तुओं के सही आकार को नहीं समझते हैं। साथ ही उनके नामों से भी परिचित नहीं होते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट



● शिक्षक कक्षा की शुरुआत इस कविता से करें।
समोसे-पराठे तिकोने वाले,
रोटी-पूड़ी होती गोल।
बिस्कुट में होते छोटे कोने,
पर कुछ बिस्कुट होते गोल।।
भाँति-भाँति की अजब वस्तुएँ,
कितने अलग-अलग आकार।
कोनों के कारण हम सीखें, होते


कितने भिन्न प्रकार।।

- कुछ वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार और तिकोने आकार की वस्तुएँ बच्चों को दिखाकर आकार के नाम बताएँ।
- **पूछें:** समोसे और पराठे में कितने कोने होते हैं? पारले जी बिस्कुट में कितने कोने होते हैं? रोटी-पूड़ी कैसी होती है? ऐसे और सवालों पर चर्चा करें।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट



- शिक्षक टाइल्स किट का परिचय बच्चों से कराएँ।
- **समझाएँ :** इन आकारों के उपयोग से अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी नए आकार बना सकते हैं।
- **पूछें :** आपकी बनाई गई आकृति में टाइल्स के कौन-कौन से प्रकार प्रयोग हुए?
- बच्चों को अलग-अलग आकार की आकृति को वर्गीकृत करने को कहें। शिक्षक श्यामपट्ट पर एक


गुब्बारा और हथौड़े का चित्र बनाएँ।

- **पूछें:** गुब्बारे और हथौड़े में किसका आकार बड़ा है? किसका वजन ज्यादा है?
- आकार और वजन में कोई संबंध होता है या नहीं, इस पर शिक्षक बच्चों के साथ चर्चा करेंगे।
- **समझाएँ:** कभी वस्तु का आकार बड़ा हो सकता है, परन्तु उसका वजन छोटे आकार की किसी वस्तु से कम हो सकता है। कई बार इसका उल्टा भी हो सकता है।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक चार-चार बच्चों का एक समूह बनाएँ।
- शिक्षक कुछ टाइल्स बच्चों के समूह में दें और उन्हें एक जैसे आकार को अलग-अलग करने को कहें।
- **पूछें :** अलग की गई इस समूह की क्या विशेषता है?
- **पूछें :** इनके आकार को क्या कहेंगे?
- **पूछें :** अपने आसपास ऐसे आकार कहां देखा है ?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-03|2 कराएँ-पृष्ठ 28



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-03|2 कराएँ-पृष्ठ 50



संसाधन : गिनी जा सकने वाली वस्तुएं जैसे कंकड़, पत्ते।


आवश्यक पूर्व ज्ञान : अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना। एक-एक की संगति से कम ज्यादा की समझ।

नये शब्द : बराबर बाँटो।

सामान्य भूल : बच्चे बंटवारा तो कर देते हैं पर बराबर है या नहीं, इसमें भूल कर देते हैं।

1. परिचय (में करूँ)

10 मिनट




● शिक्षक कक्षा की शुरुआत इस कविता से करें।
रोहन सोहन थे दो भाई।
एक दिन उनकी नानी आई।।
पास बुला कर उनसे बोली।
आठ संतरो की यह थैली।।
प्यारे बच्चों तुम ले जाओ।
बाँट बराबर मिलकर खाओ।।

पूछें: रोहन कितने भाई थे?
नानी ने रोहन-सोहन को कितने संतरे दिए?
रोहन पाँच संतरे ले तथा सोहन को तीन संतरे दे, तो क्या ठीक होगा?
बराबर-बराबर संतरे कैसे बाँटेंगे?
दोनों को कितने-कितने संतरे मिलेंगे?

2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

20 मिनट




● शिक्षक कुछ कंकड़ या पत्ते रखें और बच्चों को समूह में बाँट दें। समूह में से एक बच्चे को चुनें, जिसे दी गई वस्तुओं को समूह में से बच्चों में बराबर बाँटना होगा।
 शिक्षक के लिए बिंदु : समूह में बराबर बाँटी जा सकने वाली वस्तुएं ही दी जाएँ।
 समझाएँ : बराबर बाँटने के लिए प्रत्येक बच्चे को एक-एक वस्तु देना चाहिए। बची हुई वस्तुओं को

फिर एक-एक करके बाँटना चाहिए। इस प्रक्रिया को तब तक करें जब तक कि वस्तुएँ बँट नहीं जाती हैं।
● अब शिक्षक मेज पर कुछ कंकड़ रखें। चार बच्चों को आगे बुलाएँ। किसी एक बच्चे को इन कंकड़ों को बाकी के तीन बच्चों में बराबर बाँटने को कहें।
 पूछें: क्या सभी को बराबर कंकड़ मिले हैं? गतिविधि को कई बार दोहराएँ, जिससे सभी बच्चों को मौका मिले।

3. अभ्यास (तुम करो)

10 मिनट



● शिक्षक श्यामपट्ट पर बारह सेब और तीन प्लेटों का चित्र बनाएँ।
 क्या सारे सेब प्लेट में बंट गए? प्रत्येक प्लेट में बराबर सेब हैं?
 कोई सेब बच गया, जिसे नहीं बाँटा गया?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-03|3 कराएँ-पृष्ठ 29



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-03|3 कराएँ-पृष्ठ 50



अभ्यास गतिविधि 01 ⌚ 40 मिनट

🌀 लम्बाई-मोटाई-ऊँचाई की समझ बना सकें।

📦 संसाधन

विभिन्न लम्बाई, मोटाई और ऊँचाई की परिवेशीय वस्तुएँ (जैसे डंडे, चॉक आदि)



- कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में बांट दें।
- बच्चों से पूछें – आपमें सबसे लम्बा साथी कौन है। बच्चों द्वारा बताया नाम श्यामपट्ट पर लिखें।
- उसके बाद, सभी समूह में विभिन्न लम्बाई, मोटाई एवं ऊँचाई की परिवेशीय वस्तुएँ दें। जैसे – (डंडे, लकड़ी के गुटके, चॉक आदि)।
- यह प्रक्रिया मोटाई और ऊँचाई के लिए भी दोहराएँ। अर्थात् आप बच्चों को मोटाई के अनुसार चीजें अलग करने के लिए कहें और फिर ऊँचाई के अनुसार चीजों को अलग करने के लिए कहें।

बच्चों के लिए प्रश्न:


- ① “मोटा-पतला” चार्ट में कौन मोमबत्ती मोटी है? कौन सी स्केच पेन पतली दिख रही है?
- ② “सबसे लम्बा या ऊँचा” चार्ट में कौन सी मीनार ऊँची है? कौन सी रेलगाड़ी लम्बी है?

अभ्यास गतिविधि 02 ⌚ 40 मिनट

🌀 आकार और वजन की समझ बना सकें।

📦 संसाधन

विभिन्न आकार एवं वजन की परिवेशीय वस्तुएँ, गणित किट।



- कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में बांट दें। बच्चों से गणित किट में उपलब्ध त्रिभुज, वर्ग, आयत आदि को दिखाएँ। बच्चों को समूह में आकृतियाँ देकर उनका नाम पूछें।
- दो गिलास में अलग-अलग मात्रा में बालू/मिट्टी भरकर, बच्चों से पूछें कि किसका वजन ज्यादा है? शिक्षक सभी समूह में बच्चों द्वारा दी गई जानकारी को श्यामपट्ट पर अंकित करें। बच्चों से पूछें कि उन्होंने कैसे जाना कि किसका वजन ज्यादा है। कारण भी श्यामपट्ट पर लिखें। इसी प्रकार, अलग-अलग चीजों में मिट्टी या पत्थर डालकर वजन की तुलना करवाएँ।
- सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करें। अधिक से अधिक वस्तुओं का उपयोग करें।

बच्चों के लिए प्रश्न:


- ① आपके घर की कौन-सी वस्तु सबसे भारी लगती है?
- ② आपके घर की कौन-सी वस्तु आकार में सबसे छोटी लगती है?

अभ्यास गतिविधि 03 ⌚ 40 मिनट

🌀 बँटवारा करने की समझ बना सकें।

📦 संसाधन

गिनी जा सकने वाली विभिन्न वस्तुएँ जैसे अनाज के दाने / कंकड़ आदि।



- कक्षा के बच्चों को 5-5 के समूह में विभाजित करें। प्रत्येक समूह में विभिन्न सामग्री दें।
- सामग्री को क्रमांक दो में, तीन में बाँटने को कहें।
- ध्यान रखें बँटवारे की प्रक्रिया में सभी बच्चे सहभागिता कर रहे हों।
- प्रत्येक समूह के बच्चों से पूछें कि आपको हिस्से में कितना मिला।
- बँटवारा करने वाले बच्चों से बँटवारा करने की प्रक्रिया पूछें। पूछें कि आपने कैसे बाँटा।
- ध्यान रखें बँटवारा हेतु प्रयुक्त सामग्री ऐसी न हो, जिसे बच्चे खा सकते हों। लकड़ी की वस्तुएँ, खेलने की वस्तुएँ, रसोई की वस्तुओं का अधिक प्रयोग करें।
- बच्चों को उनके द्वारा किए गए कार्य को अपने शब्दों में बताने के लिए पर्याप्त समय दें।
- शिक्षक बच्चों को अभिव्यक्ति करने में मदद करें।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- ① बोर्ड पर चार लड्डू के चित्र बने हैं। क्या आप लड्डूओं को दो लोगों में बाँट सकते हैं?



संसाधन : गिनी जा सकने वाली वस्तुएँ—कंकड़, पत्ती, कटोरी, चम्मच आदि।

आवश्यक पूर्व ज्ञान : संख्या पूर्व ज्ञान व अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना।


नये शब्द : एक से एक को मिलाओ व समूह बनाओ।

सामान्य भूल : बच्चे गिनती का क्रम तो आगे बढ़ा देते हैं पर उसकी मात्रा के बराबर वस्तु नहीं जोड़ पाते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

10 मिनट



- टेबल पर कुछ कटोरी और चम्मच रखें।
- **पूछें** : क्या तुम एक कटोरी में एक चम्मच रख सकते हो?
- उन्हें एक-दूसरे के साथ साझा करने के लिए कहें। 2-3 बच्चों से उत्तर लें।
- प्रक्रिया को एक और उदाहरण के साथ दोहराएँ। श्यामपट्ट पर यह

चित्र बनाएँ।

- **पूछें** : क्या तुम एक पत्ते के साथ एक कंकड़ को मिला सकते हो?
- **समझाएँ**— बच्चों को बतायें कि ऐसी अलग-अलग चीजों में एक के साथ दूसरे को मिलाया जा सकता है।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

20 मिनट



- शिक्षक बच्चों को दो-दो के समूह में बाँट दें और हर एक समूह को एक पैकेट में कुछ कंकड़ दें।
- **समझाएँ**— समूह का एक बच्चा पैकेट से एक-एक करके कंकड़ निकालेगा और प्रत्येक कंकड़ के लिए कॉपी में एक निशान लगाएगा। जब सारे कंकड़ पैकेट से निकल जाएंगे तब दूसरा बच्चा एक-एक करके कंकड़ को फिर से पैकेट के अन्दर रखेगा। अन्दर रखते हुए प्रत्येक कंकड़ के लिए वह पहले


बच्चे के लगाए हुए निशान में से एक को काटेगा

- **शिक्षक के लिए बिंदु** : ध्यान रखें कि विद्यार्थी बिना कॉपी में निशान लगाए कंकड़ को पैकेट के अन्दर न डाले।
- **पूछें** : क्या दूसरे बच्चे ने पहले बच्चे के द्वारा लगाए हुए सारे निशान को काट पाया है?
- **समझाएँ**—जितने कंकड़ पैकेट से निकाले गए थे उतने ही अन्दर डाले गए हैं इसलिए आप सारे निशान काट पाए हैं।



3. अभ्यास (तुम करो)

10 मिनट



- श्यामपट्ट पर चित्र बनाएं और विद्यार्थियों को एक फूल के साथ एक पत्ते का मिलान करने के लिए कहें।
- **पूछें** : क्या कोई फूल या पत्ता बच गया जिसका मिलान नहीं किया गया है?
- **पूछें** : आपको क्या लगता है? क्यों मिलान नहीं किया जा सका?
- **पूछें** : फूल और पत्ते में कौन ज्यादा है?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-04|1 कराएँ-पृष्ठ 34



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-04|1 कराएँ-पृष्ठ 54



संसाधन : कंकड़, पत्ती, कटोरी, चम्मच आदि।



आवश्यक पूर्व ज्ञान : संख्या पूर्व ज्ञान व अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना।



नये शब्द : गिनकर बताओ, लेकर आओ।




सामान्य भूल : बच्चे गिनती तो क्रम में बोल जाते हैं, पर वस्तुएँ माँगने पर संख्या के बराबर वस्तु लाने में गड़बड़ कर देते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

10 मिनट



- टेबल पर कुछ कंकड़ रखें।
- ❓ **पूछें :** क्या तुम इन कंकड़ों में से तीन कंकड़ उठा सकते हो?
- 2-3 बच्चों से उत्तर लें।
- बच्चे नहीं गिन पाएँ तो शिक्षक गिनकर दिखाएँ।
- प्रक्रिया को एक या दो उदाहरण के साथ दोहराएँ।
- श्यामपट्ट पर पत्तियों के चित्र बनाएँ।



पूछें : क्या तुम चार पत्तों पर गोला लगा सकते हो?

- कुछ बच्चों को श्यामपट्ट पर बुलाकर गोला लगाने को कहें।
- जरूरत होने पर बच्चों की मदद करें और समझाएँ।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

20 मिनट



- शिक्षक टेबल पर कुछ कंकड़ रखें और गिनें : एक कंकड़, दो कंकड़, तीन कंकड़, चार कंकड़। बच्चों को बोलें "ये हुए चार कंकड़"।
- **समझाएं—** आप पाँच कोई भी वस्तुएँ जैसे कंकड़, पत्ते, लकड़ी के टुकड़े लायें।
- ❓ **पूछें—** आप कितनी वस्तुएँ लाए हैं? क्या आपको लगता है कि आप सही संख्या में वस्तुएँ लाए हो?
- ✍ **शिक्षक के लिए बिंदु :** बच्चों को कक्षा के अन्दर या कक्षा के बहार से


कोई भी वस्तु लाने के लिए प्रोत्साहित करें।

- श्यामपट्ट पर 3 फूलों के चित्र बनाएँ। चित्रों को धीरे-धीरे बोलते हुए गिनें— एक चित्र, दो चित्र, तीन चित्र बताएँ "ये हुए तीन चित्र" अब कुछ और चित्र बनाकर पूछें —
- ❓ **पूछें—** कितने चित्र बने हैं? ऐसे और भी सवालों के साथ चर्चा करें।



3. अभ्यास (तुम करो)

10 मिनट



5

- श्यामपट्ट पर चित्र बनाएं और बच्चों को मिलान करने के लिए कहें।

2

- ❓ चम्मच के चित्र को 2 से क्यों मिलाएँ?
- ❓ कटोरी के चित्र को 3 से क्यों मिलाएँ?
- ❓ बैगन के चित्र को 5 से क्यों मिलाएँ?

3

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ : कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-04|2 कराएँ-पृष्ठ 35



नहीं : शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-04|2 कराएँ-पृष्ठ 54



संसाधन : संख्या डॉट कार्ड, आइस्क्रीम स्टिक।


आवश्यक पूर्व ज्ञान : संख्या पूर्व ज्ञान व अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना। एक से पाँच तक की मात्रात्मक समझ।

नये शब्द : गिनकर बताओ, लेकर आओ।

सामान्य भूल : संख्या के सही प्रतीक को लिख नहीं पाते हैं।

1. परिचय (मैं करूँ)

10 मिनट




- टेबल पर 1 से 5 तक की संख्या कार्ड रखें।
- एक संख्या कार्ड उठाकर बच्चों को दिखाएँ।
- **पूछें:** क्या तुम कार्ड पर लिखी संख्या के बराबर ताली बजा सकते हो?
- **शिक्षक के लिए बिन्दु:** अगर बच्चे सही संख्या में ताली नहीं बजाते हैं

तो शिक्षक धीरे-धीरे एक-एक कर संख्या के बराबर ताली बजा कर दिखाएँ। साथ ही संख्या नाम को बार-बार दोहराते रहें। बच्चों को अंत में पांचों संख्या कार्ड दिखाकर उनके संख्या नाम को दोहराएँ।

2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

20 मिनट



- शिक्षक श्यामपट्ट पर बिंदुओं से तीन लिखें।
- **समझाएँ:** दिए गए बिन्दुओं को एक साथ जोड़ कर संख्या तीन लिखा जा सकता है। बिन्दु को जोड़ कर दिखाएं। फिर कोई और संख्या को बिंदु में श्यामपट्ट पर बनाएँ।
- **पूछें:** कौन बिन्दु को जोड़कर संख्या लिख सकता है?
- **शिक्षक के लिए बिंदु :** आप

श्यामपट्ट पर एक से ज्यादा संख्या के बिन्दु बना सकते हैं जिससे कि एक साथ 3-4 बच्चे श्यामपट्ट पर काम कर सकते हैं।

- **समझाएँ—** अब मैं जितनी तालियाँ बजाऊँ आपको वही संख्या कॉपी में लिखना है। शिक्षक चार तालियाँ बजाएँ और बच्चों को कॉपी में लिखने को कहें।
- **पूछें :** मैंने कितनी तालियाँ बजायीं? क्या आप संख्या लिख पाए हैं? ऐसे 1 से 5 तक सभी संख्याओं का अभ्यास कराएँ।

3. अभ्यास (तुम करो)

10 मिनट



- बच्चों को आइस्क्रीम स्टिक दिखाएँ और वही संख्या को कॉपी में लिखने को कहें।
- बच्चों को लिखने में मदद करें।
- **पूछें:** मेरे हाथ में कितनी आइस्क्रीम स्टिक हैं?
- **पूछें:** क्या कॉपी उठाकर दिखा सकते हो कि आपने कौन सी संख्या लिखी है?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-04|3 कराएँ-पृष्ठ 36



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-04|3 कराएँ-पृष्ठ 54




अभ्यास गतिविधि 01 ⌚ 40 मिनट

🎯 एक-एक की संगति व समूह की समझ बना सकें।



संसाधन

पत्थर और पत्ते, बिंदी वाला बड़ा पासा।



- बच्चों के साथ गोल घेरे में बैठें।
- बच्चों को एक पत्थर और एक पत्ते का समूह दिखाएँ। बच्चों से पूछें कि कौन से समूह में चीजें ज्यादा हैं— पत्थर ज्यादा हैं या पत्ते।
- बच्चों को बताएँ कि वह एक पत्थर को एक पत्ते से मिलाकर रख सकते हैं और फिर पता कर सकते हैं कि कौन से समूह में ज्यादा चीजें हैं। बच्चों को एक पत्थर के साथ एक पत्ता रखने का मौका दें।
- उसके बाद बच्चों को बिंदियों वाला एक पासा दिखाएँ। बच्चों से कहें कि जितनी बिंदी पासे के ऊपर आएँगी, उतने पत्थर उन्हें उठाने हैं। ऐसा करने के लिए बच्चे एक-एक पत्थर को पासे की एक-एक बिंदी से मिलायेंगे।
- बच्चों को बारी-बारी बुलाकर यह गतिविधि करवाएँ।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- ❓ तुम यह कैसे कह सकते हो कि जितनी बिन्दिया पासे के ऊपर हैं उतने ही पत्थर उठाये हो?


अभ्यास गतिविधि 02 ⌚ 40 मिनट

🎯 1-5 तक की संख्याओं के मान को समझ सकें।



संसाधन

संख्या कार्ड, कंकड़।



- बच्चों को दो समूह में बांट कर उन्हें बोलिए कि एक खेल खेलेंगे। इस खेल में दोनों समूह को नंबर मिलेंगे। अंत में देखेंगे कि कौन-से समूह को कितने नंबर मिले।
- **समझाइए** : एक समूह से कोई एक बच्चा आगे आयेगा। अब वह हवा में एक संख्या लिखेगा। संख्या को बड़े आकार में लिखना होगा कि बाकी बच्चे समझ पाएं। दूसरे समूह को बोलना होगा कि बच्चे ने कौन-सी संख्या लिखी है। हर सही जवाब के लिए एक नंबर मिलेगा।
- अब समूह में खेल को शुरू करिए। दोनों समूह को कितने नंबर मिल रहे हैं यह लिखकर रखिये।
- बच्चे संख्या के समान कंकड़ और संख्या कार्ड भी दिखाएँ।
- शिक्षक हवा में बने अंक को पहचानने में बच्चों का सहयोग करें।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- ❓ क्या हवा में बनाये अंक और संख्या कार्ड की संख्या समान हैं?


अभ्यास गतिविधि 03 ⌚ 40 मिनट

🎯 1-5 तक की संख्याओं के प्रतीकों को समझ और लिख सकें।



संसाधन

ब्लॉक और पर्ची।



- शिक्षक 5-5 के समूह में बच्चों को बाँट दें। सभी बच्चों को एक-एक पर्ची दें और बच्चों के बीच में ब्लॉक को रख दें।
- सभी बच्चे अपनी-अपनी पर्ची पर 1 से 5 तक कोई भी संख्या लिख लेंगे। शिक्षक बच्चों के समूह को कक्षा की एक दीवार के पास एक पंक्ति में खड़ा कर दें। दूसरे समूह को पहले समूह के सामने वाली दीवार के पास खड़ा कर दें।
- दोनों समूह के बीच में ब्लॉक रखे हुए हैं। शिक्षक 1 से पाँच तक कोई भी संख्या बोलें, दोनों समूह से उस अंक की पर्ची वाला बच्चा दौड़कर शिक्षक के पास आए और अपनी पर्ची जमा करे।
- पर्ची जमा करने के बाद पर्ची की संख्या के बराबर ब्लॉक को उठाकर अपनी पंक्ति में खड़ा हो जाना है।
- सभी अंक बोल लेने के बाद शिक्षक देखें कि किस समूह में कितने ब्लॉक हैं। सभी बच्चे अपने-अपने ब्लॉक शिक्षक को दिखाएँगे।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- ❓ दोनों समूहों ने कौन-सी संख्या पर्ची जमा किया है?




- एक-एक की संगति व समूह की समझ बना सकें।
- 1-5 तक की संख्याओं के मान को समझ सकें।
- 1-5 तक की संख्याओं के प्रतीकों को समझ और लिख सकें।



संसाधन : ब्लॉक्स, पासा।

1. प्रक्रिया-1

⌚ 5 मिनट




- टेबल पर कुछ ब्लॉक रखें।
- **समझाएँ**—टेबल पर कुछ ब्लॉक्स हैं। अब मैं कुछ ब्लॉक उठाकर दिखाएँ। ब्लॉक की संख्या आप सबको एक साथ बोलना है।
- समझाते हुए एक उदाहरण करके दिखाएँ। दो ब्लॉक उठाकर जोर से बोले 2। इससे बच्चे समझ पाएंगे कि उन्हें क्या करना है।

- अब अलग-अलग संख्या के ब्लॉक उठाएँ और बच्चों से उत्तर लें।
- ☞ **शिक्षक के लिए बिंदु:** ध्यान रखें कि हर बच्चा इस प्रक्रिया में भाग ले रहा हो। अगर कोई बच्चा शांत है तो उसे अलग से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षक ब्लॉक्स के दो समूह बनाकर पूछें कि बिना गिने बताएँ कि किस समूह में ज्यादा ब्लॉक्स हैं?

2. प्रक्रिया-2

⌚ 15 मिनट




- टेबल पर एक पासा रखें।
- **समझाएँ**—टेबल पर एक पासा रखा हुआ है। कोई एक बच्चे को बुलाएँ जो आकर इस पासे को उछालेगा। बाकी बच्चे अंदाजा लगायेंगे कि उस पासे में कौन सी संख्या आई। फिर जिसने पासा उछाला था वह पासे को देख कर बताएगा कि कौन सी संख्या है।
- समझाते हुए उदाहरण के लिए आप एक बार पासा उछालिये और बच्चों को अंदाजा लगाने को बोलिए। फिर

- आप पासा देख कर संख्या बताइए जैसे "पासे में आया है 4"।
- अब बच्चों को एक-एक करके बुलाएँ और गतिविधि आगे बढ़ाने दीजिये।
- ☞ **शिक्षक के लिए बिंदु:** ध्यान रखें कि हर बच्चा इस प्रक्रिया में भाग ले रहा हो। अगर कोई बच्चा शांत है तो उसे सामने आकर पासा उछालने के लिए प्रोत्साहित करें।

3. प्रक्रिया-3


⌚ 20 मिनट

A



- कक्षा के पूरे बच्चों को दो समूह में बाँट दें।
- एक समूह का नाम **A** दें। और दूसरे को **B**। श्यामपट्ट पर दोनों समूह के नाम लिख दें।
- **समझाएँ**—दोनों समूह मिलकर अभी एक खेल खेलेंगे। पहले समूह **A** से एक बच्चा समूह **B** के पास जायेगा। समूह **B** उसके कान में एक संख्या बोलेगा। अब उस बच्चे को बिना कुछ बोले अपने समूह को समझाना है कि

B



- कौन सी संख्या बताया है। आप कोई भी तरीका अपना सकते हो जैसे—लिखना या कोई वस्तु दिखाना लेकिन मुँह से कुछ बोलना मना है।
- अब समूह **A** से एक बच्चे को समूह **B** में भेजिये और गतिविधि शुरू कीजिये।
- अगर वो बच्चा अपने समूह को सही संख्या समझा पाए तो श्यामपट्ट में समूह **A** के आगे 1 प्वाइंट लिख दीजिये।




- एक-एक की संगति व समूह की समझ बना सकें।
- 1-5 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ बना सकें।
- 1 से 5 तक की संख्याओं की प्रतीकों को समझ और लिख सकें।



संसाधन : डोमिनो

1. प्रक्रिया-1

⌚ 20 मिनट




- सम्पूर्ण कक्षा के बच्चों को दो-दो के समूह में बाँट दीजिये।
- हर एक समूह को कुछ डोमिनो संख्या कार्ड दीजिये।
- ☞ **समझाएँ** : आपके पास कुछ डोमिनो कार्ड हैं। आपको उसके बिंदु वाले साइड से एक कड़ी बनानी है। कड़ी बनाने के लिए पहला बच्चा एक कार्ड रखेगा। दूसरे बच्चे को भी उतने ही बिंदु वाले दूसरे कार्ड को रखना होगा। फिर पहला बच्चा दूसरा कोई कार्ड रखेगा और इसी तरह से कड़ी आगे बढ़ती जाएगी।
- समझाते हुए डोमिनो कार्ड से आप एक उदाहरण करके दिखाइए।
- अब बच्चों को अपने समूह में कार्य करने को कहें।

☞ **शिक्षक के लिए बिंदु**: हर समूह में जाकर देखें कि बच्चे सही प्रक्रिया से कड़ी बना रहे हैं या नहीं। बच्चों को उपयुक्त समय दीजिये कार्य को पूर्ण करने के लिए।

- ❓ आप कैसे समझोगे कि बनी हुई कड़ी सही है?
- ❓ इस कार्ड पर कितने बिन्दु हैं? कार्ड में जितने बिन्दु हैं उस संख्या को कॉपी में लिख कर दिखाइए।
- ❓ बनी हुई कड़ी में कौन से कार्ड में सबसे ज्यादा बिंदु हैं?
- ❓ बनी हुई कड़ी में कौन से कार्ड में सबसे कम बिंदु हैं?

2. प्रक्रिया-2

⌚ 20 मिनट



- सम्पूर्ण कक्षा के बच्चों को दो-दो के समूह में बाँट दीजिये।
- हर एक समूह को कॉपी और पेंसिल निकालकर रखने बोलिए।
- **समझाएँ** : आपने थोड़ी देर पहले जो कड़ी डोमिनो संख्या कार्ड से बनायी अब वैसी ही कड़ी कॉपी में लिखकर बनाना होगा। कड़ी बनाने के लिए पहला बच्चा एक संख्या लिखेगा। दूसरे बच्चे को भी वही संख्या लिखनी होगी। फिर पहला बच्चा कोई संख्या लिखेगा। इसी तरह से कड़ी बनती जाएगी।
- समझाते हुए उदाहरण के लिए श्यामपट्ट पर एक कड़ी बनाकर दिखाइए।
- अब बच्चों को अपने समूह में कार्य करने को कहें।

☞ **शिक्षक के लिए बिंदु**: हर समूह में जाकर देखें कि बच्चे सही प्रक्रिया से कड़ी बना रहे हैं या नहीं। बच्चों को उपयुक्त समय दीजिये कार्य को पूर्ण करने के लिए। प्रक्रिया 2 को करने के दौरान पूछे जाने वाले सवाल—

- ❓ आप कैसे समझोगे कि बनी हुई कड़ी सही है?
- ❓ ये कौन सी संख्या लिखी है आपने? कार्ड में जो संख्या लिखी है उतनी बार ताली बजा कर दिखाइए।
- ❓ बनी हुई कड़ी में कौन सी संख्या सबसे ज्यादा है?
- ❓ बनी हुई कड़ी में कौन सी संख्या सबसे कम है?



संसाधन : गिनी जा सकने वाली वस्तुएँ— कंकड़, पत्ती आदि।

आवश्यक पूर्व ज्ञान : बच्चों को 1 से 5 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ हो।

नये शब्द : गिन कर बताओ, लेकर जाओ।

सामान्य भूल : बच्चे गिनती तो क्रम में बोल जाते हैं पर वस्तुएँ मॉंगने पर संख्या के बराबर वस्तु लाने में गड़बड़ कर देते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

10 मिनट



- टेबल पर कुछ कंकड़ रखें।
- ❓ **पूछें:** क्या तुम इन कंकड़ों में से सात कंकड़ उठा सकते हो?
- 2-3 बच्चों से उत्तर लें। बच्चे नहीं गिन पाएँ तो शिक्षक गिनकर दिखाएँ।
- प्रक्रिया को दो या तीन उदाहरण के साथ दोहराएँ।
- 👉 **शिक्षक के लिए बिन्दु :** संख्या 6

से 9 के बीच ही हो।


शिक्षक श्यामपट्ट पर यह चित्र बनायें।

- ❓ **पूछें:** क्या तुम इनमें से आठ पत्ते को गोला लगा सकते हो?
- ऐसे और प्रश्नों पर चर्चा करें।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

20 मिनट



- शिक्षक टेबल पर कुछ कंकड़ रखें और गिनें : एक कंकड़, दो कंकड़, तीन कंकड़....नौ कंकड़। बच्चों को बोलें "ये हुए नौ कंकड़"।
- **समझाएँ**— आप कोई भी सात वस्तुएं जैसे कंकड़, पत्ते, लकड़ी के टुकड़े लायें।
- ❓ **पूछें :** आप कितनी वस्तुएँ लाए हैं? क्या आपको लगता है कि आप सही संख्या में वस्तुएँ लाए हो?
- 👉 **शिक्षक के लिए बिंदु :** बच्चों को

कक्षा के अन्दर या कक्षा के बहार से कोई भी वस्तु लाने के लिए प्रोत्साहित करें।

- श्यामपट्ट पर 6 फूलों के चित्र बनाएँ। चित्रों को धीरे-धीरे बोलते हुए गिनें और बताएं "ये हुए छह चित्र"
- अब कुछ और चित्र बनाकर पूछें —
- ❓ **पूछें :** कितने चित्र बने हैं? ऐसे और भी सवाल के साथ चर्चा करें।



3. अभ्यास (तुम करो)

10 मिनट



5

- श्यामपट्ट पर चित्र बनाएँ और बच्चों को मिलान करने के लिए कहें।
- ❓ गिलास के चित्र को 5 से क्यों मिलाएँ?
- ❓ बच्चों को पूछें कि उन्होंने पेंसिल के चित्र को 8 से क्यों मिलाएँ?
- ❓ बच्चों को पूछें कि उन्होंने मोमबत्ती के चित्र को 7 से क्यों मिलाएँ?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-05|1 कराएँ-पृष्ठ 41




नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-05|1 कराएँ-पृष्ठ 60



7



8



संसाधन : संख्या डॉट कार्ड ,
आइस्क्रीम स्टिक।



आवश्यक पूर्व ज्ञान : 1 से 9 तक
संख्याओं की मात्रात्मक समझ (ठोस वस्तु
और चित्र के साथ)।



नये शब्द : गिन कर बताओ,
लेकर आओ।



सामान्य भूल : बच्चे संख्या के सही
प्रतीक को लिख नहीं पाते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट



- टेबल पर एक से नौ तक की संख्या
कार्ड रखें और एक संख्या कार्ड
उठाकर दिखाएँ।
- ❓ **पूछें** : क्या तुम उतनी ही ताली
बजा सकते हो जितनी संख्या कार्ड
पर लिखी हुई है?
- 👉 **शिक्षक के लिए बिन्दु**: अगर बच्चे
सही संख्या में ताली नहीं बजाते हैं
तो शिक्षक धीरे-धीरे एक-एक




- संख्या के बराबर ताली बजा कर दिखाएँ।
- ❓ **पूछें**: क्या तुम उतनी ही अँगुली दिखा
सकते हो जितनी संख्या कार्ड पर लिखी
हुई है?
- अंत में एक से नौ तक के सारे संख्या
कार्ड दिखाकर संख्या नाम को दोहराएँ।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट



- शिक्षक श्यामपट्ट पर बिंदुओं से सात
लिखें।
- **समझाएँ** : दिए गए बिंदु को एक
साथ जोड़ कर संख्या सात लिखा जा
सकता है।
डॉट को जोड़ कर दिखाएँ। फिर कोई
और संख्या का डॉट श्यामपट्ट पर
बनाएँ।
- ❓ **पूछें**: कौन बिंदु को जोड़कर संख्या
लिख सकता है?
- 👉 **शिक्षक के लिए बिंदु** : आप

- श्यामपट्ट पर एक से ज्यादा संख्या के
बिंदु बना सकते हैं जिससे कि एक साथ
3-4 बच्चे श्यामपट्ट पर कार्य कर सकें।
- **समझाएँ** : अब मैं तालियाँ बजाऊँ
आपको वही संख्या कॉपी में लिखना है।
शिक्षक सात तालियाँ बजाएँ और बच्चों
को कॉपी में लिखने को कहें।
- 👉 **पूछें** : मैंने कितनी तालियाँ बजायी? क्या
आप संख्या लिख पाए हैं?
ऐसे 6 से 9 तक सभी संख्याओं का
अभ्यास कराएँ।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट



- बच्चों को आइस्क्रीम स्टिक दिखाएँ और
वही संख्या को कॉपी में लिखने को कहें।
- ❓ मेरे हाथ में कितनी आइस्क्रीम स्टिकें
हैं?
- ❓ क्या आप कॉपी दिखा सकते हो कि
आपने कौन सी संख्या लिखी है?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक
सप्ताह-05|2 कराएँ-पृष्ठ 42



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि
सप्ताह-05|2 कराएँ-पृष्ठ 60

📦 **संसाधन** : गिनी जा सकने वाली वस्तुएँ।

⏪ **आवश्यक पूर्व ज्ञान** : बच्चों को गिनना आता हो तथा एक से नौ तक की संख्याओं का मात्रात्मक समझ हो।

🎯 **नये शब्द** : गिनो, आखरी नाम।

❗ **सामान्य भूल** : गिनते समय दूसरे को दो व पाँचवें को पांच समझ लेते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक कक्षा की शुरुआत नीचे लिखी कहानी से करें।
- एक बुढ़िया ने बाग में गाजर का दाना बोया। एक दिन बूढ़े को गाजर का हलवा खाने का मन हुआ। बुढ़िया बोली जाओ बाग से गाजर ले आओ। बूढ़ा बाग में गाजर का पौधा पकड़ कर खूब जोर लगाया। पर गाजर जमीन से बाहर नहीं आया। बूढ़े ने बुढ़िया को

बुलाया। अब दोनों मिल कर जोर लगाया फिर भी गाजर जमीन से बाहर नहीं आया। तब बुढ़िया ने अपनी पोती को बुलाया और तीनों मिल कर जोर लगाया। अब गाजर निकल आया।


❓ **पूछें**: सबसे पहले गाजर निकालने बगीचे में कौन आया? पंक्ति में दूसरे स्थान पर कौन गाजर निकालने में मदद कर रहा है?

- बच्चे अपनी बारी आने पर जवाब देंगे।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट



- शिक्षक कक्षा में चॉक से एक सीधी रेखा बनाएं और नौ बच्चों को बुलाकर रेखा पर खड़े होने को कहें। पंक्ति की शुरुआत कहाँ से है उसे निर्धारित करें।
- ❓ **पूछें**: पंक्ति में सबसे पहले कौन खड़ा है? चौथे बच्चे के आगे कितने लड़के खड़े हैं? पंक्ति के पीछे से अगर तीसरे लड़के को बैठने को कहा जाए तो कौन-कौन

बैटेगा?


📌 **शिक्षक के लिए बिन्दु** : सभी प्रश्नों का उत्तर समझाते हुए संख्या की मात्रात्मक समझ और क्रमांक की समझ को स्पष्ट करें। अब शिक्षक टेबल पर एक लाइन में कुछ कंकड़ रखें।

❓ **पूछें**: क्या तुम लाइन पर रखे तीसरे कंकड़ को उठा सकते हो? क्या तुम लाइन पर रखे पहले तीन कंकड़ मुझे दे सकते हो? ऐसे कुछ और सवालों पर चर्चा करें।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक श्यामपट्ट पर एक टिकट काउंटर बनाएं। काउंटर के सामने कुछ लड़के और लड़कियों का चित्र बनाएं। साथ ही बच्चों के नाम भी लिख दें।
- ❓ चित्र में कितने बच्चे टिकट लेने के लिए खड़े हैं?
- ❓ काउंटर से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है?
- ❓ काउंटर से जो तीसरे स्थान पर खड़े हैं उसके पीछे कितने बच्चे खड़े हैं?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-05|3 कराएँ-पृष्ठ 43



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-05|3 कराएँ-पृष्ठ 60




अभ्यास गतिविधि 01 ⌚ 40 मिनट

🎯 1-9 तक की संख्याओं के मान को समझ सकें।



संसाधन

संख्या कार्ड, कंकड़।



- बच्चों को दो समूह में बाँट कर उन्हें बोलिए कि एक खेल खेलेंगे। इस खेल में दोनों समूहों को नंबर मिलेंगे। अंत में देखेंगे कि कौन से समूह को कितने नंबर मिले।
- समझाइए – एक समूह से कोई एक बच्चा आगे आयेगा। अब वह हवा में एक संख्या लिखेगा। संख्या को बड़े आकार में लिखना होगा कि बाकी बच्चे समझ पाएँ। दूसरे समूह को बोलना होगा कि बच्चे ने कौन सी संख्या लिखी है। हर सही जवाब के लिए एक नंबर मिलेगा।
- अब समूह में खेल को शुरू करिए। दोनों समूह को कितने नंबर मिल रहे हैं यह लिखकर रखिये।
- बच्चे संख्या के समान कंकड़ और संख्या कार्ड भी दिखाएँ।
- शिक्षक हवा में बने अंक को पहचानने में बच्चों का सहयोग करें।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- 🔍 क्या हवा में बनाये अंक और संख्या कार्ड की संख्या समान हैं?

अभ्यास गतिविधि 02 ⌚ 40 मिनट

🎯 1-9 तक की संख्याओं के प्रतीकों को समझ और लिख सकें।



संसाधन

अवधारणा बोर्ड।



- कक्षा के बच्चों को चार या पाँच समूह में सुविधा अनुसार बाँटें।
- शिक्षक बच्चों को अवधारणा बोर्ड पर दिए गए अंकों की वस्तुओं को रखने को कहेंगे।
- शिक्षक बच्चों को अंक बोल कर बताएंगे और वस्तुओं को निर्धारित जगह रखने में मदद करेंगे।
- सभी समूह के बच्चों से उक्त कार्य को करने के लिए कहें एवं आपस में चर्चा करें।
- अन्य परिवेशीय वस्तुओं के साथ उक्त प्रक्रिया कराएँ।
- बच्चे बोले गये अंक को लिखकर भी दिखाएँ।
- बच्चों को उनके द्वारा किए गए कार्य को अपने शब्दों में बताने के लिए पर्याप्त समय दें।
- शिक्षक बच्चों को अभिव्यक्ति करने में मदद करें।
- सभी बच्चों की सहभागिता हो।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- 🔍 क्या तुम अवधारणा बोर्ड में संख्या आठ को पहचान सकते हो?


अभ्यास गतिविधि 03 ⌚ 40 मिनट

🎯 1-9 तक की संख्याओं के मान और क्रमांक की समझ में अन्तर कर सकें।



संसाधन

श्यामपट्ट।



- कक्षा के सभी बच्चों को छोटे-छोटे समूह में बाँट दें।
- अपने समूह के बच्चों की संख्या गिनने को कहें।
- फिर उन्हें एक कतार में खड़े होने को कहें।
- पूछें अमुक बच्चा किस क्रम पर आता है।
- श्यामपट्ट पर विभिन्न संख्या में स्टार बना कर और गिनने को कहें संख्या नोट करें।
- पूछें— कहाँ से गिरना प्रारंभ किया और क्यों?
- शिक्षक श्यामपट्ट पर बने स्टार को एक निश्चित स्तर से गिनने को कहें, सभी समूहों से गिनने को कहें।
- पूछें— पहले गिनना आसान था या बाद में, क्यों भूल किसमें ज्यादा हो सकती थी?
- सभी की सहभागिता हो।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- 🔍 अपनी कापी में कोई चार चीजें बनाकर तीसरी चीज पर घेरा लगा सकते हो?
- 🔍 सात गोले बनाकर पाँचवें गोले पर टिक का निशान बना सकते हो?



1-9 तक की संख्याओं को आगे और पीछे के क्रम में गिन और लिख सकें।

संसाधन : संख्या कार्ड्स।

◀ आवश्यक पूर्व ज्ञान : गिनना। एक से नौ तक की संख्या का मात्रात्मक समझ।

नये शब्द : संख्याओं का क्रम।

! सामान्य भूल : बच्चे आगे की संख्या तो बोल पाते हैं लेकिन पीछे की संख्या नहीं बोल पाते।

1. परिचय (मैं करूँ)

10 मिनट



- शिक्षक फर्श पर संख्या रेखा (1-9) बनाएं।
- एक बच्चे को संख्या "1" से शुरू करके संख्या रेखा पर आगे कूदते हुए बढ़ने के लिए कहें।
- ❓ पूछें: बच्चा अभी किस संख्या पर खड़ा है? आगे कूद लगाते ही वह किस संख्या पर खड़ा हो जाएगा?
- पीछे कूद लगाने से पहले वह किस

- संख्या पर खड़ा था?
- जब बच्चा संख्या "9" पर पहुँच जाए, तो उसे पीछे एक-एक कूद लगाते हुए संख्या "1" पर वापस आने को कहें।
- इस प्रक्रिया को अन्य बच्चों के साथ दोहराएं।

2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

20 मिनट




- शिक्षक एक से नौ तक की संख्या कार्ड रखें और बच्चों को बारी-बारी से बुलाकर संख्या कार्ड को एक से नौ तक क्रम में रखने को कहें।
- ❓ पूछें: (कार्ड दिखाते हुए) यह कौन सी संख्या है? इसके बाद तुम कौन सी संख्या का कार्ड रखोगे?
- कुछ और बच्चों के साथ प्रक्रिया को आगे बढ़ाएँ।
- अब शिक्षक कोई भी एक संख्या कार्ड निकाल कर टेबल पर रखें

- और दो बच्चों को एक साथ बुलाएँ। दोनों बच्चों से अलग-अलग सवाल पूछें।
- ❓ पूछें : कार्ड पर लिखी संख्या के पहले वाली संख्या क्या है? कार्ड पर लिखी संख्या के बाद वाली संख्या क्या है?
- कुछ और बच्चों के साथ प्रक्रिया को दोहराएँ।
- ✍ शिक्षक के लिए बिन्दु : यह करके दिखाएँ कि एक कंकड़ जोड़ कर आगे की संख्या और एक कंकड़ कम कर पीछे की संख्या पता कर सकते हैं।

3. अभ्यास (तुम करो)

10 मिनट



- श्यामपट्ट पर दी गई संख्याएँ लिखें।
- ❓ क्या यह संख्याएँ क्रम में हैं?
- ❓ क्रम में सजायें तो आठ के पहले कौन की संख्या आएगी।
- ❓ छह के बाद कौन की संख्या आएगी?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-06|1 कराएँ-पृष्ठ 48



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-06|1 कराएँ-पृष्ठ 64



संसाधन : आइस्क्रीम स्टिक।

◀ आवश्यक पूर्व ज्ञान : 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ होना।


नये शब्द : एक भी नहीं, शून्य।

! सामान्य भूल : बच्चे कुछ भी नहीं को शून्य समझ लेते हैं, इसे स्पष्ट करें कि शून्य माने एक भी नहीं।



1. परिचय (मैं करूँ)

10 मिनट




- शिक्षक कक्षा की शुरुआत एक कहानी से करें।
- "तीन लड्डू की एक टोकरी लेकर अजय घर की तरफ जा रहा था। (शिक्षक श्यामपट्ट पर 3 लिखेंगे) अचानक टोकरी हिली और टोकरी से एक लड्डू गिर गया।"
- ? पूछें : अब टोकरी में कितने लड्डू बचे?

- अब अजय जैसे ही थोड़ा तेज चलने लगा, टोकरी से फिर एक लड्डू गिर गया।
- ? पूछें : अब टोकरी में कितने लड्डू बचे?
- इस बार फिर से टोकरी हिली और एक लड्डू नीचे गिर गया।
- ? पूछें : अब टोकरी में कितने लड्डू बचे?
- समझाएँ — अब टोकरी में एक भी लड्डू नहीं बचा। इस को बोलते हैं शून्य। (शिक्षक श्यामपट्ट पर 0 लिखें)



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

20 मिनट



- शिक्षक मेज पर चार आइस्क्रीम स्टिक रखेंगे। श्यामपट्ट पर चार आइस्क्रीम का चित्र बनाएँगे।
- ? पूछें : मेज पर कितनी आइस्क्रीम रखी हुई हैं?
- वह संख्या अपनी कॉपी में लिखकर दिखाइए।
- एक आइस्क्रीम स्टिक मेज से हटा लीजिए और श्यामपट्ट से भी एक आइस्क्रीम स्टिक का चित्र मिटा दें।
- ? पूछें : मेज पर कितनी आइस्क्रीम रखी हुई हैं?

- वह संख्या अपनी कॉपी में लिखकर दिखाइए।
- इस तरह से मेज से अंतिम आइस्क्रीम स्टिक भी हटा दें।
- ? पूछें : अब मेज पर कितनी आइस्क्रीम रखी हुई हैं?
- समझाएँ — मेज पर एक भी आइस्क्रीम स्टिक नहीं हैं और श्यामपट्ट पर एक भी चित्र नहीं बचा। इसका मतलब मेज पर शून्य आइस्क्रीम स्टिक बची और श्यामपट्ट पर भी शून्य चित्र है। श्यामपट्ट पर "0" लिखें।



3. अभ्यास (तुम करो)

10 मिनट

7

0

4

- शिक्षक श्यामपट्ट पर दिए गए चित्र को बनाएँ।
- बच्चों को बोलें कि जो संख्या लिखी है, उतने ही गोले बॉक्स के अन्दर बनाएँ।
- ? पहले बॉक्स में कितने गोले बनाए?
- ? तीसरे बॉक्स में कितने गोले बनाए?
- ? दूसरे बॉक्स में एक भी गोला क्यों नहीं आया?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक
सप्ताह-06|2 कराएँ-पृष्ठ 49



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ



कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि
सप्ताह-06|2 कराएँ-पृष्ठ 64

📦 **संसाधन** : माचिस की तीली।

⏪ **आवश्यक पूर्व ज्ञान** : गिनती और संख्या नाम।


🎯 **नये शब्द** : बण्डल, खुले।

❗ **सामान्य भूल** : कितने बण्डल हैं? पूछने पर बच्चे बण्डलों की संख्या न बता कर कुल संख्या बता देते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट




- शिक्षक कक्षा की शुरुआत एक कहानी से करें।
- मोनू ने अपनी गुल्लक तोड़ी तो उसमें से बहुत सारे सिक्के निकले। मोनू को सिक्कों की संख्या गिननी थी। वह उन्हें एक-एक कर गिन रहा था। तभी उसकी बहन ने उसे बुला लिया। मोनू भूल गया कि वह कहाँ तक गिना था। अब उसे फिर शुरु से गिनना होगा

- और इसमें बहुत समय लगेगा।
- ❓ **पूछें** : मोनू कैसे गिने जिससे कि वह बीच में अगर भूल भी जाए तो भी उसे गिनने में ज्यादा समय न लगे?
- बच्चों की अलग-अलग प्रतिक्रियाओं को सुनें।
- **समझाएँ**—सिक्कों को छोटे-छोटे ढेर में रख कर गिनने से आसानी होगी। एक ढेर को हम बण्डल बोलेंगे और बाकी को खुले।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट




- शिक्षक बच्चों को 6-6 के समूह में बाँट दें और हर समूह को 15-15 तीलियों दें।
- **समझाएँ**—हर एक समूह में, पहला बच्चा तीलियाँ खुले रखेगा। दूसरा बच्चा दो-दो तीलियों का, तीसरा बच्चा तीन-तीन तीलियों का, चौथा बच्चा चार-चार तीलियों का, पाँचवाँ बच्चा पाँच-पाँच तीलियों का तथा छठवाँ बच्चा दस-दस तीलियों का बण्डल बनाएगा और शेष तीलियाँ

- खुली रखेगा।
- समझाते हुए बच्चों को दिखाएँ कि बण्डल कैसे बनाना है।
- ❓ **पूछें** : गिनने में सबसे कम समय किसे लगा? किसको गिनने में ज्यादा आसानी हुई?
- कितने बण्डल बने? कितने खुले रह गए?
- **समझाएँ**—सभी के पास 15 तीलियाँ थीं। लेकिन जिसने बण्डल बनाकर गिना वो जल्दी गिन पाया। परन्तु जिसके पास सभी तीलियाँ खुली थीं उसे ज्यादा समय लगा। इसलिए जब ज्यादा वस्तुओं को गिनना होता है तो हम बण्डल बनाकर गिनते हैं।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक श्यामपट्ट पर 12 फूलों के चित्र बनायेंगे।
- बच्चों को पहले दो-दो के, फिर पाँच-पाँच के और अंत में दस-दस के समूह में घेरा लगाने को कहें।
- ❓ दो-दो के कितने बण्डल बने? कितने खुले रह गए?
- ❓ पाँच-पाँच के कितने बण्डल बने? कितने खुले रह गए?
- ❓ दस-दस के कितने बण्डल बने? कितने खुले रह गए?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-06|3 कराएँ-पृष्ठ 50



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ



कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-06|3 कराएँ-पृष्ठ 64




अभ्यास गतिविधि 01 ⌚ 40 मिनट

🌀 1-9 तक की संख्याओं को आगे और पीछे के क्रम में गिन और लिख सकें।



संसाधन

संख्या कार्ड।



- 9-9 बच्चों के समूह बनाकर प्रत्येक समूह को एक सीधी रेखा में कदवार खड़ा करें।
- प्रत्येक बच्चे का नामकरण संख्या से करें तथा बच्चों से अपनी संख्या याद रखने को कहें।
- अब बच्चों को संख्या नाम से पुकारें और पूछें, अमुक बच्चा आगे है या पीछे।
- सभी बच्चों से बारी-बारी से प्रक्रिया कराएँ।
- अब क्रमशः एक-एक बच्चे को पहले आगे से बच्चों की गिनती करवाएँ, फिर पीछे से गिनती करवाएँ।
- सभी बच्चों को अपना-अपना क्रम याद रखने को बोलें यदि आगे से शुरू करें तब भी वही क्रम संख्या और पीछे से शुरू करें तो भी वही क्रम संख्या आए।
- बच्चों को उनके द्वारा किए गए कार्य को अपने शब्दों में बताने के लिए पर्याप्त समय दें।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- ❓ क्या तुम 1 से 9 तक की संख्याओं को उल्टे क्रम में लिख सकते हो?


अभ्यास गतिविधि 02 ⌚ 40 मिनट

🌀 शून्य की अवधारणा को समझ सकें।



संसाधन

मनके / तीलियाँ।



- कक्षा के बच्चों को एक समूह में बैठाएँ।
- शिक्षक, बच्चों के साथ बैठें तथा अपने पास कुछ मनके/तीलियाँ या टॉफियाँ रखें।
- शिक्षक, शून्य की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए कुछ कहानियों का सहारा लें।
- उदाहरण: सोहन की प्लेट में 4 टॉफियाँ थीं, उसने एक मोहन को दे दिया, अब उसकी प्लेट में 3 टॉफियाँ रह गईं, फिर उसने एक टॉफी मीरा को दे दिया, अब उसकी प्लेट में 2 टॉफी रह गईं।
- फिर उसने एक टॉफी खुद खा लिया, अब उसकी प्लेट में कितनी टॉफियाँ बचीं।
- अब प्लेट में एक भी टॉफी नहीं बची, बच्चों को बताएं कि 'एक भी न रह जाना', शून्य कहलाता है।
- इसी तरह की प्रक्रिया मनकों/तीलियों की सहायता से कक्षा में करवाएँ।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- ❓ कोई तुमसे शून्य फूल के चित्र बनाने को कहें तो तुम कितने चित्र बनाओगे?


अभ्यास गतिविधि 03 ⌚ 40 मिनट

🌀 बण्डल (2, 3, 4, 5, 10) बनाने की समझ बना सकें।



संसाधन

माचिस की तीलियाँ / परिवेशीय वस्तुएँ



- बच्चों को छोटे-छोटे समूह में बांटें।
- प्रत्येक समूह में माचिस की तीलियाँ/झाड़ू की सीकें/नीम के पत्तियों की सीक पर्याप्त मात्रा में दें।
- समूह में बैठे अन्य बच्चे अब किसी एक बच्चे के द्वारा निकाली गयी सीकों को गिनकर देखेंगे कि सही संख्या निकाली है या नहीं।
- बच्चों को निर्देश दें कि बच्चे को दूसरे बच्चे की सीकें जल्दी और नए तरीके से गिननी हैं जैसे 2, 3 के जोड़े में या 4, 5 के आदि।
- प्रत्येक समूह में 10 से अधिक तीली/सीक होने पर एक बण्डल बनाने को कहें।
- बच्चों से पूछें कि 10 के बण्डल को कोई नाम भी दे सकते हैं क्या, जैसे 2 को जोड़ा कहते हैं?

बच्चों के लिए प्रश्न:

- ❓ बच्चों को कुछ तीलियाँ दें। दी गई तीलियों से पांच के कितने बण्डल बना सकते हो?



📦 **संसाधन** : माचिस तीली, रबर बैंड।

⏪ **आवश्यक पूर्व ज्ञान** : 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ होना और लिख पाना, शून्य की समझ।


🗣️ **नये शब्द** : इकाई, दहाई।

⚠️ **सामान्य भूल** : बच्चे संख्या लिख लेते हैं परन्तु संख्या में लिखे अंकों का मतलब नहीं समझते हैं।



1. परिचय (में करूँ)

⌚ 10 मिनट




- शिक्षक एक पेज पर एक समूह में नौ माचिस की तीलियाँ एक साथ और थोड़ी दूर दूसरे समूह में एक तीली रखें।
- ❓ **पूछें**: पहले समूह में कितनी तीलियाँ हैं?
- दूसरे समूह में कितनी तीलियाँ हैं?
- **समझाएँ**— पेज पर तीलियों के नीचे $(9 + 1 = 10)$ लिखते हुए

- बताएं कि नौ में एक मिलाया तो बने दस।
- इसी प्रकार से दो समूह बनाते हुए, दस (बण्डल) में एक मिलाया तो बना ग्यारह।
- 👉 **शिक्षक के लिए निर्देश**: इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए 20 तक प्रक्रिया को दोहराएँ।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट




- शिक्षक एक-एक बच्चों को बुलाएं और कुछ माचिस की तीलियाँ दें।
- उदाहरण**: 14 बच्चे को कुल तीलियाँ गिनकर दस के बण्डल बनाने को कहें।
- ❓ **पूछें**: कितने दस के बण्डल बने? कितने खुले बच गए?
- **समझाएँ**— बण्डल को हम दहाई कहते हैं। एक बण्डल में दस तीलियाँ होती हैं। खुले को हम इकाई कहते हैं। चौदह में एक

- बण्डल यानी एक दहाई और चार खुले यानी चार इकाई होती है।
- अब शिक्षक श्यामपट्ट पर कुछ चित्र बनाएं
- उदाहरण— 9** बच्चे से दस-दस के समूह में गोला लगाने को कहें।
- ❓ **पूछें**: दस के कितने समूह बने? कितने खुले रह गए?
- **समझाएँ**— एक भी दस का समूह/बण्डल नहीं बन पाएगा। "9" केवल नौ इकाई से है।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक बच्चों के साथ बैठें। साथ में कुछ दस के बण्डल और खुली माचिस की तीलियाँ रखें।
- **समझाएं**: मैं जो संख्या बोलूँगा आपको उतनी ही माचिस की तीली मेरे हाथ में देनी हैं।
- ❓ मैंने कौन सी संख्या बोली?
- ❓ तुमने मुझे कितने बण्डल/दहाई दिए?
- ❓ दी गई संख्या में कितनी इकाई है?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-07|1 कराएँ-पृष्ठ 55



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-07|1 कराएँ-पृष्ठ 68



संसाधन : माचिस तीली, रबर बैंड, संख्या कार्ड, गिनमाला।

आवश्यक पूर्व ज्ञान : 1 से 20 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ होना, शून्य की समझ।


नये शब्द : इकाई, दहाई।

सामान्य भूल : बच्चे संख्या को क्रम में लिख पाते हैं। परन्तु बीच की किसी एक संख्या को नहीं लिख पाते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

10 मिनट




- शिक्षक कक्षा की फर्श पर उक्त चित्र बनाएं।
- एक बच्चे को दो से अधिक कंकड़ देकर चित्र पर उछालने को कहें।
- **पूछें**: इकाई में कितने कंकड़ आए? दहाई में कितने कंकड़ आए?
- **समझाएँ**: तुम्हारे इकाई में चार और दहाई में एक कंकड़ आए। मतलब तुम्हारे पास एक दहाई और चार

- इकाई है?
- **पूछें**: एक इकाई और चार दहाई मिलकर कौन सी संख्या बनती है?
- इस प्रक्रिया को कुछ और बच्चों के साथ दोहराएं।
- **शिक्षक के लिए बिन्दु**: जरूरत पड़ने पर बच्चों को माचिस तीली का इस्तेमाल करके समझाएँ कि दहाई का एक कंकड़ एक दस के बण्डल को दर्शा रहा है।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

20 मिनट




- शिक्षक बच्चों को 18 माचिस की तीलियाँ दें और तीलियाँ गिनकर संख्या लिखने को कहें।
- इसके बाद बच्चों को बण्डल बनाने को कहें।
- **पूछें**: कितने बण्डल/दहाई बने और कितने खुले/इकाई बचे? बण्डल और खुले की संख्या चार्ट पर लिखने को कहें।
- **समझाएँ**: 18 में 1 दहाई और 8 इकाई होते हैं। बाई तरफ से पहले

- दहाई और फिर इकाई लिखते हैं।
- अब गिनमाला से गतिविधि शुरू करें। बच्चों को कोई भी एक संख्या कार्ड उठाने को कहें। जैसे: 15-15 मोतियों को बाई ओर सरकाने के बाद संख्या कार्ड लटकाने को कहें।
- **समझाएँ**: यहाँ लाल रंग के दस मोती एक दहाई को और पांच सफेद मोती पांच इकाई को दर्शा रहे हैं।



3. अभ्यास (तुम करो)

10 मिनट



- शिक्षक श्यामपट्ट पर कुछ संख्या लिखें। 18, 20
- पूछे गए सवालों के जवाब बच्चों को चित्र अपनी-अपनी कॉपी में लिखने को कहें।
- **पूछें**: अठारह में कितनी दहाई और इकाई होगी?
- **पूछें**: बीस में कितनी दहाई और इकाई होगी?
- **पूछें**: एक दहाई और नौ इकाई मिलकर कौन सी संख्या बनाएंगे?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-07|2 कराएँ-पृष्ठ 56



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ



कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:
संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-07|2 कराएँ-पृष्ठ 68



📦 संसाधन : संख्या कार्ड्स।

⏪ आवश्यक पूर्व ज्ञान : गिनना। एक से बीस तक की संख्या का मात्रात्मक समझ।


🎯 नये शब्द : कोई नहीं।

⚠️ सामान्य भूल : कोई नहीं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक फर्श पर चित्र के अनुसार संख्या लिखें। (एक से बीस)
- **समझाएँ:** एक बच्चे को संख्या 1 से शुरू करके संख्या पर आगे कूदते हुए बढ़ने के लिए कहें।
- **पूछें:** बच्चा अभी किस संख्या पर खड़ा है? अगली कूद लगाते ही वह किस संख्या पर खड़ा हो जाएगा? पिछली कूद लगाने से

- पहले वह किस संख्या पर खड़ा था?
- शिक्षक श्यामपट्ट पर एक क्रम में संख्या लिखते जाएँ।
- इस प्रक्रिया को अन्य बच्चों के साथ दोहराएँ।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट




- शिक्षक बच्चों को चार-चार के समूह में बाँट दें और एक से बीस तक का संख्या कार्ड दें।
- **समझाएँ—** संख्या कार्ड को एक से बीस तक क्रम में रखना है।
- **पूछें:** (कार्ड दिखाते हुए) यह कौन सी संख्या है? इसके बाद तुम कौन की संख्या का कार्ड रखोगे?
- **शिक्षक के लिए बिन्दु:** संख्या कार्ड को बीस से एक तक क्रम में रखने के लिए भी कह सकते हैं।

- अब दो बच्चों को एक साथ आगे बुलाएँ और कोई भी एक कार्ड निकाल कर टेबल पर रख दें।
- **समझाएँ—** एक बच्चे को कार्ड पर लिखी संख्या के पहले वाली संख्या और दूसरे बच्चे को बाद वाली संख्या कार्ड रखने को कहें।
- कुछ और बच्चों के साथ प्रक्रिया को दोहराएँ।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक श्यामपट्ट पर संख्याएँ लिखें। जैसे: 15, 17, 16, 19, 18
- बच्चे को इन संख्याओं को अपने कॉपी में क्रम में लगाने को कहें।
- **पूछें:** किस संख्या को सबसे पहले रखा है?
- **पूछें:** बीच में रखी संख्या का नाम क्या है?
- **पूछें:** अठारह के बाद कौन की संख्या आएगी।
- **पूछें:** सोलह के पहले कौन की संख्या आएगी।

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-07|3 कराएँ-पृष्ठ 57



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-07|3 कराएँ-पृष्ठ 68



अभ्यास गतिविधि 01 ⌚ 40 मिनट

🌀 1-20 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई में समझ सकें।

📦 संसाधन

ठोस आकृतियाँ, अवधारणा बोर्ड (स्थानीय मान)

अवधारणा बोर्ड (स्थानीय मान)			
हजार 1000	शेकड़ा 100	दहाई 10	इकाई 1

- प्रत्येक समूह को अलग-अलग 1-20 तक स्ट्रॉ के सेट दें। प्रत्येक समूह के बच्चों को गिनने को कहें और दस-दस के बण्डल बनाने को कहें।
- प्रत्येक समूह से बातचीत करें बण्डल और शेष बची हुई स्ट्रॉ के बारे में, शेष बची हुई स्ट्रॉ को और बण्डलों को क्या कहेंगे?
- शिक्षक बताएं— बण्डल को दहाई व शेष बची हुई स्ट्रॉ इकाई।
- समूह के बच्चों द्वारा किए गए कार्य के बारे में चर्चा करने हेतु उन्हें आमंत्रित करें।
- हर समूह को स्थानीय मान के अवधारणा बोर्ड की मदद से बच्चों को दहाई के चित्रण में और इकाई के चित्रण में गिनकर अंतर बताने के लिए आमंत्रित करें।

बच्चों के लिए प्रश्न:


- 9, 12, 17, 20, 5
दी गई संख्याओं के बराबर स्ट्रॉ उठा कर दिखा सकते हो?

अभ्यास गतिविधि 02 ⌚ 40 मिनट

🌀 1-20 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई में लिख सकें।

📦 संसाधन

पलैश कार्ड, मोती की माला, स्थानीय मान चार्ट।



- संपूर्ण कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करें।
- प्रत्येक समूह को पलैश कार्ड और मोतियाँ दें।
- 10 मोतियों की माला बनाने को कहें, शेष मोती को अलग रखें और कोई 10-20 तक की संख्या को बोलेंगे।
- बच्चों से पूछें कि 10 मोतियों की माला को क्या कहेंगे और अलग रखे मोती को क्या कहेंगे ?
- समूह से एक-एक बच्चा आएगा और बताएगा, बोले गए अंक में कितनी मोतियों की माला यानी दहाई और कितने अलग मोती यानी इकाई है।
- बच्चों को दहाई की संख्या व इकाई की संख्या को दिए गए स्थानीय मान चार्ट पर लिखने को कहें।
- 10 से 20 तक की संख्या, प्रत्येक समूह को अलग-अलग भी दे सकते हैं।

बच्चों के लिए प्रश्न :


- बच्चों को अपनी कापी में 10-20 की गिनती लिखने को कहें।
किसी भी संख्या में कितनी इकाई और दहाई है, लिख सकते हैं?

अभ्यास गतिविधि 03 ⌚ 40 मिनट

🌀 1-20 तक की संख्याओं को आगे और पीछे के क्रम में गिन और लिख सकें।

📦 संसाधन

पलैश कार्ड और ब्लॉक्स।



- सम्पूर्ण कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करें।
- 1-20 तक कोई भी संख्या बोलें, प्रत्येक समूह संख्या से संबंधित पलैश कार्ड व ब्लॉक्स को निकालेंगे।
- प्रत्येक समूह उस संख्या से पहले की संख्या (छोटी संख्या) का पलैश कार्ड निकालने को और बाई तरफ रखने को कहें।
- अब बच्चों को उस संख्या के बाद की संख्या (बड़ी संख्या) निकालने को कहें और दाई तरफ रखने को कहें।
- उस संख्या के आगे और पीछे की संख्या के बारे में प्रत्येक समूह से चर्चा करें और उनसे पूछें कि कौन-सी संख्या बड़ी है और कौन-सी संख्या छोटी है? फिर उन्हें क्रम से इन तीनों संख्याओं को कॉपी में लिखने को कहें।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- बच्चों को 1-20 तक की संख्या क्रमवार कॉपी में लिखने को कहें।
क्या आप 1 से 20 तक की संख्याओं को उलटे क्रम में लिख सकते हैं?

📦 **संसाधन** : संख्या कार्ड, माचिस तीली, रबर बैंड।

⏪ **आवश्यक पूर्व ज्ञान** : गिनती और संख्या नाम।


🗣️ **नये शब्द** : इकाई, दहाई।

⚠️ **सामान्य भूल** : बच्चे संख्या लिख लेते हैं परन्तु संख्या में लिखे अंकों का मतलब नहीं समझते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट




- शिक्षक एक पेज पर एक समूह में उन्नीस माचिस की तीलियाँ एक साथ और थोड़ी दूर दूसरे समूह में एक तीली रखें।
- ❓ **पूछें**: पहले समूह में कितनी तीलियाँ हैं? दूसरे समूह में कितनी तीलियाँ हैं?
- **समझाएँ**— पेज पर तीलियों के नीचे ($19 + 1 = 20$) लिखते हुए

- बताएं कि उन्नीस में एक मिलाया तो बने बीस।
- इसी प्रकार से दो समूह बनाते हुए। दस के दो बण्डल (बीस) में एक मिलाया तो बना इक्कीस।
- 50 तक की कुछ संख्याओं के साथ प्रक्रिया को दोहराएँ।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट




- शिक्षक बच्चों को 38 माचिस की तीलियाँ दें।
- ❓ **पूछें**: तुम्हारे पास कितनी तीलियाँ हैं? बच्चों को तीलियों से दस के बण्डल बनाने को कहें।
- ❓ **पूछें**: कितने दस के बण्डल बने? कितने खुले बच गए?
- **समझाएँ**— बण्डल को हम दहाई कहते हैं। एक बण्डल में दस तीलियाँ होती हैं। खुले को हम इकाई कहते हैं। अड़तीस में तीन बण्डल यानी तीन

- दहाई और आठ खुल्ले यानी आठ इकाई होती है।
- शिक्षक श्यामपट्ट पर 29 रेखा खंड बनाएं और बच्चे को चित्रों की संख्या गिनकर दस—दस के समूह में घेरा लगाने को कहें।
- ❓ **पूछें**: श्यामपट्ट पर कितने चित्र हैं? दस के कितने समूह बने? कितने खुले रह गए?
- **समझाएँ**—उन्तीस में दस का समूह दो और 9 खुले बने। यानी दो दहाई और नौ खुले मिल कर उन्तीस बनाते हैं।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक कुछ दस के बण्डल और खुले माचिस की तीलियाँ रखें।
- बच्चों को बोलें कि जो संख्या बोला जाए उतनी ही माचिस की तीलियाँ दें।
- ❓ मैंने कौन सी संख्या बोली?
- ❓ तुमने मुझे कितने बण्डल / दहाई दिए?
- ❓ दी गई संख्या में कितनी इकाई है?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका—कार्यपत्रक सप्ताह-08|1 कराएँ—पृष्ठ 62



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका—अभ्यास गतिविधि सप्ताह-08|1 कराएँ—पृष्ठ 72

📦 **संसाधन** : संख्या चार्ट, माचिस तीली, रबर बैंड, गिनमाला।

⏪ **आवश्यक पूर्व ज्ञान** : 1 से 50 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ होना, शून्य की समझ।


🎧 **नये शब्द** : इकाई, दहाई।

⚠️ **सामान्य भूल** : बच्चे संख्या को क्रम में लिख पाते हैं। परन्तु बीच की किसी एक संख्या को अचानक नहीं लिख पाते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट




- शिक्षक कक्षा के फर्श पर उक्त चित्र बनाएँ और बच्चे को पाँच से अधिक कंकड़ देकर चित्र पर उछालने को कहें।
- 🔍 **पूछें**: इकाई के गोले में कितने कंकड़ आए? दहाई के गोले में कितने कंकड़ आए?

- **समझाएँ**— इकाई में चार और दहाई में तीन कंकड़ आए। मतलब तुम्हारे पास तीन दहाई और चार इकाई हैं?
- 🔍 **पूछें**: चार इकाई और तीन दहाई मिलकर कौन सी संख्या बनती है?
- इस प्रक्रिया को कुछ और बच्चों के साथ दोहराएँ।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट



- शिक्षक बच्चों 38 माचिस की तीलियाँ दें और बण्डल बनाने को कहें।
- 🔍 **पूछें**: कितने बण्डल / दहाई बने और कितने खुले बचे?
- कितने बण्डल बने और कितने खुले बचे उसे चार्ट (ऊपर) पर लिखने को कहें।
- **समझाएँ**: दी गई संख्या में 3 बण्डल और 8 खुले होते हैं। बाएँ / पहले बण्डल लिखते हैं फिर खुली तीलियों की संख्या।

- शिक्षक कक्षा में उचित ऊँचाई पर गिनमाला लटका दें।
- बच्चों को कोई भी एक संख्या कार्ड उठाने को कहें। जैसे: 25
- अब संख्या के बराबर मोतियों को बाईं ओर सरकाने के बाद संख्या कार्ड लटकाने को कहें।
- **समझाएँ**: बच्चों को बताएँ कि यहाँ लाल रंग की दस-दस मोतियों के दो समूह यानी दो दहाई को और पाँच सफेद मोती यानी पाँच इकाई है। बीस और पाँच हुए पच्चीस।
- इसी प्रकार एक या दो बार प्रक्रिया को दोहराएँ।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक श्यामपट्ट पर कुछ संख्या लिखें। बच्चों को पूछे गए सवालों के जवाब अपने कॉपी में लिखने को कहें।
- 🔍 **पूछें**: इकतालीस में कितने दहाई और इकाई होंगे?
- 🔍 **पूछें**: चालीस में कितने दहाई और इकाई होंगे?
- 🔍 **पूछें**: तीन दहाई और नौ इकाई मिल कर कौन सी संख्या बनाएँगे?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-08|2 कराएँ-पृष्ठ 63



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-08|2 कराएँ-पृष्ठ 72

📦 **संसाधन** : संख्या कार्ड्स और तीलियाँ।

⏪ **आवश्यक पूर्व ज्ञान** : गिनना। एक से पचास तक की संख्या की मात्रात्मक समझ।


🗣️ **नये शब्द** : बड़ी और छोटी संख्या। गणित चिह्न (<, >, =)

⚠️ **सामान्य भूल** : कोई नहीं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट




- शिक्षक अपने हाथ से इशारा करें कि आप एक मगरमच्छ की भूमिका निभाएँगे।
- **समझाएँ**— एक भूखा मगरमच्छ हमेशा वहीं जाएगा जहाँ अधिक भोजन है।
- शिक्षक श्यामपट्ट पर एक समूह में बारह और दूसरे समूह में अठारह मछली बनाएँ।

- 🔍 **पूछें** : मगरमच्छ किस तरफ मुड़ जाएगा?
- 📖 **शिक्षक के लिए बिन्दु** : एक से पचास तक की ही संख्या का प्रयोग करें।
- प्रक्रिया को और उदाहरण लेकर दोहराएँ।
- जरूरत होने पर बच्चों की मदद करें और एक-एक की संगति करके समझाएँ।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट




- शिक्षक दस के बण्डल, कुछ खुली तीलियाँ और संख्या कार्ड रखें। माचिस की तीलियों के दो समूह बनाएँ।
- 🔍 **पूछें** : किस समूह में ज्यादा तीलियाँ हैं?
- शिक्षक दोनों समूह के तीलियों को बोल कर गिने और उचित संख्या कार्ड रखें।
- 🔍 **पूछें** : कौन सी संख्या बड़ी हुई और कौन सी छोटी?

- 📖 **शिक्षक के लिए निर्देश** : जरूरत पड़ने पर बच्चों को एक-एक की संगति करने दें। बातचीत के अंत में बच्चों को तीनों चिह्नों से परिचय कराएँ।
- अब शिक्षक श्यामपट्ट पर दो समूह में कुछ चित्र बनाएँ।
- बच्चों को दोनों समूह के नीचे संख्या लिखने और उचित चिह्न लगाने को कहें।
- **समझाएँ**—चिह्न लगते हुए यह याद रखो कि मगरमच्छ का मुँह हमेशा ज्यादा वस्तुओं की तरफ जाता है।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक श्यामपट्ट पर दो संख्या लिखें। जैसे 25 और 45।
- पूछे गए सवालों के जवाब बच्चों को कॉपी में लिखने को कहें।
- 🔍 **पैतीस और पैतालीस में कौन-सी संख्या बड़ी है?**
- 🔍 **बत्तीस से छोटी एक संख्या लिखें।**
- 🔍 **अठारह और नौ में कौन-सी संख्या छोटी है?**

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक
सप्ताह-08|3 कराएँ-पृष्ठ 64



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि
सप्ताह-08|3 कराएँ-पृष्ठ 72




अभ्यास गतिविधि 01 ⌚ 40 मिनट

🎯 1-50 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई में समझ सकें।



स्ट्रॉ और रबर बैंड।



- सम्पूर्ण कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करें। प्रत्येक समूह को 50-50 स्ट्रॉ दें 10-10 स्ट्रॉ का बण्डल बनाने को कहें।
- पूछें प्रत्येक स्ट्रॉओं के बण्डल में कितनी स्ट्रॉ हैं? 50 की संख्या में कुल कितने बण्डल बने हैं?
- उनके पूर्वज्ञान को आंकने और यदि यह समझ अभी विकसित नहीं हुई तो उसे स्थापित करने का अच्छा मौका है।
- प्रत्येक समूह को अलग-अलग संख्या बताएं जैसे- 21, 37, 19, 45 आदि।
- अब समूह के बच्चे बताई गई संख्या के अनुसार स्ट्रॉ के बण्डल और स्ट्रॉ को गिनकर निकालेंगे। दहाई और इकाई के स्थान पर रखेंगे।

बच्चों के लिए सवाल:

18, 23, 33, 46


- 🎯 दी गई संख्याओं के बराबर स्ट्रॉ उठाकर लिखा सकते हो?

अभ्यास गतिविधि 02 ⌚ 40 मिनट

🎯 1-50 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई में लिख सकें।



ब्लॉक्स, स्थानीय मान कार्ड।



- सम्पूर्ण कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करें।
- प्रत्येक समूह को स्थानीय मान कार्ड और ब्लॉक्स का सेट दें।
- प्रत्येक समूह को 10-10 ब्लॉक्स के समूह बनाने को कहें और कुछ खुले ब्लॉक्स अपने पास रखें।
- संख्या को श्यामपट्ट पर लिखें और निर्देश दें कि बच्चे ब्लॉक्स से उस संख्या को दर्शायें 10 ब्लॉक्स के समूह और खुले ब्लॉक्स से।
- स्थानीय मान कार्ड से भी संख्या के अनुसार दहाई और इकाई वाले कार्ड्स उठाएँ और उनको मिलाकर लिखी संख्या दिखाएँ।
- बच्चों से बातचीत करें कि दहाई में कितने ब्लॉक्स हैं और इकाई में कितने?
- बच्चों से पूछें कि लिखी गयी संख्या में कितने दहाई और कितने इकाई हैं अपने कार्ड्स से देख कर बताएँ?

बच्चों के लिए प्रश्न:

14, 19, 49, 38


- 🎯 किसी भी संख्या में कितने इकाई और दहाई हैं, लिख सकते हैं?

अभ्यास गतिविधि 03 ⌚ 40 मिनट

🎯 1-50 तक की संख्याओं की तुलना कर सकें।



ब्लॉक्स, संख्या कार्ड।



- कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करें।
- प्रत्येक समूह को ठोस आकृतियों का सेट और संख्या कार्ड दें।
- प्रत्येक समूह को अलग-अलग ब्लॉक्स दें और गिनने को कहें, जैसे- 15, 25, 36 आदि।
- प्रत्येक समूह को दिए गए ब्लॉक्स की संख्या को श्यामपट्ट पर लिखें।
- बच्चों से पूछें कि किस समूह के पास सबसे ज्यादा ब्लॉक्स हैं? बच्चों को एक-दूसरे के समूह में रखे ब्लॉक्स को देखकर जवाब की पुष्टि करने को कहें। किस समूह के बराबर ब्लॉक्स हैं?
- फिर बच्चों से दो संख्या कार्ड दिखाकर पूछें कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी?

बच्चों के लिए प्रश्न:

- 🎯 क्या आप 2 व 7 में जो छोटा है, उतनी ताली बजा सकते हो?
- 🎯 34 और 43 में कौन संख्या बड़ी है?



संसाधन : माचिस तीली। संख्या काडर्स, संख्या चार्ट।



आवश्यक पूर्व ज्ञान : गिनना। एक से 99 तक की संख्या का मात्रात्मक समझ।



नये शब्द : कोई नहीं।



सामान्य भूल : बच्चे आगे की संख्या तो बता देते हैं लेकिन पीछे की संख्या नहीं बता पाते।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



- शिक्षक फर्श पर 10 से 20 तक संख्या रेखा बनाएँ।
- **समझाएँ:** एक बच्चे को संख्या 10 से शुरू करके संख्या रेखा पर आगे कूदते हुए बढ़ने के लिए कहें।
- अन्य बच्चों को वह संख्या बताने को कहें जिस पर वह बच्चा कूद रहा है।
- ❓ **पूछें:** बच्चा अभी किस संख्या पर

खड़ा है? अगली कूद लगाते ही वह किस संख्या पर खड़ा हो जाएगा? पिछली कूद लगाने से पहले वह किस संख्या पर खड़ा था?

- शिक्षक श्यामपट्ट पर एक क्रम में संख्या लिखते जाएँ।
- इस प्रक्रिया को 1 से 50 की संख्या रेखा पर कुछ और बच्चों के साथ दोहराएँ।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट

संख्या चार्ट									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

- शिक्षक 1 से 50 तक की संख्या कार्ड रखें।
- **समझाएँ**— जो संख्या कार्ड दिखाया जाए उसके आगे और पीछे की संख्या कार्ड दिखानी है। इसके लिए संख्या चार्ट की मदद ले सकते हैं।
- ❓ **पूछें:** यह कौन—सी संख्या है? इसके आगे कौन सी संख्या का कार्ड आयेगा?
- कुछ और बच्चों के साथ प्रक्रिया




को आगे बढ़ाएँ।

- अब दो बच्चों को एक साथ आगे बुलाएँ।
- शिक्षक कोई भी एक संख्या कार्ड निकाल कर टेबल पर रख दें।
- **समझाएँ**— एक बच्चे को कार्ड पर लिखी संख्या के पहले वाली संख्या कार्ड और दूसरे बच्चे को बाद वाली संख्या कार्ड रखने को कहें।
- बच्चे को उनके द्वारा रखे गए कार्ड का संख्या नाम भी बताने को कहें।
- कुछ और बच्चों के साथ प्रक्रिया को दोहराएँ।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक बच्चे को कोई भी तीन लगातर संख्या कार्ड दें। जैसे— 26, 27 और 28 बच्चे को इन काडर्स को क्रम में लगाने को कहें।
- ❓ तुमने इस कार्ड को सबसे पहले क्यों रखा है?
- ❓ बीच में रखी संख्या कार्ड का संख्या नाम क्या है?
- ❓ 27 के पहले कौन की संख्या आएगी।
- ❓ 27 के बाद कौन की संख्या आएगी।

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका—कार्यपत्रक सप्ताह-09|1 कराएँ—पृष्ठ 69



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका—अभ्यास गतिविधि सप्ताह-09|1 कराएँ—पृष्ठ 76

📦 **संसाधन** : संख्या कार्ड, माचिस तीली, रबर बैंड।


⬅️ **आवश्यक पूर्व ज्ञान** : गिनती और संख्या नाम।

🎯 **नये शब्द** : इकाई, दहाई।

❗ **सामान्य भूल** : बच्चे संख्या लिख लेते हैं परन्तु संख्या में लिखे अंकों का मतलब नहीं समझते हैं।

1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट




- शिक्षक एक पेज पर एक समूह में उन्चास माचिस की तीलियाँ एक साथ और थोड़ी दूर दूसरे समूह में एक तीली रखें।
- ❓ **पूछें**: पहले समूह में कितनी तीलियाँ हैं? दूसरे समूह में कितनी तीलियाँ हैं?
- **समझाएँ**— पेज पर तीलियों के नीचे $(49+1=50)$ लिखते हुए

- बताएं कि उन्चास में एक मिलाया तो बने पचास।
- इसी प्रकार से दोसमूह बनाते हुए। दस के पाँच बण्डल (पचास) में एक मिलाया तो बना इक्यावन।
- 👉 **शिक्षक के लिए निर्देश**: इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए 50 से 99 तक की कुछ संख्याओं के साथ प्रक्रिया को दोहराएँ।

2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट




- शिक्षक बच्चों को 74 माचिस की तीलियाँ दें।
- ❓ **पूछें**: तुम्हारे पास कितनी तीलियाँ हैं? बच्चों को तीलियाँ गिनकर बण्डल बनाने को कहें।
- ❓ **पूछें**: कितने दस के बण्डल बने? कितने खुले बच गए?
- **समझाएँ**— बण्डल को हम दहाई कहते हैं। एक बण्डल में दस तीलियाँ होती हैं। खुले को हम इकाई कहते हैं। चौहत्तर में सात बण्डल यानी सात

- दहाई और चार खुले यानी चार इकाई होती है। अब शिक्षक श्यामपट्ट पर 69 रेखा खंड बनाएँ।
- बच्चे को चित्रों की संख्या गिनकर दस-दस के समूह में गोला लगाने को कहें।
- ❓ **पूछें**: श्यामपट्ट पर कितने चित्र हैं? दस के कितने समूह बने? कितने खुले चित्र रह गए?
- **समझाएँ**—उनहत्तर में दस का समूह/बण्डल छह बन पाएगा और नौ खुले बच गए। यानी छह दहाई और नौ खुले मिल कर उनहत्तर बनाते हैं।

3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक कुछ दस के बण्डल और खुले माचिस की तीलियाँ रखें।
- बच्चों को बोलें जो संख्या बोला जाए उतनी ही माचिस की तीली रखनी है।
- ❓ मैंने कौन-सी संख्या बोली?
- ❓ तुमने मुझे कितने बण्डल/दहाई दिए?
- ❓ दी गई संख्या में कितने इकाई हैं?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-09|2 कराएँ-पृष्ठ 70



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ



कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-09|2 कराएँ-पृष्ठ 76

📦 **संसाधन** : संख्या चार्ट, माचिस तीली, रबर बैंड।

⏪ **आवश्यक पूर्व ज्ञान** : 1 से 99 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ होना, शून्य की समझ।


🎯 **नये शब्द** : इकाई, दहाई।

⚠️ **सामान्य भूल** : बच्चे संख्या को क्रम में लिख पाते हैं। परन्तु बीच की किसी एक संख्या को अचानक नहीं लिख पाते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट




- शिक्षक कक्षा के फर्श पर उक्त चित्र बनाएँ और बच्चे को नौ कंकड़ देकर चित्र पर उछालने को कहें।
- ❓ **पूछें**: इकाई के गोले में कितने कंकड़ आए? दहाई के गोले में कितने कंकड़ आए?

- **समझाएँ**— इकाई में चार और दहाई में तीन कंकड़ आए। मतलब तुम्हारे पास तीन दहाई और चार इकाई हैं?
- ❓ **पूछें**: चार इकाई और तीन दहाई मिलकर कौन-सी संख्या बनती है?
- इस प्रक्रिया को कुछ और बच्चों के साथ दोहराएँ।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट



- शिक्षक बच्चों 52 माचिस की तीलियाँ दें और बण्डल बनाने को कहें।
- ❓ **पूछें**: कितने बण्डल / दहाई बने और कितने खुले बचे?
- कितने बण्डल बने और कितने खुले बचे उसे चार्ट (ऊपर) पर लिखने को कहें।
- **समझाएँ**: दी गई संख्या में 5 बण्डल और 2 खुले होते हैं। बाएँ / पहले बण्डल लिखते हैं फिर खुली तीलियों की संख्या।

- शिक्षक कक्षा में उचित ऊँचाई पर गिनमाला लटका दें।
- बच्चों को कोई भी एक संख्या कार्ड उठाने को कहें। जैसे: 85
- अब संख्या के बराबर मोतियों को बाईं ओर सरकाने के बाद संख्या कार्ड लटकाने को कहें।
- **समझाएँ**: बच्चों को बताएं कि यहाँ लाल रंग की दस-दस मोतियों के आठ समूह यानी आठ दहाई को और पांच सफेद मोती यानी पांच इकाई है। आठ और पांच हुए पचासी।
- इसी प्रकार एक या दो बार इस प्रक्रिया को दोहराएँ।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक श्यामपट्ट पर कुछ संख्या लिखें।
- बच्चों को पूछे गए सवालों के जवाब अपने कॉपी में लिखने को कहें।
- ❓ **पूछें**: इकसठ में कितने दहाई और इकाई होंगे?
- ❓ सत्तर में कितने दहाई और इकाई होंगे?
- ❓ आठ दहाई और नौ इकाई मिल कर कौन की संख्या बनाएँगे?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-09|3 कराएँ-पृष्ठ 71



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-09|3 कराएँ-पृष्ठ 76



अभ्यास गतिविधि 01 ⌚ 40 मिनट

🌀 1-50 तक की संख्याओं को आगे और पीछे के क्रम में गिन और लिख सकें।



संसाधन

संख्या चार्ट।

संख्या चार्ट									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

- सम्पूर्ण कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करें।
- फर्श पर 1 से 50 तक की गिनती लिखें।
- समूह के एक बच्चे को खड़ा करें और दूसरा बच्चा गिनती बोलेगा (1, 2, 3, 50)।
- पहला बच्चा बोली गई संख्या 1 पर कूदेगा, 2 बोलने पर 2 पर कूदेगा, इस प्रकार वह 50 तक कूदेगा।
- तीसरा और चौथा बच्चा बोली गई संख्या को अपनी कॉपी में लिखेगा।
- ठीक यही प्रक्रिया उल्टी तरफ 50 से 1 तक दोहराएँ।
- फिर कोई भी संख्या को बोलें और पूछें कि इस संख्या के आगे या पीछे कौन-सी संख्या आएगी?
- संख्या के आगे और पीछे की संख्या को लिखने के लिए भी कहें।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- 🔍 क्या आप 34 से 49 तक की संख्याओं को उलटे क्रम में लिख सकते हो?


अभ्यास गतिविधि 02 ⌚ 40 मिनट

🌀 1-99 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई में समझ सकें।



संसाधन

तीली और बंडल।



- दस तीलियों के बण्डल और खुली तीलियाँ।
- सम्पूर्ण कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करें।
- प्रत्येक समूह को दस तीलियों के 9 बण्डल व 9 तीलियाँ दें।
- कोई भी एक संख्या बोलें और बोली गई संख्या के अनुसार बच्चों को बण्डल और तीलियाँ उठाने को बोलें।
- बच्चे बताएँगे कि उन्होंने कुल कितनी तीलियाँ उठाई हैं। बण्डल और तीलियों को बच्चे इकाई और दहाई के स्थान पर रखेंगे।
- बच्चों से पूछें इकाई के स्थान पर कितनी तीलियाँ हैं और दहाई के स्थान पर कितनी तीलियाँ हैं?
- यह प्रक्रिया अलग-अलग संख्याओं के साथ दोहराएँ।
- पूछें कि आपने दहाई के लिए बण्डल और इकाई के लिए खुली तीलियों को क्यों चुना?

बच्चों के लिए प्रश्न:

- 🔍 89 में कितनी इकाई और कितनी दहाई है?
- 🔍 60 में कितनी इकाई और कितनी दहाई है?


अभ्यास गतिविधि 03 ⌚ 40 मिनट

🌀 1-99 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई में लिख सकें।



संसाधन

स्थानीय मान कार्ड, संख्या कार्ड।



- सम्पूर्ण कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करें।
- प्रत्येक समूह को स्थानीय मान कार्ड और संख्या कार्ड दें।
- कोई दो अंकों की संख्या श्यामपट्ट पर लिखें।
- बच्चों को संख्या कार्ड और स्थानीय मान कार्ड के उपयोग से उसे दर्शाएँ।
- बच्चों से पूछें कि दायीं ओर कौन-सी संख्या है और बायीं ओर कौन सी?
- स्थानीय मान कार्ड में दायीं ओर की संख्या और बायीं ओर की संख्या को मेल करने को कहें। संख्या कार्ड की बायीं ओर लिखी संख्या का मान स्थानीय कार्ड के बायीं संख्या से पता चलेगा जिसे दहाई कहते हैं और दायीं ओर का दायीं वाली संख्या से जिसे इकाई कहते हैं।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- 🔍 73 से 99 तक की सभी संख्याओं को इकाई और दहाई में लिख सकते हो?



1-99 तक की संख्याओं की तुलना कर सकें।



संसाधन : संख्या कार्ड्स और तीलियां।



आवश्यक पूर्व ज्ञान : गिनना। एक से निन्यानवे तक की संख्या की मात्रात्मक समझ।



नये शब्द : बड़ी और छोटी संख्या। गणित चिह्न ($<$, $>$, $=$)




सामान्य भूल : कोई नहीं।



1. परिचय (मैं करूँ)

10 मिनट




- शिक्षक अपने हाथ से इशारा करें कि आप एक मगरमच्छ की भूमिका निभाएंगे।
- **समझाएँ**— एक भूखा मगरमच्छ हमेशा वहीं जाएगा जहाँ अधिक भोजन है।
- शिक्षक श्यामपट्ट पर दो समूह में मछली बनाएँ।

- **पूछें** : मगरमच्छ किस तरफ मुड़ जाएगा?
- **शिक्षक के लिए बिन्दु** : पचास से निन्यानवे तक की ही संख्या का प्रयोग करें।
- प्रक्रिया को और उदाहरण लेकर दोहराएँ।
- जरूरत होने पर बच्चों की मदद करें और एक-एक की संगति करके समझाएँ।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

20 मिनट



6 3

8 5


- शिक्षक दस के बण्डल, कुछ खुली तीलियाँ और संख्या कार्ड रखें।
- माचिस की तीलियों के दो समूह बनाएं।
- **पूछें** : किस समूह में ज्यादा तीलियाँ हैं?
- शिक्षक दोनों समूह की तीलियों को बोल कर गिनें और उचित संख्या कार्ड रखें।
- **पूछें** : कौन सी संख्या बड़ी हुई और कौन सी छोटी?

- **शिक्षक के लिए निर्देश** : जरूरत पड़ने पर बच्चों को एक-एक की संगति करने दें। बातचीत के अंत में बच्चों को तीनों चिह्नों से परिचय कराएँ।
- अब शिक्षक श्यामपट्ट पर दो समूह में कुछ चित्र बनाएं।
- बच्चों को दोनों समूह के नीचे संख्या लिखने और उचित चिह्न लगाने को कहें।
- **समझाएँ**—चिह्न लगाते हुए यह याद रखो कि मगरमच्छ का मुँह हमेशा ज्यादा वस्तुओं की तरफ जाती है।



3. अभ्यास (तुम करो)

10 मिनट



- शिक्षक श्यामपट्ट पर दो संख्या लिखें। जैसे 75 और 55।
- पूछे गए सवालों के जवाब बच्चों को कॉपी में लिखने को कहें।
- **पूछें** : पचहत्तर और पचपन में कौन सी संख्या बड़ी है?
- साठ से छोटी एक संख्या लिखें।
- **पूछें** : बयासी से छोटी संख्या लिखें।

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका—कार्यपत्रक सप्ताह-10|1 कराएँ—पृष्ठ 76



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका—अभ्यास गतिविधि सप्ताह-10|1 कराएँ—पृष्ठ 80



संसाधन : माचिस तीली। संख्या कार्ड्स, संख्या चार्ट।



आवश्यक पूर्व ज्ञान : गिनना। एक से 99 तक की संख्या का मात्रात्मक समझ।



नये शब्द : कोई नहीं।




सामान्य भूल : बच्चे आगे की संख्या तो बता देते हैं लेकिन पीछे की संख्या नहीं बता पाते।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक फर्श पर चित्र के अनुसार संख्या लिखें। (पचास से सत्तर)
 - **समझाएँ**—एक बच्चे को संख्या 50 से शुरू करके संख्या पर आगे कूदते हुए बढ़ने के लिए कहें।
 - अन्य बच्चों को वह संख्या बताने को कहें जिस पर वह बच्चा कूद रहा है।
- ❓ **पूछें:** बच्चा अभी किस संख्या पर

खड़ा है? अगली कूद लगाते ही वह किस संख्या पर खड़ा हो जाएगा? पिछली कूद लगाने से पहले वह किस संख्या पर खड़ा था?

- शिक्षक श्यामपट्ट पर एक क्रम में संख्या लिखते जाएँ।
- इस प्रक्रिया को सत्तर से नब्बे की संख्या रेखा पर कुछ और बच्चों के साथ दोहराएँ।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट

संख्या चार्ट									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

- शिक्षक एक से निन्यानबे तक की संख्या कार्ड रखें।
- **समझाएँ**— जो संख्या कार्ड दिखाया जाए उसके आगे और पीछे की संख्या कार्ड दिखानी है। इसके लिए संख्या चार्ट की मदद ले सकते हैं।
- ❓ **पूछें:** यह कौन सी संख्या है? इसके आगे कौन सी संख्या का कार्ड आयेगा?
- कुछ और बच्चों के साथ प्रक्रिया

को आगे बढ़ाएँ।

- अब दो बच्चों को एक साथ आगे बुलाएँ। शिक्षक कोई भी एक संख्या कार्ड निकाल कर टेबल पर रख दें।
- **समझाएँ**— एक बच्चे को कार्ड पर लिखी संख्या के पहले वाले संख्या कार्ड और दूसरे बच्चे को बाद वाले संख्या कार्ड रखने को कहें।
- बच्चे को उनके द्वारा रखे गए कार्ड का संख्या नाम भी बताने को कहें।
- कुछ और बच्चों के साथ प्रक्रिया को दोहराएँ।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट

7 6

7 7

7 8

- शिक्षक बच्चे को कोई भी तीन लगातर संख्या कार्ड दें। जैसे : 76, 77 और 78 बच्चे को इन कार्ड्स को क्रम में लगाने को कहें।
- ❓ तुमने इस कार्ड को सबसे पहले क्यों रखा है?
- ❓ बीच में रखी संख्या कार्ड का संख्या नाम क्या है?
- ❓ सततर के पहले कौन की संख्या आएगी।
- ❓ अटतरके बाद कौन की संख्या आएगी।

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका—कार्यपत्रक सप्ताह—10|2 कराएँ—पृष्ठ 77



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ



कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका—अभ्यास गतिविधि सप्ताह—10|2 कराएँ—पृष्ठ 80



संसाधन : संख्या कार्ड।

« आवश्यक पूर्व ज्ञान : बच्चे स्वभाविक रूप से आसान पैटर्न में छुपे नियम को समझ लेते हैं। बच्चे संख्या और उसके क्रम से परिचित हैं।


नये शब्द : पैटर्न।

! सामान्य भूल : बच्चे संख्याओं को क्रम में तो बोल लेते हैं, लेकिन किसी संख्या के स्थिर अंतराल में क्रम को बोल नहीं पाते।



1. परिचय (मैं करूँ)

10 मिनट



- शिक्षक फर्श पर चित्र के अनुसार संख्या लिखें। (एक से बीस)
- **समझाएँ** –आप लोगों को इस संख्या पर कूदना है। पहले आपको एक-एक संख्या छोड़कर कूदना है। जैसे : अगर आप पहले संख्या 1 पर खड़े हैं तो आप संख्या 3 पर कूदेंगे।

- एक बच्चे को बुला कर उसे दो-दो के अंतराल में कूदने को कहें।
- ? **पूछें** : एक बार कूदने के बाद कौन-सी संख्या पर खड़े हो?
- इस गतिविधि को अलग-अलग संख्या जैसे 3, 4 और 5 के अंतराल में दोहराएँ।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

20 मिनट

संख्या कार्ड									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100


- शिक्षक 10 से 30 तक के संख्या कार्ड प्रत्येक बच्चों में एक-एक बाँट दें।
- मैं जो संख्या बोलूँगा, उस संख्या के बच्चे को सामने आकर खड़े होना है। इसके बाद दो-दो के अंतराल में जो संख्या आएगी उन सबको एक के बाद एक खड़े होना है। जैसे- अगर मैंने बोला ग्यारह, तो जिसके पास संख्या कार्ड 11 है, वह बच्चा आगे आएगा। फिर

- उसके आगे 13, 15, 17 वाले बच्चे आएंगे।
- एक संख्या बोलकर गतिविधि शुरू करें।
- ? **पूछें** : इसके बाद कौन-सी संख्या आएगी?
- इस गतिविधि को अलग-अलग संख्या के अंतराल में दोहराएँ।
- गतिविधि कराते हुए क्रम में आने वाली संख्याओं को शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखें।
- **शिक्षक के लिए बिंदु** : ध्यान रखें कि 2, 3, 4, 5 और 10 इन सभी संख्याओं के अंतराल में पैटर्न बनाए जाएँ।



3. अभ्यास (तुम करो)

10 मिनट



- शिक्षक श्यामपट्ट पर यह पैटर्न बनाएँ।
50, 53, 56,,,,
- बच्चों को यह पैटर्न अपने कॉपी में बनाकर खाली स्थान सही संख्या से भरने को कहें।
- ? पहले स्थान पर कौन-सी संख्या आएगी?
- ? दूसरे स्थान पर कौन-सी संख्या आएगी?
- ? क्या इस पैटर्न में 58 आएगा?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक
सप्ताह-10|3 कराएँ-पृष्ठ 78



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ



कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि
सप्ताह-10|3 कराएँ-पृष्ठ 80




अभ्यास गतिविधि 01 ⌚ 40 मिनट

🎯 1-99 तक की संख्याओं की तुलना कर सकें।



संसाधन
मोती, फ्लैश कार्ड।



- सम्पूर्ण कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करें।
- प्रत्येक समूह को ठोस आकृतियों (मोती) और फ्लैश कार्ड दें। दो संख्या प्रत्येक समूह को बताएँ।
- समूह के बच्चे उस संख्या के अनुसार मोतियों का समूह बनाएँगे।
- साथ ही साथ फ्लैश कार्ड लें, उस संख्या का कार्ड भी निकालेंगे।
- प्रत्येक समूह के पास जाएँ और अवलोकन करें तथा पूछें कि कौन सा मोतियों का समूह ज्यादा है, कौन सा कम?
- यह भी पूछें कि मोतियों का समूह कम या ज्यादा क्यों है? इस प्रक्रिया को बार-बार दोहराएँ और नई संख्या दें।

बच्चों के लिए प्रश्न:


- ① 89 और 98 में कौन बड़ा है?
- ② 57 और 75 में कौन छोटा है?

अभ्यास गतिविधि 02 ⌚ 40 मिनट

🎯 1-99 तक की संख्याओं को आगे और पीछे के क्रम में गिन और लिख सकें।



संसाधन
फ्लैश कार्ड, आगे पीछे की अवधारणा का चार्ट।



- सम्पूर्ण कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करें।
- प्रत्येक समूह को फ्लैश कार्ड (1 से 99 तक) दें।
- आगे-पीछे के चार्ट की सहायता से क्रम की अवधारणा पर काम करें और उसमें दिए सवाल पूछें—जानवरों की दौड़ में सबसे पीछे कौन है? ऑटो के आगे की गाड़ी का रंग बताओ?
- एक बच्चा समूह से एक फ्लैश कार्ड लेकर आएगा और उसे बड़े टेबल पर या जमीन पर रख देगा।
- समूह के बच्चे फ्लैश कार्ड को रखेंगे और बोलेंगे भी, एक-एक करके समूह के सारे बच्चे संख्या को क्रम से लगाएँ।
- साथ ही साथ उस बोली गई संख्या को प्रत्येक समूह अपनी कॉपी में लिखेगा।
- इसी तरह संख्या की एक लम्बी कतार बन जाएगी।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- ① 70 से पहले कौन-सी संख्या आती है?
- ② 59 के बाद कौन-सी संख्या आती है?

अभ्यास गतिविधि 03 ⌚ 40 मिनट

🎯 स्थिर अंतराल में (2, 3, 4, 5, 10) गिनती बोल और लिख सकें।



संसाधन
फ्लैश कार्ड।



- कक्षा के बच्चों को एक घेरे में बैठा दें और उनको एक-एक करके गिनती करने को बोलें, जब तक पूरे घेरे के बच्चों की बारी न आ जाये, गिनती करते हुए उनसे संख्या कार्ड भी दिखाने को कहें।
- फिर इस नियम में 2 के अंतराल पर संख्या के साथ ताली बजाने तो बोलें।
- ऐसा फिर 3 और 5 के साथ भी करें।
- बच्चों को 5-5 के समूह में बाँटें और इस खेल को अन्य संख्याओं के साथ दोहराएँ।
- 10-10 के अंतराल के खेल को बार-बार दोहरायें।
- बच्चों को उनके द्वारा किए गए कार्य को अपने शब्दों में बताने के लिए पर्याप्त समय दें।
- शिक्षक बच्चों को अभिव्यक्ति करने में मदद करें।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- ① क्या आप 24 से शुरू करके 2 के अंतराल में गिनती बोल सकते हैं?
- ② क्या आप 12 से शुरू करके 5 के अंतराल में गिनती बोल सकते हैं?



सावधिक आकलन



10 सावधिक आकलन पत्रक
{कार्यपुस्तिका}



पिछले 10 सप्ताह की रेमीडीयल गतिविधि
{शिक्षक संदर्शिका}

कालांश	1	2	3	1	2	3	1	2	3
सावधिक आकलन सप्ताह सप्ताह 11	10			10			रिक्त कालांश		
	सावधिक आकलन कार्यपत्रक			रेमीडीयल गतिविधि					



सावधिक ट्रैकर:



संसाधन : संख्या चार्ट, माचिस तीली, रबर बैंड।



आवश्यक पूर्व ज्ञान : 1 से 99 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ होना।



नये शब्द : कोई नहीं।



सामान्य मूल : कोई नहीं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट

संख्या चार्ट									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

- शिक्षक संख्या चार्ट में कोई भी तीन संख्या को दर्शाएँ। जैसे 45, 46 और 47।
- **समझाएँ :** संख्या चार्ट देख कर यह पता लगाया जा सकता है कि तीनों संख्याएँ किस क्रम में आती हैं। पहले 45 फिर 46 उसके बाद 47 आता है।
- अब शिक्षक किसी तीन संख्याएँ

- 33, 32 और 34 लिखें और बच्चों को इन्हें क्रम में लगाने को कहें।
- **पूछें :** कौन-सी संख्या पहले आयेगी? कौन सी संख्या अंत में आएगी?
- गतिविधि को चार और पाँच संख्याओं के साथ दोहराएँ।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट

6 7

7 0

- शिक्षक संख्या चार्ट में कोई भी दो संख्या को दर्शाएँ। जैसे 67 और 70।
- **समझाएँ :** दोनों संख्याओं में दहाई अंक को देख कर बता सकते हैं कि कौन-सी संख्या बड़ी है। 67 में 6 दहाई है लेकिन 70 में 7 दहाई है। इसलिए 70 संख्या बड़ी है। संख्या चार्ट से भी यह पता चलता है। 70 संख्या चार्ट में 67 के बाद आती है। इसलिए 70 बड़ी और 67 छोटी है।

- श्यामपट्ट पर कोई भी दो संख्या लिखें। जैसे: 56 और 64।
- **पूछें:** कौन-सी संख्या बड़ी है? उचित चिह्न भी लगाओ। तुम्हें कैसे पता लगाया कि 64 बड़ी संख्या है?
- कुछ और बच्चों को आगे बुला कर प्रक्रिया को दोहराएँ।
- **शिक्षक के लिए निर्देश :** जरूरत होने पर बच्चों को माचिस तीली का इस्तेमाल कर समझाएँ। बच्चों को संख्या चार्ट दिखा कर बताएँ कि जो संख्या पहले आएगी वह छोटी होगी।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट

60	70	80
61		
		82
	73	
64		
		85
	76	
67		87
	78	
69		89

- शिक्षक श्यामपट्ट पर उक्त चित्र बनाएँ।
- बच्चों को खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखने को कहें।
- प्रक्रिया को दोहराते रहें जब तक संख्या चार्ट पूरा ना हो जाए।
- **?** 76 और 67 में कौन सी संख्या छोटी है?
- **?** पैसठ से बड़ी एक संख्या बताओ।
- **?** श्यामपट्ट पर अरस्सी से नब्बे तक संख्या लिखो।

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-12|1 कराएँ-पृष्ठ 95



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ



कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-12|1 कराएँ-पृष्ठ 86



🕒 10-50 तक की संख्याओं को विस्तारित रूप में लिख सकें।

📦 **संसाधन** : आइस्क्रीम स्टिक, रबर बैंड।

⏪ **आवश्यक पूर्व ज्ञान** : गिनती, 1 से 99 तक के संख्या नाम।


🗣️ **नये शब्द** : विस्तारित रूप।

⚠️ **सामान्य भूल** : बच्चे संख्या नाम तो जानते हैं लेकिन संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने में गलती करते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट



● शिक्षक बच्चों को 20 आइस्क्रीम स्टिक और रबर बैंड दें। अब उन्हें आइस्क्रीम स्टिक से 10-10 के बण्डल बनाने को कहें।

❓ **पूछें**: आपके पास कुल कितनी आइस्क्रीम स्टिक थीं? कितने बण्डल बने? कितने खुले बचे?

● **समझाएँ** : बीस आइस्क्रीम स्टिक से

2 बण्डल बने। इसका मतलब 2 बण्डल बराबर 20 आइस्क्रीम स्टिक है।

● गतिविधि को और कुछ उदाहरणों के साथ दोहराएँ।

👩 **शिक्षक के लिए बिंदु** : शुरु में बच्चों को 10 के गुणज में आइस्क्रीम स्टिक दें।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट

$$45 = 4 \text{ बण्डल} + 5 \text{ खुले}$$

$$45 = 40 + 5$$

● शिक्षक बच्चों को चार-चार के समूह में बाँट दें। प्रत्येक समूह को 45 आइस्क्रीम स्टिक और रबर बैंड दें।

● बच्चों को आइस्क्रीम स्टिक से 10-10 के बण्डल बनाने को कहें।

❓ **पूछें**: कितने बण्डल बने? कितने खुले बचे?

● **समझाएँ**: 45 आइस्क्रीम स्टिक से 10-10 के 4 बण्डल बने और 5 खुले बचे।

● शिक्षक श्यामपट्ट पर 45 को 4 दहाई

और 5 इकाई के रूप में लिखें।

● **समझाएँ**: 4 बण्डल बराबर 40 और 5 खुले बराबर 5 आइस्क्रीम स्टिक। इसका मतलब 40 और 5 मिलाकर 45 बनते हैं। हम बोल सकते हैं 45 का विस्तारित रूप हैं $40 + 5$ ।

● गतिविधि को और कुछ उदाहरणों के साथ दोहराएँ।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट

$$17 = \underline{\quad} + \underline{\quad}$$

$$42 = \underline{\quad} + \underline{\quad}$$

$$\underline{\quad} = 20 + 4$$

● श्यामपट्ट पर यह तीन सवाल दें।
❓ पहले सवाल का उत्तर क्या है?
❓ बयालीस का विस्तारित रूप क्या है?
❓ $20 + 4$ किसका विस्तारित रूप है?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-12|2 कराएँ-पृष्ठ 96



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-12|2 कराएँ-पृष्ठ 86



संसाधन : स्ट्रॉ, रबर बैंड।



आवश्यक पूर्व ज्ञान : गिनती, 1 से 99 तक के संख्या नाम।



नये शब्द : विस्तारित रूप।




सामान्य भूल : बच्चे संख्या नाम तो जानते हैं लेकिन संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने में गलती करते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

10 मिनट



- शिक्षक बच्चों को 60 स्ट्रॉ और रबर बैंड दें। अब उन्हें स्ट्रॉ से 10-10 के बण्डल बनाने को कहें।
- **पूछें** : आपके पास कुल कितने स्ट्रॉ थे? कितने बण्डल बने? कितने खुले बचे?
- **समझाएं** : सत्तर स्ट्रॉ से 7 बण्डल बने। इसका मतलब 7 बण्डल बराबर

- 70 स्ट्रॉ हैं।
- गतिविधि को और कुछ उदाहरणों के साथ दोहराएँ।
- **शिक्षक के लिए बिंदु** : शुरू में बच्चों को 10 के गुणज में स्ट्रॉ दें जिससे बण्डल बनाने के बाद खुले न बचे।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

20 मिनट

$$83 = 8 \text{ बंडल} + 3 \text{ खुले}$$

$$83 = 80 + 3$$

- शिक्षक बच्चों को चार-चार के समूह में बाँट दें। प्रत्येक समूह को 83 स्ट्रॉ और रबर बैंड दें।
- बच्चों को स्ट्रॉ से 10-10 के बण्डल बनाने को कहें।
- **पूछें** : कितने बण्डल बने? कितने खुले बचे?
- **समझाएं** : 83 स्ट्रॉ से 10-10 के 8 बण्डल बने और 3 खुले बचे।
- शिक्षक श्यामपट्ट पर 83 को 8 दहाई और 3 इकाई के रूप में लिखें।

- **समझाएं** : 8 बण्डल बराबर 80 और 3 खुले बराबर 3 स्ट्रॉ। इसका मतलब 80 और 3 मिलाकर 83 बनते हैं। हम बोल सकते हैं कि 83 का विस्तारित रूप है $80 + 3$ ।
- गतिविधि को और कुछ उदाहरणों के साथ दोहराएँ।



3. अभ्यास (तुम करो)

10 मिनट

$$96 = \underline{\quad} + \underline{\quad}$$

$$55 = \underline{\quad} + \underline{\quad}$$

$$\underline{\quad} = 70 + 3$$

- श्यामपट्ट पर यह तीन सवाल दें।
- **पूछें** : 96 को विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे?
- दूसरे सवाल के खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी?
- **पूछें** : $70 + 3$ किसका विस्तारित रूप है?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-12|3 कराएँ-पृष्ठ 97



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-12|3 कराएँ-पृष्ठ 86



अभ्यास गतिविधि 01 ⌚ 40 मिनट

🌀 1-99 तक की संख्याओं को क्रम में लिख और छोटी-बड़ी संख्या बता सकें।



संसाधन
संख्या चार्ट, फ्लैश कार्ड।

संख्या चार्ट									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

- संख्या चार्ट को दिखा कर किसी भी एक संख्या पर आँख बंद करके अँगुली रख दें और बच्चों को वहाँ से आगे की 10 तक के क्रम की संख्या मिलकर पढ़ने को बोलें।
- कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करें।
- सभी बच्चों को फ्लैश कार्ड दें।
- शिक्षक एक गीत गाएगा और बच्चे दोहराएँगे।
- 'कदमताल-कदमताल, आओ चलें गिनती की चाल' बोलो बच्चों 1 (एक)।
- प्रथम समूह के पहला बच्चा 1 संख्या फ्लैश कार्ड दिखाएगा, उसके बाद दूसरा बच्चा 2 संख्या का फ्लैश कार्ड दिखाएगा।
- इसी प्रकार यह गतिविधि सभी ग्रुप के बच्चों द्वारा की जाएगी और 99 संख्या तक गिनती जाएँगे।

बच्चों के लिए प्रश्न-


- ① क्या आप 52 से 70 तक संख्याओं को सीधे क्रम में लिख सकते हैं?
- ② क्या आप 42 से 65 तक संख्याओं को उलटे क्रम में लिख सकते हैं?

अभ्यास गतिविधि 02 ⌚ 40 मिनट

🌀 10-50 तक की संख्याओं को विस्तारित रूप में लिख सकें।



संसाधन
स्थानीय मान कार्ड।



- बच्चों को स्थानीय मान कार्ड दें।
- बच्चों से कहें- मैं एक संख्या बोलूँगा। आपको वह संख्या कार्ड से बनाकर दिखाना है उदाहरण के लिए, 38 को 30 और 8 को कार्ड से दिखाया जा सकता है।
- अब आप एक से पचास के बीच की कोई एक संख्या बोलें। सभी बच्चे संख्या को ध्यान से सुनकर, उस संख्या को स्थानीय मान कार्ड से दिखायेंगे।
- उसके बाद किसी एक बच्चे को आगे बुलाकर बोर्ड पर वह संख्या और उसका विस्तृत रूप लिखने के लिए कहें।
- अन्य बच्चे बतायें कि उसने ठीक लिखा है या नहीं।
- बच्चों के साथ चर्चा करें कि इस संख्या में कितनी दहाई है और कितनी इकाई।
- इस प्रकार गतिविधि को आगे बढ़ाएं।

बच्चों के लिए प्रश्न:


- ① रिक्त स्थान पर कौन-सी संख्या आएगी?
34 = _____ + 4

अभ्यास गतिविधि 03 ⌚ 40 मिनट

🌀 51-100 तक की संख्याओं को विस्तारित रूप में लिख सकें।



संसाधन
कागज के बने कुछ दस के नोट एवं कुछ एक के सिक्के।



- शिक्षक मेज पर कुछ दस के नोट एवं कुछ खुले सिक्के (एक के सिक्के) रख दें।
- अब आप 51 से 100 के बीच कोई एक संख्या बोलें (उदाहरण- 65)।
- बच्चा बताई हुई संख्या (उदाहरण 65) के अनुसार नोट उठाए।
- शिक्षक बच्चों से पूछें कि इस संख्या को बनाने में कितने 10 के नोट लगे और कितने खुले नोट लगे।
- बच्चों को बताएँ कि दस के नोट को दहाई और खुले को इकाई कहते हैं। 1 दहाई, 10 इकाई से मिलकर बना है। उदाहरण के लिए, 65 में अंक 6, दस का नोट/दहाई (मतलब 60) को दर्शाता है। और 5 खुला नोट, इकाई को दर्शाता है।
- कोशिश करें, 51 से 100 तक सभी संख्या पर वार्तालाप हो।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- ② 73 में कितने 10 के नोट और कितने एक रुपये के सिक्के होंगे?



🔗 एक अंक की संख्याओं को जोड़ सकें।

📦 **संसाधन** : कंकड़, संख्या कार्ड (1 से 9 तक)।

⏪ **आवश्यक पूर्व ज्ञान** : 1 से 20 तक कि संख्याओं की मात्रात्मक समझ।


🗣️ **नये शब्द** : मिलाकर बताओ, जोड़ना।

⚠️ **सामान्य भूल** : बच्चे एक अंक के जोड़ की संक्रिया तो कर लेते हैं लेकिन किसी सन्दर्भ में जोड़ का प्रयोग नहीं कर पाते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक बच्चों को दो समूह में विभाजित करके प्रत्येक समूह को 9 कंकड़ दें। बीच में चॉक से एक गोला बना दें।
- **समझाएँ** : दाएँ हाथ से मैं जितनी अँगुलियाँ दिखाऊँगा, उतने कंकड़ गोले के अन्दर दाएँ तरफ रखो। बाएँ हाथ से मैं जिनती अँगुलियाँ दिखाऊँगा, उतने कंकड़ गोले के

अन्दर दाएँ तरफ रखो। गोले के अन्दर कुल कंकड़ों की संख्या बताओ।

❓ **पूछें** : अब गोले में कितने कंकड़ हो गए हैं?

गतिविधि को अलग-अलग संख्याओं के साथ दोहराएँ।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट



- शिक्षक बच्चों को 4-4 के समूह में बाँटकर प्रत्येक समूह को 1 से 9 तक संख्या कार्ड और कुछ तीली दें।
- **समझाएँ** : मैं जो संख्या कार्ड दिखाऊँगा उतनी तीली गिनकर अलग रखो। दूसरा संख्या कार्ड दिखने पर उतनी ही तीली फिर से अलग करनी हैं। अब दोनों अलग की गई तीलियों के समूह को मिलाकर कुल संख्या को कार्ड से

दर्शाना है।

● पहले संख्या कार्ड 7 और फिर संख्या कार्ड 9 दिखाएँ।

❓ **पूछें** : तुमने कितनी तीलियाँ अलग करके रखीं? दोनों अलग रखी हुई तीलियों को मिलाकर कुल कितनी तीलियाँ हुईं?


● **समझाएँ** : इस तरह से समूह के मिलान को हम जोड़ना कहते हैं।

📚 **शिक्षक के लिए बिंदु** : संख्याओं और जोड़ के प्रतीक को श्यामपट्ट पर जरूर लिखें।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट



● शिक्षक श्यामपट्ट पर चित्र बनाएँ।

❓ कुल कितनी आइस्क्रीम हैं?

❓ कुल कितने पंछी हैं?

❓ कुल चश्मे की संख्या बताएँ।

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-13|1 कराएँ-पृष्ठ 102



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-13|1 कराएँ-पृष्ठ 90



📦 **संसाधन** : ब्लॉक, संख्या कार्ड (1 से 9 तक)।

⏪ **आवश्यक पूर्व ज्ञान** : 1 से 20 तक की संख्याओं का मात्रात्मक समझ।


🗣️ **नये शब्द** : मिलाकर बताओ, जोड़ना।

⚠️ **सामान्य भूल** : बच्चे एक अंक के जोड़ की संक्रिया तो कर लेते हैं, लेकिन किसी सन्दर्भ में जोड़ का प्रयोग नहीं कर पाते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट




- शिक्षक दाएँ हाथ में 6 ब्लॉक और बाएँ हाथ में 8 ब्लॉक लेकर बच्चों को दिखाएँ।
- ❓ **पूछें** : मेरे दाएँ हाथ में कितने ब्लॉक हैं?
- मेरे बाएँ हाथ में कितने ब्लॉक हैं?
- संख्याओं को श्यामपट्ट पर लम्बवत रूप में लिखें।

- ❓ **पूछें** : कुल ब्लॉक की संख्या जोड़ कर बताओ?
- कुल संख्या को श्यामपट्ट पर लिखें।
- गतिविधि को अलग-अलग संख्याओं के साथ दोहराएँ।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट




- शिक्षक बच्चों को दो समूह में बाँटें।
- **समझाएँ** : दोनों समूह को 1 से 9 तक की कोई भी एक-एक संख्या बोलना होगा। जिसे श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा। फिर कोई एक बच्चा संख्याओं को जोड़कर श्यामपट्ट पर लिखेगा।
- ❓ **पूछें** : पहले समूह कौन-सी संख्या लिखना चाहता है? दूसरा समूह कौन-सी संख्या लिखना चाहता है?
- एक बच्चे को श्यामपट्ट पर दोनों

- संख्याओं को जोड़ने को कहें।
- ❓ **पूछें** : क्या संख्याओं को सही से जोड़ा गया है?
- गतिविधि को कई बार दोहराएँ।
- 👉 **शिक्षक के लिए बिंदु** : ध्यान रखें कि जब एक बच्चा श्यामपट्ट पर जोड़ रहा है तब बाकी बच्चे उसे अपने कॉपी में हल करें। जरूरत होने पर बच्चों को ठोस वस्तु/चित्र की सहायता लेने दें।
- 👉 ध्यान रखें कि बच्चे इकाई के नीचे इकाई अंक और उसके बाईं ओर दहाई अंक लिखें।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक श्यामपट्ट पर इन सवालियों को लिखें।
- ❓ तीन और पाँच को जोड़कर कितना होगा?
- ❓ आठ में सात जोड़ने पर कितना आएगा?
- ❓ एक और छह मिलकर क्या होगा?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-13|2 कराएँ-पृष्ठ 103



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-13|2 कराएँ-पृष्ठ 90



📦 **संसाधन** : कंकड़, संख्या कार्ड (1 से 9 तक)।


⏪ **आवश्यक पूर्व ज्ञान** : 0 से 9 तक की संख्याओं का मात्रात्मक समझ।

👁️ **नये शब्द** : बचे हुए, घटाव।

⚠️ **सामान्य भूल** : बच्चे एक अंक के घटाव की संक्रिया तो कर लेते हैं लेकिन किसी सन्दर्भ में घटाव का प्रयोग नहीं कर पाते हैं।

👤 1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक बच्चों को दो समूह में विभाजित करके प्रत्येक समूह को 9 कंकड़ दें। बीच में चॉक से एक गोला बना दें।
- **समझाएँ** : हाथ में जितनी अँगुलियाँ दिखाऊँगा उतने कंकड़ गोले के अन्दर रखें। बाएँ हाथ से दिखाई अँगुलियाँ के बराबर कंकड़ गोले से हटा लेगा। फिर गोले के

- अन्दर बचे हुए कंकड़ों की संख्या बतानी होगी।
- **पूछें** : अब गोले में कितने कंकड़ बचे हुए हैं?
- गतिविधि को कई बार दोहराएँ।

👤 2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट




- शिक्षक बच्चों को 4-4 के समूह में बाँटकर प्रत्येक समूह को 1 से 9 तक संख्या कार्ड और कुछ तीली दें।
- **समझाएँ** : मैं जो संख्या कार्ड दिखाऊँगा उतनी तीली गिनकर अलग रखना होगा। दूसरा संख्या कार्ड दिखने पर उतनी तीली अलग रखी हुई तीलियों से हटाना होगा। बची हुई तीलियों की संख्या को कार्ड से दर्शाना होगा।

- पहले संख्या कार्ड 9 और फिर संख्या कार्ड 4 दिखाएँ।
- **पूछें** : आपने कितनी तीलियों को अलग करके रखा? कितनी तीलियाँ हटा ली? हटाने के बाद कितनी तीलियाँ बचीं?
- **समझाएँ** : इस तरह समूह के हटाने को हम घटाव कहते हैं।
- **शिक्षक के लिए बिंदु** : संख्याओं और घटाव के प्रतीक को श्यामपट्ट पर जरूर लिखें।

👤 3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक श्यामपट्ट पर चित्र बनाएँ।
- **?** कितनी मछलियाँ बचीं?
- **?** पहले कितने शर्ट थे और फिर कितने कम हुए?
- **?** कम होने के बाद शर्ट की संख्या क्या है?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-13|3 कराएँ-पृष्ठ 104



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-13|3 कराएँ-पृष्ठ 90




अभ्यास गतिविधि 01 ⌚ 40 मिनट

🌀 एक अंक की संख्याओं को (वस्तुओं और चित्रों के साथ) जोड़ सकें।



संसाधन

गोलियाँ, चित्रों का चार्ट।



- संपूर्ण कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करें।
- सभी बच्चों को कुछ गोलियाँ दें।
- प्रत्येक समूह से 4 और 2 गोलियों के समूह बनाने को कहें।
- बच्चों से पूछें, 4 गोलियों और 2 गोलियों को मिलाकर कितनी गोलियाँ हुईं।
- इसी प्रकार शिक्षक चित्रों को भी दिखाएँ, जिसे 4 गुब्बारे और 2 गुब्बारे बने हों। उन्हें मिलाकर बताने को कहें।
- यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे प्रतिभागिता करें।
- बच्चों को उनके द्वारा किए गए कार्य को अपने शब्दों में बताने के लिए पर्याप्त समय दें।
- शिक्षक बच्चों को अभिव्यक्ति करने में मदद करें।

बच्चों के लिए प्रश्न-

- ❓ बच्चों से पूछें कि चार गुब्बारे और दो गुब्बारे मिलाकर 6 गुब्बारे क्यों हो गए?
- ❓ क्या आप जोड़ के कुछ सवाल अपने से बना सकते हैं?


अभ्यास गतिविधि 02 ⌚ 40 मिनट

🌀 एक अंक की संख्याओं को लम्बवत रूप में जोड़ सकें।



संसाधन

जोड़ का चार्ट, ब्लॉक्स।



- सम्पूर्ण कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करें।
- प्रत्येक बच्चे को अंकों का चार्ट और ब्लॉक्स दें।
- बच्चे जोड़ चार्ट पर अपने-अपने समूह में कार्य करेंगे।
- जोड़ने से पंक्ति और स्तंभ में अंगुली चलाने पर जहाँ मिलती है वही जोड़ का जवाब होता है।
- जैसे 4 और 5 से शुरू करेंगे तो 9 पर उंगली आएगी।
- समूह को बच्चों से बताई गई संख्या को लम्बवत रूप में लिखने को कहें।
- ब्लॉक्स का उपयोग कर जोड़ने को कहें।
- यही प्रक्रिया पुनः दोहराई जाए।
- फिर चार्ट की मदद से बच्चों को एक अंकीय जोड़ की अवधारणा समझाएँ।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- ❓ जोड़ने पर जो संख्या आई है वह दी गई संख्याओं से बड़ी है या छोटी?
- ❓ क्या आप लम्बवत रूप से जोड़ने के कुछ सवाल अपने से बना सकते हैं?


अभ्यास गतिविधि 03 ⌚ 40 मिनट

🌀 एक अंक की संख्याओं को (वस्तुओं और चित्रों के साथ) घटाव कर सकें।



संसाधन

ब्लॉक्स, डोमिनो कार्ड।



- सम्पूर्ण कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करें।
- प्रत्येक समूह को डोमिनो कार्ड ब्लॉक्स दें।
- बच्चों से एक डोमिनो कार्ड दिखाने को कहें।
- बच्चों ने जो डोमिनो कार्ड हाथ में लिया है उसके बिंदु को गिनने को कहें और उतने ही ब्लॉक्स निकालने को कहें।
- बच्चों को निर्देश दें यदि किसी डोमिनो कार्ड में बिंदु 4 और 2 है, तो बच्चे 4 ब्लॉक्स निकालेंगे और उनमें से दो ब्लॉक्स अपने साथी को दें।
- अब बच्चों से पूछें कि आपके पास अब कितने ब्लॉक्स बचे हैं?
- बच्चों को समझाएँ कि 4 ब्लॉक्स में 2 ब्लॉक्स निकाल देने को 4 में से 2 घटाव करना भी कहते हैं और घटाव करने की शब्दावली बच्चों को दें।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- ❓ 5 वस्तुओं में 2 वस्तुएँ हटा दी जाएँ तो कितनी वस्तुएँ बचेंगी?



🎯 एक अंक की संख्याओं को लम्बवत रूप से घटाव कर सकें।

📦 **संसाधन** : ब्लॉक, संख्या कार्ड (1 से 9 तक)।

⏪ **आवश्यक पूर्व ज्ञान** : 0 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ ।


👁️ **नये शब्द** : बचे हुए, घटाव।

⚠️ **सामान्य भूल** : बच्चे एक अंक के घटाव की संक्रिया तो कर लेते हैं लेकिन किसी सन्दर्भ में घटाव का प्रयोग नहीं कर पाते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट




- शिक्षक हाथ में 9 ब्लॉक लेकर बच्चों को दिखाएँ।
- ❓ **पूछें** : मेरे हाथ में कितने ब्लॉक हैं? 9 ब्लॉक में से 6 ब्लॉक हटा कर मेज पर रख दें।
- ❓ **पूछें** : मैंने कितने ब्लॉक हटा लिए? मेरे हाथ में कितने ब्लॉक बच गए?

- संख्याओं को श्यामपट्ट पर लम्बवत रूप से घटाव कर लिखें।
- गतिविधि को अलग-अलग संख्याओं के साथ दोहराएँ।
- 👉 **शिक्षक के लिए बिंदु** : बच्चों को समझाएँ कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाती है।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट



- शिक्षक बच्चों को दो समूह में बाँटें।
- **समझाएँ** : दोनों समूह को 1 से 9 तक की कोई भी एक-एक संख्या बोलनी होगी। संख्याओं को श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा। फिर कोई एक बच्चा संख्याओं को घटा कर श्यामपट्ट पर लिखेगा।
- ❓ **पूछें** : पहला समूह कौन-सी संख्या लिखना चाहता है? दूसरा समूह कौन-सी संख्या लिखना

- चाहता है?
- एक बच्चे को श्यामपट्ट पर दोनों संख्याओं को घटाव करने को कहें।
- ❓ **पूछें** : क्या संख्याओं को सही से घटाव किया गया है?
- गतिविधि को कई बार दोहराएँ।
- 👉 **शिक्षक के लिए बिंदु** : ध्यान रखें कि जब एक बच्चा श्यामपट्ट पर घटाव कर रहा हो तब बाकी बच्चे उसे अपने कॉपी में हल करें। जरूरत होने पर बच्चों को ठोस वस्तु/चित्र की सहायता लेने दें।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट

$$\begin{array}{r} 6 \\ -2 \\ \hline 4 \\ -4 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 9 \\ -5 \\ \hline 4 \end{array}$$

- शिक्षक श्यामपट्ट पर इन सवालों को लिखें।
- ❓ छह से दो घटाएँ तो कितना होगा? नौ से पाँच कम करने पर कौन सी संख्या मिली?
- ❓ चार से चार को घटाव करने से क्या होगा?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-14|1 कराएँ-पृष्ठ 109



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ



कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-14|1 कराएँ-पृष्ठ 94



🎯 एक अंक की संख्याओं को शून्य के साथ जोड़ और घटाव कर सकें।

📦 संसाधन : कंकड़, मोतियाँ।

⏪ आवश्यक पूर्व ज्ञान : 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ होना, शून्य की समझ।


👁️ नये शब्द : कोई नहीं।

⚠️ सामान्य भूल : कोई नहीं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट




- शिक्षक कक्षा की शुरुआत कविता से करें।
- चाहे जोड़ो या घटाओ।
उत्तर में अंतर न पाओ।
अपनी-अपनी बुद्धि लगाओ।
मुझको वह संख्या बतलाओ।।
- ❓ पूछें : वह संख्या कौन-सी है?
बच्चों को उत्तर देने का समय दें।
एक संख्या बोलें और बच्चों को

- उतनी बार ताली बजाने को कहें।
- अगल-अगल संख्या बोलें। बीच में शून्य भी बोलें।
- समझाएँ : शून्य के लिए ताली नहीं बजानी है।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट



- शिक्षक एक संदर्भ देकर बच्चों के जोड़/घटाव का एक सवाल करें।
जैसे : एक तालाब में 5 मछलियाँ थीं। एक बगुले ने झपटा मारा लेकिन एक भी मछली बगुले के हाथ न आयी।
- ❓ पूछें : अब तालाब में कितनी मछलियाँ हैं?
- 🗉 शिक्षक के लिए निर्देश : बोर्ड पर चित्र की सहायता से भी समझाएँ।

- कुछ और संदर्भ लेकर प्रक्रिया को दोहराएँ।
- श्यामपट्ट पर एक कटोरी में तीन मोतियाँ और एक खाली कटोरी दिखाएँ।
- श्यामपट्ट पर $3 + 0$ लिखें।
- समझाएँ : बच्चों को बताएँ कि $+0$ का अर्थ है कि कोई भी और संख्या नहीं जोड़ी गई।
- ❓ पूछें : मैं सात गेंदों में शून्य "0" और गेंदों को जोड़कर कैसे लिखूँगा।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट

$$\begin{array}{r} 5 \\ + 0 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 7 \\ - 0 \\ \hline \end{array}$$

- शिक्षक श्यामपट्ट पर कुछ सवाल लिखें।
- बच्चों को अपनी कॉपी में सवाल हल करने को कहें।
- शिक्षक बच्चों को मौखिक रूप से कुछ इबारती सवाल भी दें।
- ❓ किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर क्या होता है?
- ❓ सात से शून्य घटाने पर कौन सी संख्या मिलेगी।

$$9 + 0 =$$

$$8 - 0 =$$

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक
सप्ताह-14|2 कराएँ-पृष्ठ 110



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि
सप्ताह-14|2 कराएँ-पृष्ठ 94



🕒 दो अंकों की संख्याओं को (वस्तुओं व चित्रों के साथ) बिना हासिल के जोड़ सकें।

📦 **संसाधन** : पेंसिल/कंकड़।

⏪ **आवश्यक पूर्व ज्ञान** : बच्चे 1 से 99 तक की समझ। जोड़ की अवधारणा की समझ।


🗨️ **नये शब्द** : जोड़ना, मिलाना, इकट्ठा करना।

⚠️ **सामान्य भूल** : कोई नहीं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक जोड़ के कुछ अलग-अलग रोचक संदर्भ लेकर बच्चों से बातचीत प्रारंभ करें।
- ? **पूछें**: दीपक के पास 4 पतंग थी और उसकी दीदी ने उसे 3 पतंग दी। अब दीपक के पास कितनी पतंगें हैं?
- बच्चों को सोचने का समय दें।


जरूरत पड़ने पर कंकड़ उपयोग करने की सलाह दें।

- **समझाएँ**: कंकड़ की सहायता से बच्चों को समझाएँ कैसे दो समूह की वस्तुओं को इकट्ठा कर बने नए समूह में वस्तुओं की संख्या पता करना जोड़ है।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट



- शिक्षक बच्चों के साथ बैठें और जोड़ के एक सवाल से शुरुआत करें।
- ? **पूछें**: अमन के पास 22 पेंसिलें थीं। उसने दुकान से 15 पेंसिलें और खरीदीं। अब उसके पास कुल कितनी पेंसिलें हो गई हैं?
- किसी एक बच्चे को आगे बुलाएं और सवाल हल करने को कहें।
- ? **पूछें**: अमन के पास कितने पेंसिलें थीं? अमन ने कितनी पेंसिलें खरीदीं?

- **समझाएँ**: पहले 22 पेंसिलों का एक समूह बनाओ। अब 15 पेंसिलों का एक समूह बनाओ। दोनों को मिलाकर गिनो।
- ? **पूछें**: अब कुल कितनी पेंसिलें हो गई? मतलब अमन के पास कितनी पेंसिलें हैं? कुछ और बच्चों के साथ गतिविधि को आगे बढ़ाएँ।
- 👨 **शिक्षक के लिए बिन्दु** : बच्चों को जोड़ के चिह्न से परिचय कराएँ।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक श्यामपट्ट पर एक समूह में 26 गोले और दूसरे में 13 गोले बनाएँ।
- समूह के नीचे क्रमशः 26 और 13 लिखकर, जोड़ का चिह्न भी लगाएँ। ऐसे और कुछ चित्र बनाएँ।
- ? 26 में 13 जोड़ने पर कौन-सी संख्या मिलेगी?
- ? 14 और 20 गोले जोड़ने से कुल कितने गोले होंगे?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-14|3 कराएँ-पृष्ठ 111



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:




संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-14|3 कराएँ-पृष्ठ 94



अभ्यास गतिविधि 01 ⌚ 40 मिनट

🌀 एक अंक की संख्याओं को लम्बवत रूप में घटाव कर सकें।

📦 संसाधन
ब्लॉक्स।



- सम्पूर्ण कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करें।
- प्रत्येक समूह को कुछ ब्लॉक्स (1-9) दें।
- बच्चों से इन ब्लॉक्स को अपने सामने रख कर कोई मिठाई मानने को कहें।
- फिर कुछ उनमें से कल्पना कर खाने को कहें जैसे 2 ब्लॉक्स और उन्हें बच्चों को सामने से निकालने को कहें।
- फिर बचे हुए ब्लॉक्स को गिनने को कहें और उनमें से कुछ जैसे 3 और ब्लॉक्स अपने दूसरे साथी को देने के लिए कहें।
- बच्चों से पूछें कि आपके पास कितने ब्लॉक बचे हैं?
- बच्चों को चार्ट को पढ़कर इस प्रक्रिया को घटाव की शब्दावली से समझने को कहें।
- बच्चों को यही प्रक्रिया कुछ दूसरी संख्या के साथ दोहराने को कहें।


बच्चों के लिए प्रश्न:

- 🔍 घटाव करने के बाद बची हुई संख्या पहले वाली संख्या से कम होती है या ज्यादा?

अभ्यास गतिविधि 02 ⌚ 40 मिनट

🌀 एक अंक की संख्याओं को शून्य के साथ जोड़ और घटाव कर सकें।

📦 संसाधन
ब्लॉक्स।



- सम्पूर्ण कक्षा के बच्चों को दो के समूह में विभाजित करें।
- बच्चों को एक-दूसरे को ब्लॉक्स देने को कहें जैसे पहले बच्चे ने अपने में से 2 ब्लॉक्स दूसरे को दे दिए तो दोनों से पूछें कि उन्होंने कितने ब्लॉक्स और जोड़े या घटाव करें?
- बच्चों से पूछें कि कुल कितने ब्लॉक्स हो गए उनके पास? ऐसा उन्हें कुछ और ब्लॉक्स के साथ करने को कहें।
- इस बार कोई किसी को ब्लॉक्स नहीं देगा।
- फिर पूछें कि इस बार कितने ब्लॉक्स उन्होंने जोड़े या घटाव करें? और कुछ नहीं के लिए शून्य की शब्दावली का इस्तेमाल करने को कहें।


बच्चों के लिए प्रश्न:

- 🔍 साँप तालाब के पास 5 मेंढक खाने के लिए आया, सभी पानी में कूद गए। साँप को कितने मेंढक खाने को मिले?

अभ्यास गतिविधि 03 ⌚ 40 मिनट

🌀 दो अंकों की संख्याओं को (वस्तुओं और चित्रों के साथ) बिना हासिल के जोड़ सकें।

📦 संसाधन
परिवेश की वस्तुएं।



- बच्चों को 3-4 समूह में बाटें।
- सभी को कुछ वस्तुओं को दें।
- वस्तुओं को गिनकर उनकी संख्या शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखें।
- दूसरों के समूह की गिनती को श्यामपट्ट पर बड़ी संख्या के नीचे लिखें।
- बच्चों से दोनों संख्याओं की वस्तुओं को मिलाकर, गिनकर उतनी संख्या लिखें।
- श्यामपट्ट पर संख्या कार्ड दिखाते हुए इकाई के नीचे इकाई संख्या को जोड़कर लिखें।
- बच्चों से दहाई के नीचे दहाई संख्या लिखकर, बच्चों से उस संख्या को पूछें।
- दोनों समूहों की संख्या को आपस में जोड़कर उतनी ही वस्तुओं और चित्र बनाकर बच्चों से गिन कर पूछें।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- 🔍 इकाई में इकाई की संख्या क्यों जोड़ते हैं?
- 🔍 दहाई में दहाई की ही संख्या क्यों जोड़ेंगे?



🎯 दो अंकों की संख्याओं को लम्बवत रूप में बिना हासिल के जोड़ सकें।



संसाधन : माचिस तीली, रबर बैंड, जोड़-चार्ट।



आवश्यक पूर्व ज्ञान : बच्चे 1 से 99 तक की समझ। जोड़ की अवधारणा की समझ।



नये शब्द : जोड़ना, मिलाना, इकट्ठा करना।




सामान्य भूल : कई बार बच्चे लम्बवत जोड़ में दो संख्याओं को उनके स्थानीय मान के अनुसार नहीं लिखते हैं।




1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक बच्चों को रोचक संदर्भ में दस के गुणज को जोड़ने का सवाल दें।

❓ **पूछें**: मनोज के पास 40 बकरियाँ हैं। उसके भाई के पास 30 बकरियाँ हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी बकरियाँ हैं?



- बच्चों को सवाल हल करने दें।

- शिक्षक माचिस तीली के दस के बण्डल का उपयोग कर सवाल हल करें।
- **समझाएँ**: संख्या बड़ी होने पर कंकड़ के स्थान पर माचिस तीली का इस्तेमाल ज्यादा आसान है। साथ ही दस के समूह में जोड़ना आसान है।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट

दहाई/ बण्डल	इकाई/ खुले
3	5
+	4
7	8

- शिक्षक जोड़ के सवाल के शुरुआत करें।
- ❓ **पूछें**: रमन हलवाई के पास 35 लड्डू हैं। उसने और 43 लड्डू बनाए। अब उसके पास कुल कितने लड्डू हैं? किसी एक बच्चे को आगे बुलाएँ और सवाल हल करने को कहें।
- ❓ **पूछें**: रमन के पास कितने लड्डू थे? रमन ने कितने लड्डू और बनाए?
- **समझाएँ**: 35 माचिस की तीलियाँ लो। अब 43 माचिस की तीलियाँ लो। दोनों

को मिलाकर गिनो।

❓ **पूछें**: अब कुल कितने हैं?

📖 **शिक्षक के लिए निर्देश** : पहले दोनों समूह के इकाई को इकट्ठा कर गिनने को कहें। इसके बाद इसी प्रकार दहाई को।

- शिक्षक जोड़-चार्ट पर संख्या लिख कर और माचिस की तीलियों को रखते हुए बच्चों को लम्बवत जोड़ना सिखाएँ।
- प्रक्रिया को कई बार दोहराएँ।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट

45	40
+33	+23

- शिक्षक श्यामपट्ट पर लम्बवत जोड़ के कुछ सवाल लिखें।
- एक-एक बच्चों को आगे बुलाकर एक-एक सवाल हल करने को कहें।
- ❓ 45 में 33 जोड़ने पर कौन-सी संख्या मिलेगी?
- ❓ आरिफ के पास 40 अंडे हैं। उसके भाई के पास 23 अंडे हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर कितने अंडे हैं?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-15|1 कराएँ-पृष्ठ 116



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ



कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:

संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-15|1 कराएँ-पृष्ठ 98



🔄 दो अंकों की संख्याओं को (वस्तुओं व चित्रों के साथ) हासिल के साथ जोड़ सकें।

📦 **संसाधन** : कंकड़, माचिस की तीलियाँ, रबर बैंड।

⏪ **आवश्यक पूर्व ज्ञान** : बच्चे 1 से 99 तक की समझ। जोड़ की अवधारणा की समझ।


🗣️ **नये शब्द** : हासिल।

⚠️ **सामान्य भूल** : बच्चे अकसर हासिल को भूल जाते हैं या दो अंकों को जोड़कर पूरी संख्या लिख देते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट




- शिक्षक जोड़ के कुछ रोचक संदर्भ लेकर बच्चों से बातचीत प्रारंभ करें।
- ❓ **पूछें**: दीपक के पास 34 पतंगें थीं और उसकी दीदी ने उसे और 17 पतंगें दीं। अब दीपक के पास कितनी पतंगें हैं?
- बच्चों को सोचने का समय दें। जरूरत पड़ने पर कंकड़/माचिस

- तीली का उपयोग करने की सलाह दें।
- **समझाएँ**: कंकड़/माचिस तीली की सहायता से बच्चों को समझाएँ कि कैसे दो समूह की वस्तुओं को इकट्ठा कर बने नए समूह में वस्तुओं की संख्या पता करना जोड़ है।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट




- शिक्षक बच्चों के साथ बैठें और जोड़ के सवाल से शुरुआत करें।
- ❓ **पूछें**: अमन के पास 52 तीलियाँ थीं। उसने दुकान से और 19 तीलियाँ खरीदीं। अब उसके पास कुल कितनी तीलियाँ हो गईं?
- एक बच्चे को आगे बुलाएँ और सवाल हल करने को कहें।
- ❓ **पूछें**: अमन के पास कितनी पेंसिलें थीं? अमन ने कितनी पेंसिलें खरीदीं? समझाएँ: 52 तीलियों का एक समूह

- बनाओ। अब 19 तीलियों का एक समूह बनाओ। दोनों को मिलाकर गिनो।
- ❓ **पूछें**: अब कुल कितनी तीलियाँ हो गईं? मतलब अमन के पास कितनी तीलियाँ हैं?
- 👨 **शिक्षक के लिए बिन्दु** : देखें बच्चे कैसे गिन रहे हैं। इकाइयों की संख्या 10 से ज्यादा है तो बण्डल बनाने को कहें।
- कुछ और बच्चों के साथ गतिविधि को आगे बढ़ाएँ।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक श्यामपट्ट पर एक समूह में 36 गोले और दूसरे में 14 गोले बनाएँ।
- समूह के नीचे क्रमशः 36 और 14 लिखकर, जोड़ का चिह्न भी लगाएँ।
- ❓ **पूछें**: 36 में 14 जोड़ने पर कौन-सी संख्या मिलेगी?
- ❓ **पूछें**: 42 और 29 गोले जोड़ने से कितने गोले होंगे?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-15|2 कराएँ-पृष्ठ 117



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-15|2 कराएँ-पृष्ठ 98



🔗 दो अंकों की संख्याओं को लम्बवत रूप में हासिल के साथ जोड़ सकें।



संसाधन : माचिस तीली, रबर बैंड, जोड़-चार्ट।



आवश्यक पूर्व ज्ञान : बच्चे 1 से 99 तक की समझ। जोड़ की अवधारणा की समझ।



नये शब्द : कोई नहीं।



सामान्य भूल : कोई नहीं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट

$$\begin{array}{r} 40 \\ + 50 \\ \hline 90 \end{array}$$

- शिक्षक बच्चों को रोचक संदर्भ में दस के गुणजों को जोड़ने का एक सवाल दें।
- ❓ पूछें: मनोज के पास 40 बकरियाँ हैं। उसके भाई के पास 50 बकरियाँ हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी बकरियाँ हैं?
- बच्चों को सवाल हल करने दें।

- शिक्षक माचिस की तीली के दस के बण्डल का उपयोग कर सवाल हल करें।
- ❓ समझाएँ: संख्या बड़ी होने पर कंकड़ के स्थान पर माचिस की तीली का इस्तेमाल ज्यादा आसान है। साथ ही दस से समूह में जोड़ना आसान है।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट

दहाई/ बण्डल	इकाई/ खुले
1	
5	5
+	
2	9
8	4

- शिक्षक जोड़ के एक सवाल के शुरुआत करें।
- 🔗 पूछें: रमन हलवाई के पास 55 लड्डू हैं। उसने और 29 लड्डू बनाए। अब उसके पास कुल कितने लड्डू हो गए हैं?
- किसी एक बच्चे को आगे बुलाएँ और सवाल हल करने को कहें।
- बच्चे को अपने स्तर से सवाल को हल करने दें।
- ❓ समझाएँ: पहले 55 माचिस की

- तीलियाँ लो। अब 29 माचिस की तीलियाँ लो। दोनों को मिलाकर गिनो। इकाइयों की संख्या दस से अधिक है। दस इकाइयों का एक बण्डल बनाकर दहाई के घर में रखते हुए हासिल की अवधारणा समझाएँ।
- शिक्षक जोड़-चार्ट पर उचित संख्या लिखकर और माचिस की तीलियों की संख्या रखते हुए बच्चों को लम्बवत जोड़ना सिखाएँ।
- प्रक्रिया को कई बार दोहराएँ।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट

$$\begin{array}{r} 45 \quad 46 \\ +36 \quad +24 \end{array}$$

- शिक्षक श्यामपट्ट पर लम्बवत जोड़ के हासिल वाले कुछ सवाल लिखें।
- एक-एक बच्चों को आगे बुलाकर एक-एक सवाल हल करने को कहें।
- ❓ 45 में 36 जोड़ने पर कौन-सी संख्या मिलेगी?
- ❓ आरिफ के पास 46 अंडे हैं। उसके भाई के पास 24 अंडे हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर कितने अंडे हैं?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-15|3 कराएँ-पृष्ठ 118



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ



कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-15|3 कराएँ-पृष्ठ 98



अभ्यास गतिविधि 01 ⌚ 40 मिनट

🎯 दो अंकों की संख्याओं को लम्बवत रूप में बिना हासिल के जोड़ सकें।

📦 संसाधन
फलैश कार्ड।



- सभी बच्चों को दो अंकीय संख्या फलैश कार्ड वितरित करें।
- श्यामपट्ट पर गुब्बारे का चित्र बनाकर दो बच्चों को अपने-अपने फलैश कार्ड की संख्या बताने को कहें।
- संख्या को लम्बवत रूप से लिखें।
- अब बच्चों से दोनों संख्याओं को वस्तुओं से गिनकर कुल संख्या को बतलाएँ।
- इसे श्यामपट्ट पर करते हुए बताएँ इकाई के साथ इकाई वाली संख्या लिखकर जोड़कर बताएँ।
- इसी तरह दहाई वाली संख्या को दहाई वाली संख्या के साथ ऊपर नीचे करके जोड़कर बताएँ और कॉपी पर लिखने का अभ्यास करें।
- इस प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए गुब्बारे के चित्र में दो अंकीय संख्याओं को लिखें और प्रत्येक बच्चे को आपसी बातचीत से सवाल हल करने को प्रेरित करें।


बच्चों के लिए प्रश्न:

- ② इकाई के नीचे इकाई की संख्या को क्यों जोड़ते हैं?
- ② जोड़ते समय इकाई की तरफ से क्यों शुरुआत करते हैं?

अभ्यास गतिविधि 02 ⌚ 40 मिनट

🎯 दो अंकों की संख्याओं को (वस्तुओं और चित्रों के साथ) हासिल के साथ जोड़ सकें।

📦 संसाधन
स्ट्रॉ/माचिस की तीलियाँ।



- बच्चों के दो-दो समूह बनाकर स्ट्रा या माचिस की तीलियाँ दें। बच्चों को स्ट्रॉ/माचिस की तीलियों के 10-10 के कुछ बण्डल बनाने को कहें।
- उदाहरण के लिए, 38 को 3 बण्डल व 8 खुली तीलियों से और 46 को 4 बण्डल और 6 खुली तीलियों से दिखाया जा सकता है।
- अगर हम इन बण्डल और तीलियों को मिला दें, तो हम कितनी बण्डल व खुली तीलियाँ मिलेंगी?
- समझाएँ- 8 और 6 खुली तीलियों को मिलाने पर हो जाएँगी 14 तीलियाँ। 14 दस से ज्यादा है इसलिये, हम 10 तीलियों का 1 बण्डल बना देंगे और 4 तीलियाँ खुली रहेगी। पहले हमारे पास 3 और 4 बण्डल थे, और अब 1 बण्डल और हो गया। इसलिये हमारे पास हो गए 8 बण्डल।
- हमारे पास कुल हुए 8 बण्डल और 4 खुली तीलियाँ, यानी 84।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- ② 27 और 54 को जोड़ने से कौन सी संख्या बनेगी?

अभ्यास गतिविधि 03 ⌚ 40 मिनट

🎯 दो अंकों की संख्याओं को लम्बवत रूप में हासिल के साथ जोड़ सकें।

📦 संसाधन
स्थानीय मान कार्ड।

अवधारणा बोर्ड (स्थानीय मान)			
हजार 1000	सैकड़ 100	दहाई 10	इकाई 1

- बच्चों को 2-2 के समूह में बाँटें। हर समूह को स्थानीय मान कार्ड दें।
- आप 2 संख्या बोलें। बच्चे स्थानीय मान कार्ड की मदद से वो संख्या दिखाएँ। जैसे, बच्चे 35 को 30 और 5 के कार्ड से दिखाएँ। 27 को 20 और 7 के कार्ड से दिखाएँ। बच्चों से पूछें इन संख्या में कितने दहाई हैं और कितनी इकाई है।
- बच्चों को संख्याओं को नोटबुक में लिखकर जोड़ने के लिए कहें। समझाएं कि हम इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई लिखेंगे।
- अब बच्चों से इकाई वाली संख्या को जोड़ने को कहें। जैसे 5 और 7, होगा 12। यह संख्या 10 से ज्यादा है। इसमें 2 इकाई है, इसलिये 2 को इकाई के नीचे लिखें। 1 को दहाई वाली संख्याओं के ऊपर हासिल के रूप में लिखें।

बच्चों के लिए प्रश्न:

② हल करें:

$$\begin{array}{r} 41 \\ + 79 \\ \hline \end{array}$$



🎯 दो अंकों की संख्याओं को (वस्तुओं व चित्रों के साथ) बिना हासिल के घटाव कर सकें।

📦 संसाधन : कंकड़।

⏪ आवश्यक पूर्व ज्ञान : बच्चे 1 से 99 तक की समझ | घटाव की अवधारणा की समझ।


👁️ नये शब्द : घटाव, निकालना/कम करना।

⚠️ सामान्य भूल : कोई नहीं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक घटाव के रोचक संदर्भ लेकर बच्चों से बातचीत प्रारंभ करें।
- ? पूछें: दीपक के पास 4 पतंगें थीं और उसकी दीदी ने 2 पतंगें ले लीं। अब दीपक के पास कितनी पतंगें हैं?
- बच्चों को सोचने का समय दें। जरूरत पड़ने पर कंकड़ उपयोग

करने की सलाह दें।

- समझाएँ: कंकड़ की सहायता से बच्चों को समझाएँ कि कैसे एक समूह की वस्तुओं से कुछ वस्तुएँ निकाल कर बने नए समूह में वस्तुओं की संख्या पता करना घटाव है।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट



- शिक्षक बच्चों के साथ बैठें और घटाव के एक सवाल से शुरुआत करें।
- ? पूछें: अमन के पास 22 कंकड़ थे। अमन के 15 कंकड़ गुम हो गए। अब उसके पास कितने कंकड़ बचे? किसी एक बच्चे को आगे बुलाएँ और सवाल हल करने को कहें।
- ? पूछें: अमन के पास कितने कंकड़ थे? अमन के कितने कंकड़ गुम हो गए?
- समझाएँ : पहले 22 कंकड़ों का एक समूह बनाओ। अब 15 कंकड़ों को

समूह से निकालो। अब गिनकर देखो कितने कंकड़ बचे हैं?

- ? पूछें: अब कितने कंकड़ बचे हैं? कुछ और बच्चों के साथ इसी प्रकार गतिविधि को आगे बढ़ाएँ।

👨 शिक्षक के लिए बिन्दु : बच्चों को घटाव के चिह्न से परिचय कराएँ।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक श्यामपट्ट पर समूह में 26 गोले बनाएं और उसके नीचे 26 लिखें। समूह से 15 गोले को क्रॉस लगाएँ। ऐसे और भी चित्र बनाएँ।
- ? 26 में 15 घटाने पर कौन-सी संख्या मिलेगी?
- ? 43 में 31 कम करने से कितने गोले बचेगे?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-16|1 कराएँ-पृष्ठ 123



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ



कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-16|1 कराएँ-पृष्ठ 102



संसाधन : माचिस तीली, रबर बैंड, घटाव-चार्ट।



आवश्यक पूर्व ज्ञान : बच्चे 1 से 99 तक की समझ। घटाव की अवधारणा की समझ।



नये शब्द : घटाव, निकालना/कम करना।




सामान्य भूल : कई बार बच्चे लम्बवत जोड़ में दो संख्याओं को उनके स्थानीय मान के अनुसार नहीं लिखते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक बच्चों को किसी रोचक संदर्भ में दस के गुणजों में घटाव का एक सवाल दें।
- ❓ **पूछें:** मनोज के पास 30 बकरियाँ हैं। वह 10 बकरियों को बाजार में बेच आया। अब उसके कितनी बकरियाँ हैं?
- बच्चों को अपने स्तर से सवाल हल करने दें।

- शिक्षक माचिस की तीली के दस के बण्डल का उपयोग कर सवाल हल करें।
- **समझाएँ:** संख्या बड़ी होने पर कंकड़ के स्थान पर माचिस की तीली का इस्तेमाल ज्यादा आसान है। साथ ही दस के समूह में घटाव करने में आसान है।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट

दहाई/
बण्डल

4

3

3

2

1

1

- शिक्षक घटाव के एक सवाल से शुरुआत करें।
- ❓ **पूछें:** रमन हलवाई के पास 43 लड्डू हैं। 32 लड्डू बिक गए। अब रमन हलवाई के पास कितने लड्डू बचे हैं?
- किसी एक बच्चे को आगे बुलाएं और सवाल हल करने को कहें।
- ❓ **पूछें:** रमन के पास कितने लड्डू थे? रमन ने कितने लड्डू बेच दिए?
- **समझाएँ:** पहले 43 माचिस की तीलियाँ लो। अब 32 माचिस की

तीलियाँ निकाल लो। गिनकर देखो कितनी तीलियाँ बचीं।

❓ **पूछें:** अब कितने लड्डू बच गए?

- 👤 **शिक्षक के लिए निर्देश :** बच्चों को पहले समूह से इकाई को। इसके बाद दहाई को अलग करने को कहें।
- शिक्षक घटाव-चार्ट पर उचित संख्या लिख कर बच्चों को लम्बवत घटाव करना सिखाएँ।
- प्रक्रिया को कई बार दोहराएँ।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट

45 58
-33 -23

- शिक्षक श्यामपट्ट पर लम्बवत घटाव के कुछ सवाल लिखें।
- ❓ एक-एक बच्चों को आगे बुलाकर एक-एक सवाल हल करने को कहें।
- ❓ 45 में 33 घटाव करने पर कौन-सी संख्या मिलेगी?
- ❓ आरिफ के पास 58 अंडे हैं। उसने भाई को 23 अंडे दे दिए। आरिफ के पास कितने अंडे बचे?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-16|2 कराएँ-पृष्ठ 124



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ



कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-16|2 कराएँ-पृष्ठ 102



दो अंकों की संख्याओं को (वस्तु और चित्र के साथ) हासिल के साथ घटाव कर सकें।



संसाधन : कंकड़, माचिस तीली, रबर बैंड।



आवश्यक पूर्व ज्ञान : बच्चे 1 से 99 तक की समझ। घटाव की अवधारणा की समझ।



नये शब्द : हासिल।




सामान्य भूल : बच्चे हासिल की अवधारणा में अक्सर गलती करते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

10 मिनट



- शिक्षक घटाव के रोचक संदर्भ लेकर बच्चों से बातचीत प्रारंभ करें।
- ? **पूछें:** दीपक के पास 34 पतंगें हैं। उसकी दीदी ने उससे 17 पतंगें ले लीं। अब दीपक के पास कितनी पतंगें बचीं?
- बच्चों को सोचने का समय दें। जरूरत पड़ने पर कंकड़/माचिस




तीली उपयोग करने की सलाह दें।
समझाएँ: कंकड़/माचिस तीली की सहायता से बच्चों को समझाएँ कि कैसे एक समूह की वस्तुओं से कुछ वस्तुओं को निकाल कर बची हुई वस्तुओं की संख्या पता करना ही घटाव है।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

20 मिनट



- शिक्षक बच्चों के साथ बैठें और घटाव के एक सवाल के शुरुआत करें।
- ? **पूछें:** अमन के पास 52 तीलियाँ थीं। अमन के 19 तीलियाँ गुम हो गईं। उसके पास कितनी तीलियाँ बची हैं?
- एक बच्चे को आगे बुलाएँ और सवाल हल करने को कहें।
- ? **पूछें:** अमन के पास कितनी तीलियाँ थीं? कितनी तीलियाँ गुम हो गईं?
- **समझाएँ:** 52 तीलियाँ लो। अब 19 तीलियाँ निकाल दो। देखो कितनी



तीलियाँ बचीं?



पूछें: नौ तीलियाँ कैसे कम करेंगे?

शिक्षक के लिए बिन्दु : देखें बच्चे कैसे 19 तीलियाँ कम करते हैं। इकाइयों की संख्या 9 से कम हैं। तो एक दस के बण्डल को खोल कर इकाइयों में बदलने को कहें।



पूछें: अमन के पास कितनी तीलियाँ बची हैं?




● कुछ और बच्चों के साथ इसी प्रकार गतिविधि को आगे बढ़ाएँ।



3. अभ्यास (तुम करो)

10 मिनट



- शिक्षक मेज पर 36 तीलियाँ (तीन दस के बण्डल और 6 खुली) रखें।
- एक-एक कर बच्चों को बुलाएँ और 17 तीलियाँ कम करने को कहें।
- ऐसे और कुछ उदाहरण लें।
- ? **पूछें:** 36 में 17 तीलियाँ कम करने से कितनी तीलियाँ बचीं?
- ? **पूछें:** 54 से 27 तीलियाँ घटाव करने से कितनी तीलियाँ बचेंगी?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-16|3 कराएँ-पृष्ठ 125



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-16|3 कराएँ-पृष्ठ 102




अभ्यास गतिविधि 01 ⌚ 40 मिनट

🌀 दो अंकों की संख्याओं को (वस्तुओं और चित्रों के साथ) बिना हासिल के घटाव कर सकें।



संसाधन

माचिस की तीलियाँ।



- बच्चों के दो-दो समूह बनाकर माचिस की तीलियाँ दें। बच्चों को माचिस की तीलियों के 10-10 के कुछ बण्डल बनाने को कहें।
- कोई भी दो अंकीय संख्या बोलें और उसे बण्डल और खुली तीलियों से प्रदर्शित करने को कहें। उदाहरण के लिए, 36 को 3 बण्डल और 6 खुली तीलियों से दिखाया जा सकता है।
- बच्चों से पूछें— अगर हम इन बण्डल और तीलियों में से 12 हटा दें, तो कितने बण्डल और खुली तीलियाँ बचेंगे?
- समझाएँ— 12 तीलियों का मतलब है 1 बण्डल और 2 खुली तीलियाँ।
- सभी बच्चों को 3 बण्डल और 6 खुली तीलियों में से 1 बण्डल और 2 खुली तीलियाँ हटाने का मौका दें।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- ① अब हमारे पास कितने बण्डल और तीलियाँ बचीं?
- ② 2 बण्डल और 4 खुली तीलियाँ कौन सी संख्या दिखाता है?
- ③ 36 में से 12 घटाव करने पर कितना बचता है?


अभ्यास गतिविधि 02 ⌚ 40 मिनट

🌀 दो अंकों की संख्याओं को लम्बवत रूप में बिना हासिल के घटाव कर सकें।



संसाधन

पर्चियाँ।



- कक्षा के बच्चों को 4 के समूह में बांटें हर समूह में 8 पर्चियाँ दें। 4 ऐसी पर्चियाँ जिस पर 2 अंकीय बिना हासिल वाले घटाव के सवाल लम्बवत रूप से लिखे हों और 4 ऐसी पर्चियाँ जिस पर उनके जवाब लिखे हों।
- बच्चों को समझाएँ आपको सवाल वाली पर्ची पर दिया गया सवाल हल करना है। फिर उसके उत्तर वाली पर्ची ढूँढनी है। सवाल और उत्तर वाली पर्ची का मिलान करके रखना है। जो समूह पहले मिलान करेगा वो विजेता होगा।
- बिना हासिल का घटाव वाला सवाल लम्बवत रूप में लिखकर दिखाएँ। ऊपर बड़ी संख्या लिखें और नीचे छोटी संख्या। समझाएँ— पहले हम इकाई में से इकाई वाला अंक घटाव करते हैं और फिर दहाई में से दहाई वाला अंक हटाते हैं। सवाल हल करके दिखाएँ।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- ① 67 से 13 घटाव करने पर कितना बचता है?
- ② 83 से 40 घटाव करने पर कितना बचता है?


अभ्यास गतिविधि 03 ⌚ 40 मिनट

🌀 दो अंकों की संख्याओं को (वस्तु और चित्र के साथ) हासिल के साथ घटाव कर सकें।



संसाधन

माचिस की तीलियाँ।



- बच्चों के दो-दो समूह बनाकर माचिस की तीलियाँ दें। बच्चों को माचिस की तीलियों के 10-10 के कुछ बण्डल बनाने को कहें।
- कोई भी दो अंकीय संख्या जैसे 36 बोलें और उसे बण्डल व खुली तीलियों से प्रदर्शित करने को कहें।
- अगर हम इन बण्डल और तीलियों में से 19 हटा दें, तो कितने बण्डल और खुली तीलियाँ बचेंगे?
- समझाएँ— 19 तीलियों का मतलब है 1 बण्डल और 9 खुली तीलियाँ।
- हमारे पास 6 खुली तीलियाँ हैं। 6 खुली तीलियों में से 9 खुली तीलियाँ हटाना मुश्किल है, इसलिए हम 1 बण्डल को खोल देंगे। अब हो जायेगा 16 खुली तीलियाँ। 16 तीलियों में से 9 तीलियाँ हटा देंगे। बचेंगी 7 खुली तीलियाँ।
- अब 3 में से 2 बण्डल बचे, हम 2 बण्डल में से 1 बण्डल हटा देंगे। इस तरह हमारे पास बचेगा 1 बण्डल और 7 खुली तीलियाँ यानी 17।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- ① 32 से 17 घटाव करें तो कितना बचेगा?




- दो अंकों की संख्याओं को (वस्तुओं और चित्रों के साथ) बिना हासिल के घटाव कर सकें।
- दो अंकों की संख्याओं को लम्बवत रूप में बिना हासिल के घटाव कर सकें।
- दो अंकों की संख्याओं को (वस्तुओं और चित्रों के साथ) हासिल के साथ घटाव कर सकें।



संसाधन : ब्लॉक्स, स्ट्रा और डोमिनो।

1. प्रक्रिया-1

5 मिनट




- **समझाएँ:** प्रत्येक समूह में जाकर दिये ब्लॉकों/स्ट्रा में से कुछ ब्लॉक/स्ट्रा रख दें।
- अब प्रत्येक समूह में से रखे ब्लॉक/स्ट्रा को 10-10 के बण्डल बनाकर गिनने को कहें तत्पश्चात् कोई दो अंकीय संख्या को बण्डल और खुले ब्लॉक में से गिनकर निकलवायें।
- यदि पहली संख्या के खुले ब्लॉक/स्ट्रा दूसरी संख्या के इकाई से कम है तो एक बण्डल खोल कर खुली ब्लॉक/स्ट्रा में

मिलाने के पश्चात् घटाव करें।

- अब प्रत्येक समूह को 10 और 10 से अधिक वस्तुओं के स्वनिर्मित चित्र अथवा श्यामपट्ट पर चित्र बनाकर हासिल के घटाव की अवधारणा को स्पष्ट करें।
- अब श्यामपट्ट पर की गई हासिल के घटाव की संक्रिया को ब्लॉक/स्ट्रा द्वारा अभ्यास करवायें।
- ध्यान रखें की हर बच्चा इस प्रक्रिया में भाग ले और अगर कोई बच्चा शांत है तो उसे उत्तर देने को प्रोत्साहित करें।

2. प्रक्रिया-2

15 मिनट




- **समझाएँ :** प्रत्येक समूह में जाकर दिये ब्लॉकों/स्ट्रा में से कुछ ब्लॉक/स्ट्रा समूह में रख दें।
- अब प्रत्येक समूह से में रखे ब्लॉक को 10 -10 के बण्डल बनाकर गिनने को कहें तत्पश्चात् कोई दो अंकीय संख्या को बण्डल और खुले ब्लॉक में से गिनकर निकलवायें।
- अब प्रत्येक समूह को 10 और 10 से अधिक वस्तुओं के स्वनिर्मित चित्र

अथवा श्यामपट्ट पर चित्र बनाकर बिना हासिल के घटाव की अवधारणा को स्पष्ट करें।

- अब श्यामपट्ट पर की गई बिना हासिल के घटाव की संक्रिया को ब्लॉक द्वारा अभ्यास करवायें।
- ध्यान रखें की हर बच्चा इस प्रक्रिया में भाग ले और अगर कोई बच्चा शांत है तो उसे उत्तर देने को प्रोत्साहित करें।

3. प्रक्रिया-3

20 मिनट



- **समझाएँ :** समूह से किसी डोमिनो पर लिखी संख्या को कार्ड के पीछे बनी बिंदियों को गिनने को कहें। समूह को एक-दूसरी दो अंक की संख्या कार्ड के पीछे बनी बिंदी के बराबर मात्रा पहले कार्ड से प्राप्त संख्या में से घटाव कर प्राप्त संख्या का डोमिनो कार्ड ढूँढने को कहें।
- अब इसी प्रकार 2 दो अंकीय संख्याओं के डॉट कार्ड को ऊपर-नीचे रखकर पहली संख्या के

बिंदियों में से दूसरी संख्या के बिंदियों घटाव करने को कहें और प्राप्त संख्या नीचे लिखें।

- छात्रों को अब दो अंकीय संख्याओं को ऊपर-नीचे लिखकर घटाव करना समझाएँ।
- छात्रों को लम्बवत घटाव का अभ्यास समूह में करने को प्रेरित करें।
- ध्यान रखें कि हर बच्चा इस प्रक्रिया में भाग ले और अगर कोई बच्चा शांत है तो उसे उत्तर देने को प्रोत्साहित करें।




- दो अंकों की संख्याओं को (वस्तुओं और चित्रों के साथ) बिना हासिल के घटाव कर सकें।
- दो अंकों की संख्याओं को लम्बवत रूप में बिना हासिल के घटाव कर सकें।
- दो अंकों की संख्याओं को (वस्तुओं और चित्रों के साथ) हासिल के साथ घटाव कर सकें।



संसाधन : खेल मुद्रा।

1. प्रक्रिया-1

20 मिनट



- कक्षा के बच्चों को 2-2 के समूह में विभाजित करें।
- हर समूह को 20 एक के सिक्के व 5 दस के नोट दें।
- 📖 **समझाएँ:**
- शिक्षक बच्चों को दैनिक जीवन के संदर्भ पर समस्या दें, और एक उदाहरण के साथ समझाएँ कि कैसे खेल मुद्रा की सहायता से इसे हल किया जा सकता है।
- जैसे— सहदेव के पास 25 रुपये थे, उसने 13 रुपये का रंग का पैकेट ले लिया तो उसके पास कितने रुपये बच गए?
- शिक्षक 25 रुपये को खेल मुद्रा की सहायता से दर्शा कर समझाएँ।
- दो दस के नोट व 5 एक के सिक्के,

फिर इसमें से 13 को निकालकर दिखाएँ, 12 शेष रहे। एक दस का नोट व तीन एक सिक्के हटाने पर एक दस का नोट और दो एक के सिक्के बचे।


- शिक्षक बच्चों को ऐसे संदर्भ दें जिसे बच्चे खेल मुद्रा की सहायता से हल कर सकें।
- प्रक्रिया को लम्बवत रूप से भी हल करके बच्चों को समझाएँ। $25-13=12$ बच्चे भी इसी तरह हल करके दिखाएंगे।

📖 **पूछें:**

- ❓ हम इस तरह के संदर्भों में घटाव करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, जोड़ की नहीं— ऐसा क्यों?
- ❓ 25 रुपये को खेल मुद्रा से कैसे दिखा सकते हैं?
- ❓ क्या आप ऐसा कोई संदर्भ बना सकते हैं?

2. प्रक्रिया-2

20 मिनट



- **समझाएँ:** शिक्षक दैनिक संदर्भों की सहायता से अब ऐसी समस्याएँ बच्चों से करवाएँगे, जिसमें पुनः समूहन की आवश्यकता हो।
- उदाहरण के लिए रानी के पास 30 रुपये थे, उसने 13 रुपये के गुब्बारे खरीद लिए, अब रानी के पास कितने रुपये शेष बचे?
- शिक्षक बच्चों को खेल मुद्रा की सहायता से इसे समझाएँ, तीस के लिए दस के तीन नोट, इसमें से 13 निकालने के लिए एक दस के नोट को दस सिक्के से बदलना होगा, अब दो दस के नोट व 10 एक के सिक्के में से 13 को निकाल लेंगे।
- एक दस का नोट और तीन सिक्के निकालने के पश्चात् एक दस का

नोट और साथ एक के सिक्के कुल 17 रुपये शेष बचेंगे।

- शिक्षक बच्चों को और ऐसे संदर्भ देंगे जिसे बच्चे खेल मुद्रा की सहायता से हल करेंगे।

📖 **पूछें:**

- ❓ 30 रुपये में कितने नोट व सिक्के होंगे? 13 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
- बच्चों को थोड़ा सोचने का समय दें और उन्हें स्वयं इस निष्कर्ष पर आने का अवसर दें कि 10 का एक नोट को बदलकर 1 के दस सिक्के लें।
- बच्चों को भी ऐसी उनके दैनिक जीवन की समस्या को कक्षा में चर्चा करने व हल करने के लिए प्रोत्साहित करें।



संसाधन : माचिस तीली, रबर बैंड, घटाव-चार्ट।



आवश्यक पूर्व ज्ञान : बच्चे 1 से 99 तक की समझ। घटाव की अवधारणा की समझ।



नये शब्द : हासिल।




सामान्य भूल : बच्चे अक्सर हासिल को भूल जाते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक बच्चों को रोचक संदर्भ में दस के गुणजों में घटाव का एक सवाल दें।
- ❓ **पूछें:** मनोज के पास 90 बकरियाँ हैं। वह 40 बकरियों को बाजार में बेच आया। अब उसके कितनी बकरियाँ हैं?
- बच्चों को अपने स्तर से सवाल हल

करने दें।

- शिक्षक माचिस की तीली के दस के बण्डल का उपयोग कर सवाल हल करें।
- **समझाएँ:** संख्या बड़ी होने पर कंकड़ के स्थान पर माचिस की तीली का इस्तेमाल ज्यादा आसान है। साथ ही दस के समूह में घटाव करना आसान है।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट

दहाई/
बण्डल

4

5

—

2

इकाई/
खुले

5

9

4

- शिक्षक घटाव के एक सवाल से शुरुआत करें।
- ❓ **पूछें:** रमन हलवाई के पास 55 लड्डू हैं। उसने 29 लड्डू बेच दिए। अब उसके पास कितने लड्डू बचे?
- किसी एक बच्चे को आगे बुलाएं और सवाल हल करने को कहें।
- बच्चे को अपने स्तर से सवाल को हल करने दें।
- **समझाएँ:** पहले 55 माचिस की तीलियाँ लो। अब 29 माचिस की

तीलियाँ कम करनी हैं। इकाइयों की संख्या 9 से कम है। इसलिए दहाई का एक बण्डल खोलकर इकाई के घर में रखते हुए हासिल की अवधारणा समझाएँ।

- शिक्षक घटाव-चार्ट पर उचित संख्या लिख कर बच्चों को लम्बवत घटाव करना सिखाएँ।
- प्रक्रिया को कई बार दोहराएँ।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट

45 54
—36 —27

- शिक्षक श्यामपट्ट पर लम्बवत घटाव के हासिल वाले कुछ सवाल लिखें।
- एक-एक बच्चों को आगे बुलाकर एक-एक सवाल हल करने को कहें।
- ❓ 45 में 36 घटाव करने पर कौन सी संख्या मिलेगी?
- ❓ आरिफ के पास 54 अंडे हैं। उसने अपने भाई को 27 अंडे दे दिए। आरिफ के पास कितने अंडे बचे?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-17|1 कराएँ-पृष्ठ 130



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ



कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:

संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-17|1 कराएँ-पृष्ठ 108

📦 संसाधन : कंकड़।


⏪ आवश्यक पूर्व ज्ञान : समूह बनाने की समझ, समूह की संख्या व समूह में वस्तुओं की संख्या। 1 से 99 तक संख्या ज्ञान और जोड़।

🎧 नये शब्द : बार-बार जोड़ना।

⚠ सामान्य भूल : बच्चे यह नहीं समझते कि बार-बार जोड़ करना ही गुणा होता है।

1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक प्रत्येक बच्चे को कुछ कंकड़ दें और कक्षा की शुरुआत एक सवाल से करें।
- ❓ पूछें : छोटा भीम नाश्ते, दिन के खाने और रात के खाने में दो-दो लड्डू खाता है? वह पूरे दिन में कितने लड्डू खाता है?
- बच्चों को सवाल हल करने के लिए

कंकड़ इस्तेमाल करने की सलाह दें। फिर बच्चों से उत्तर लें।

- शिक्षक कंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए दो-दो कंकड़ों के तीन समूह बनाएँ और बच्चों को दिखाएँ कि कुल संख्या "6" है।

2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट



$$8 + 8 + 8 = 24$$


- शिक्षक एक पेड़ का चित्र बनाएँ, जिसमें तीन शाखाएँ हों और हर शाखा में आठ पत्तियाँ हों।
- ❓ पूछें : कुल कितनी पत्तियाँ हैं?
- समझाएँ : आप 8 को 3 बार जोड़कर कुल पत्तियों की संख्या पता लगा सकते हैं और उसे ऐसे "8+8+8 = 24" लिख सकते हैं।
- अब चित्र में 3 की जगह 4 शाखाएँ और हर शाखा में 8 की जगह 7 पत्तियाँ बना दीजिए।

- ❓ पूछें : कुल कितनी शाखाएँ हैं? हर शाखा में कितनी पत्तियाँ हैं? कौन सी संख्या को कितनी बार जोड़ना होगा? कुल पत्तियों की संख्या क्या है?

👨 शिक्षक के लिए बिंदु: ध्यान दें कि बच्चे समूह में सभी वस्तुओं को गिनकर उत्तर देने की जगह बार-बार जोड़ का इस्तेमाल करें।

3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक 2 वृत्त में 6-6 बॉक्स बनाएँ। इसके ऊपर बच्चों से कुछ सवाल पूछें।
- ❓ कितने बॉक्स हैं?
- ❓ प्रत्येक वृत्त में कितने बॉक्स हैं?
- ❓ कौन-सी संख्या को कितनी बार जोड़ना होगा?
- ❓ कुल कितने वृत्त हैं?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-17|2 कराएँ-पृष्ठ 131



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-17|2 कराएँ-पृष्ठ 108



🔄 गुणा की अवधारणा को समूह व समूह में वस्तुओं की संख्या (एक अंक) के संदर्भ में समझ सकें।

📦 संसाधन : टाइल्स।


⏪ आवश्यक पूर्व ज्ञान : 1 से 99 तक की संख्या की समझ।

🗣️ नये शब्द : कितने समूह, समूह में कितनी वस्तुएँ।

❗ सामान्य भूल : कितने समूह हैं और प्रत्येक समूह में कितनी वस्तुएँ हैं? यह बच्चे आसानी से नहीं समझ पाते हैं।

🕒 1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट




- शिक्षक कक्षा की शुरुआत जोड़े की अवधारणा से करें। उदाहरण : साइकिल के पहिए, मुर्गे के पैर और इंसानों की आँख आदि।
- ❓ पूछें: दिए गए उदाहरणों में क्या समानता है?
- बच्चों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करें।

- समझाएँ : दिए गए सारे उदाहरण जोड़ी में है।
- ❓ पूछें : ऐसे कुछ वस्तुओं के उदाहरण दीजिए जो चार-चार के समूह में आती हों।
- 👉 शिक्षक के लिए बिंदु : चर्चा के दौरान समूह और एक समूह में कितनी वस्तुएँ हैं, इस पर जोर दें।

🕒 2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट




- शिक्षक श्यामपट्ट पर 6 जोड़ी मोजों के चित्र बनाएँ।
- समझाएँ : यहाँ मोजों के 6 जोड़े हैं। हर जोड़ी में दो मोजे हैं। हम देख सकते हैं कि समूह की संख्या छह है। और प्रत्येक समूह में वस्तुओं की संख्या दो है। कुल वस्तुओं की संख्या पता करने के लिए दो को छह बार जोड़ना होगा।
- ❓ पूछें: कुल मोजों की संख्या कितनी है?

- शिक्षक श्यामपट्ट पर 7 प्लेट बनाएँ और हर एक प्लेट में 3-3 लड्डू बनाएँ।
- ❓ पूछें : कितने समूह हैं? प्रत्येक समूह में कितनी वस्तुएँ हैं? कुल वस्तुओं की संख्या पता करने के लिए कौन-सी संख्या को कितनी बार जोड़ना होगा?
- गतिविधि को और कुछ उदाहरणों के साथ दोहराएँ।

🕒 3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक फर्श पर तीन-तीन टाइल्स के नौ समूह बनाएँ।
- बच्चों से सवाल पूछें और कॉपी में उत्तर लिखने को बोलें।
- ❓ टाइल्स के कितने समूह हैं? प्रत्येक समूह में कितने टाइल्स हैं?
- ❓ कुल टाइल्स की संख्या पता करने के लिए कौन-सी संख्या को कितनी बार जोड़ना होगा?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-17|3 कराएँ-पृष्ठ 132



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-17|3 कराएँ-पृष्ठ 108




अभ्यास गतिविधि 01 ⌚ 40 मिनट

🌀 दो अंकों की संख्याओं को लम्बवत रूप में हासिल के साथ घटाव कर सकें।



संसाधन

कुछ खुली माचिस की तीलियाँ और कुछ 10-10 के बंडल।



- सम्पूर्ण कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करें।
- बच्चों के लिए सामने घटाव का एक सवाल रखें (उदाहरण- 33-16)।
- प्रश्न के अनुसार बच्चों के समूह को पर्याप्त माचिस की तीलियाँ और बण्डल दें।
- बच्चों को घटाव का सवाल हल करने के लिए पर्याप्त समय दें।
- बच्चों से पूछें, उनमें (33 में) से कितनी तीलियाँ कम करनी हैं। जितनी तीलियाँ कम करनी हैं, उन्हें निकालकर अलग करें।
- बच्चे तीलियाँ नहीं निकाल सके, तो सवाल पूछें कि इतनी (16) तीलियाँ कम करने के लिए कितने खुले और दस के बण्डल चाहिए? अगर इकाइयाँ पर्याप्त नहीं है तो क्या करें? क्या इतने बण्डल पर्याप्त हैं?
- बण्डल और तीलियों से सवाल हल करने के बाद बच्चों को लम्बवत रूप से सवाल लिखकर हल करने के लिए कहें।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- 🌀 हल करें— **80**
-67


अभ्यास गतिविधि 02 ⌚ 40 मिनट

🌀 गुणा की अवधारणा को बार-बार जोड़ (एक अंक) के संदर्भ में समझ सकें।



संसाधन

कुछ नहीं।



- बच्चों को एक गोल घेरे में खड़ा करें।
- बच्चों को निर्देश दें : 'आपको गोल घेरे में घूमते हुए बोलना है 'आप चाहें जितने', 'हम दें उतने'। जब मैं एक संख्या बोलूँगा तो आपको रुकना है और उतने के समूह बनाने हैं। जैसे-अगर मैंने कहा 4, तो आपको 4-4 के समूह में खड़े होना है।'
- बच्चों के साथ यह खेल खेलें।
- जब बच्चे 4-4 के समूह में खड़े हो जायें, तब उनसे पूछें 4-4 के कितने समूह हैं? जितने समूह हैं, उन सभी समूहों में कुल कितने बच्चे हैं? जैसे- अगर 4-4 के 10 समूह है तो कुल बच्चे हुए 40। कुल बच्चों की संख्या पता करने के लिए 4 को 10 बार जोड़ना होगा। 10 बार 4 को जोड़ा तो हुआ 40।
- इस प्रकार अन्य संख्या के साथ खेल आगे बढ़ाएँ।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- 🌀 7 को 3 बार जोड़ने पर कितना आएगा?


अभ्यास गतिविधि 03 ⌚ 40 मिनट

🌀 गुण की अवधारणा को समूह और समूह में वस्तुओं की संख्या (एक अंक) के संदर्भ में



संसाधन

माचिस की तीलियाँ।



- बच्चों के साथ गोल घेरे में बैठें। अपने पास माचिस की तीलियाँ रखें।
- इन तीलियों से कुछ समूह बनाएँ। उदाहरण- तीन-तीन तीलियों के 5 समूह बनाएँ।
- अब बच्चे से प्रश्न करें कि यहाँ कितने समूह हैं? प्रत्येक समूह में कितनी तीलियाँ हैं? कुल कितनी तीलियाँ हैं?
- बच्चों को जवाब देने के लिए प्रेरित करें। फिर समझाएँ- यहाँ 5 समूह हैं। हर समूह में 3 तीलियाँ हैं। और यह कुल 15 तीलियाँ हैं।
- इसी प्रकार तीलियों के अलग-अलग समूह बनाकर दिखाएं और इसी तरह सवाल पूछें।
- इसके बाद शिक्षक बच्चों को बारी-बारी से आगे बुलाएं और समूह बनाने को कहें, जैसे-6 वस्तुओं के 3 तीन समूह, 2 वस्तुओं के 4 समूह आदि।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- 🌀 6 वस्तुओं को 3 समूह हैं, तो कुल कितनी वस्तुएँ हैं?
🌀 2 वस्तुओं को 4 समूह हैं, तो कुल कितनी वस्तुएँ हैं?



🎯 एक अंक की संख्याओं को गुणा कर सकें।



संसाधन : कंकड़, झाड़ू की सीकें।



आवश्यक पूर्व ज्ञान : 1 से 99 तक की संख्या समझ और जोड़ की आधारणा।



नये शब्द : गुणा।



सामान्य भूल : कोई नहीं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट

3 बार 5 बिस्कुट = 15 बिस्कुट

3 गुणा 5 = 15

3 × 5 = 15

- शिक्षक बच्चों के साथ बैठें। कोई रोचक संदर्भ लेते हुए एक अंकीय गुणा का एक सवाल दें।
- ❓ पूछें: बिस्कुट के किसी पैकेट में 5 बिस्कुट आते हैं। तो ऐसे 3 पैकेट में कितने बिस्कुट होंगे?
- बच्चों को सवाल हल करने दें।
- समझाएँ— शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाएँ।

- इसी प्रकार कुछ और सवालों पर बातचीत करें।
- शिक्षक के लिए निर्देश : बच्चों को गुणा के चिह्न से परिचय कराएँ।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट



3 × 2 = 6

- शिक्षक बच्चों के साथ बैठें। कागज पर एक-अंकीय गुणा का एक सवाल लिखें।
- ❓ पूछें : 4 × 5 =
- समझाएँ—बच्चों को समझाते हुए चार बार पांच-पांच कंकड़ों का समूह बनाएँ। नीचे लिखें 5 + 5 + 5 + 5 = 20। अब एक-एक कर बच्चों को बुलाएँ और एक अंकीय गुणा का एक सवाल लिखें।
- बच्चों को पर्याप्त समय दें और मनकों

की सहायता से सवाल हल करने दें। इस प्रकार गतिविधि को दोहराएँ। अब एक और सवाल कागज पर लिखें।

❓ पूछें : 3 × 2 =

चित्र के अनुसार झाड़ू की सीकों को रखें। बच्चों को उन बिन्दुओं को गिन कर दिखाएँ जहाँ दो सीकें मिल रही हैं। समझाएँ – 3 बार 2 हुए 6।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट

8 × 9 = 5 × 6 =

पेंसिल के चार डब्बे हैं।
हर डब्बे में 6 पेंसिल है।
कुल कितने पेंसिल हैं?

- शिक्षक श्यामपट्ट पर एक अंकीय गुणा के कुछ सवाल लिखें।
- एक-एक कर बच्चों को बुलाएँ और एक-एक सवाल हल करने को कहें।
- ❓ 8 × 9 = ?
- ❓ 5 × 6 कितना होता है?
- ❓ पेंसिल के चार डब्बे हैं। हर डब्बे में 6 पेंसिल हैं। कुल कितनी पेंसिल हैं?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?

हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक
सप्ताह-18|1 कराएँ-पृष्ठ 137

नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ



कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:

संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि
सप्ताह-18|1 कराएँ-पृष्ठ 112



🔄 वस्तुओं (9 तक) को बराबर बाँट सकें।



संसाधन : कंकड़।



आवश्यक पूर्व ज्ञान : 1 से 99 तक की संख्या समझ।



नये शब्द : बराबर बाँटना।



सामान्य भूल : बच्चे वस्तुओं को बाँट देते हैं। परन्तु बराबर है या नहीं यह पता नहीं कर पाते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट




- शिक्षक कोई रोचक संदर्भ लेते हुए बराबर बाँटने का एक सवाल बच्चों के सामने रखें।
- ? पूछें: आठ केलों को डेविड, शालू, मंगल और हीरा में बराबर कैसे बाटेंगे?
- किन्ही चार बच्चों को आगे बुलाएँ और आठ कंकड़ों को आपस में बराबर बाँटने को कहें।

- बच्चों को पर्याप्त समय दें।
- समझाएँ : अब शिक्षक सभी बच्चों को समझते हुए आठ कंकड़ों को चार बच्चों में बाँटें।
- कुछ और उदाहरण के साथ प्रक्रिया को दोहराएँ।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट



- शिक्षक बच्चों के साथ बैठें। किन्ही चार बच्चों को आगे बुलाएँ।
- ? पूछें: 44 मिठाइयों को 4 हलवाई आपस में कैसे बराबर बाँटेंगे?
- बच्चों को सवाल हल करने दें।
- 📖 शिक्षक के लिए निर्देश : बच्चों को कंकड़ का इस्तेमाल करने दें। जरूरत पड़ने पर बच्चे की मदद करें।
- समझाएँ : शिक्षक 44 कंकड़ों को चार जगह बाँट कर दिखाएं।
- इसी प्रकार प्रक्रिया को कई बार

- दोहराएँ।
- शिक्षक बराबर बाँटने पर एक और सवाल करें।
- ? पूछें: 44 गन्नों को 4 किसान आपस में कैसे बराबर बाँटेंगे?
- 📖 शिक्षक के लिए निर्देश : इस बार बच्चों को 44 तीलियाँ दें। (4 दस के बण्डल और चार खुले।)
- समझाएँ : 44 तीलियों को बिना खोले बाँटना, 44 कंकड़ों को बाँटने में कैसे आसान है।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट

24 आमों को तीन बच्चों में बराबर बाँटो।

- शिक्षक श्यामपट्ट पर कुछ सवाल दें।
- बच्चों को सवालों के हल कॉपी में चित्र बनाकर करने को कहें।
- ? 24 आमों को तीन बच्चों में बराबर बाँटो।
- ? 48 कंचों को चार लड़कियों में बराबर बाँटो।

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-18|2 कराएँ-पृष्ठ 138



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ



कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:

संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-18|2 कराएँ-पृष्ठ 112



संसाधन : कंकड़।



आवश्यक पूर्व ज्ञान :



नये शब्द : भाग, बार-बार घटाव।




सामान्य भूल : बच्चे यह नहीं समझते कि बार-बार घटाव ही भाग है।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक भाग का एक सवाल बच्चों के सामने रखें।
- ❓ पूछें: एक दुकानदार के पास 21 मोमबत्तियाँ हैं। 7 मोमबत्तियों का एक पैकेट बनाना है, तो कितने पैकेट बनेंगे?
- बच्चों को सवाल हल करने का पर्याप्त समय दें।
- 🗉 शिक्षक के लिए निर्देश : बच्चे

माचिस की तीली या कंकड़ इस्तेमाल करना चाहें तो करने दें।

- **समझाएँ** : 21 खुली तीलियाँ रखें। 7 तीलियाँ अलग कर एक पैकेट बनाएँ। प्रक्रिया को दो बार और दोहराएँ। बच्चों को बताएँ कि हम तीन पैकेट बना सकते हैं।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट

$$24 - 4 = 20$$

$$20 - 4 = 16$$

$$16 - 4 = 12$$

$$12 - 4 = 8$$

$$8 - 4 = 4$$

$$4 - 4 = 0$$

- शिक्षक बच्चों के साथ बैठें, पास में कुछ मनके और कागज रखें।
- ❓ पूछें : एक डिब्बे में 24 मिठाइयाँ हैं। कक्षा के प्रत्येक बच्चे को चार-चार मिठाइयाँ देनी हैं, तो कितने बच्चों को मिठाइयाँ मिलेगी?
- एक बच्चे को आगे बुलाएँ और कंकड़ का इस्तेमाल कर सवाल हल करने को कहें।
- अब सभी बच्चों को समझाते हुए सवाल हल करें।

- **समझाएँ** : कागज में एक डिब्बा बनाएँ, उसके अन्दर 24 कंकड़ रखें। अब चार कंकड़ उठाएँ और एक बच्चे को दें। कागज पर लिखें "24- 4= 20"। बच्चों को बताएँ कि अब 20 मिठाइयाँ बची हैं। फिर से 4 कंकड़ उठाएँ और किसी एक बच्चे को दें। बीस में चार गए तो बचे 16 बोलते हुए लिखें "20-4= 16"। इसी प्रकार आगे बाँटें।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक बच्चों से कुछ सवाल करें। बच्चों को सवाल के हल कॉपी में करने को कहें।
- ❓ एक दुकानदार के पास 28 मोमबत्तियाँ हैं। 4 मोमबत्तियों का एक पैकेट बनाना है, तो कितने पैकेट बनेंगे?
- ❓ एक डिब्बे में 44 पेंसिलें हैं। कक्षा के प्रत्येक बच्चे को चार-चार पेंसिलें देनी हैं तो कितने बच्चों को पेंसिलें मिलेंगी?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-18|3 कराएँ-पृष्ठ 139



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ



कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-18|3 कराएँ-पृष्ठ 112




अभ्यास गतिविधि 01 ⌚ 40 मिनट

🌀 एक अंक की संख्याओं को गुणा कर सकें।



संसाधन
तीलियों के समूह।



- बच्चों को दो-दो के समूह में विभाजित करें। सभी समूहों को कुछ तीलियाँ दें।
- जिस संख्या का गुणा करना है, इतनी संख्या में तीलियों के समूह बनाकर रख ले। जैसे: 3 का गुणा सिखाना है, 3-3 तीलियों के गुच्छे बनाकर रखें। सभी समूहों को तीलियों के गुच्छे दें।
- बच्चों से पूछें: 3 तीलियों के 2 गुच्छे में कुल कितनी तीलियाँ होंगी?
- बच्चे तीलियाँ गिनकर कुल संख्या पता कर सकते हैं।
- समझाएँ : यह 2 गुच्छे हैं। इसमें 2 बार 3 तीलियाँ आ रही हैं। इसलिए इसे $2 \times 3 = 6$ लिखा जा सकता है। श्यामपट्ट पर लिखकर उनका परिचय के चिह्न से भी कराएँ।
- अब 3 गुच्छे लें, यही प्रक्रिया करें।

बच्चों के लिए प्रश्न:

🌀 हल करें—

$$4 \times 3 = \underline{\quad}$$


$$7 \times 4 = \underline{\quad}$$

अभ्यास गतिविधि 74 ⌚ 40 मिनट

🌀 वस्तुओं को बराबर बाँट सकें।



संसाधन
कंचे।



- बच्चों को कुछ कंचे दिखाते हुए बोलें यह मेरे पास 30 कंचे हैं। इन कंचों को 5 बच्चे आपस में बराबर कैसे बाँटेंगे?
- कक्षा में किन्हीं पाँच बच्चों को आगे बुलाएँ और उनमें से किसी एक बच्चे को 30 कंचे दें और उन्हें अपने 5 साथियों को देने को कहें। यह भी बताएँ कि सभी को बराबर-बराबर कंचे देना है।
- पहले पाँचों साथियों को एक-एक कंचे बाँटने को कहें। फिर यही प्रक्रिया तब तक दोहराने को कहें, जब तक उसके पास कंचे खत्म न हो जाए।
- बच्चों से सवाल करें कि 30 कंचों को 5 लोगों में बाँटा तो हर एक बच्चे को कितने कंचे मिले?
- इसी प्रकार कुछ और सवाल का अभ्यास कराएँ।

बच्चों के लिए प्रश्न:

🌀 36 कंचों को 4 लोगों में बराबर बाँटें तो हर एक को कितने कंचे मिलेंगे?


🌀 40 कंचों को 8 लोगों में बराबर-बराबर बाँटो?

अभ्यास गतिविधि 75 ⌚ 40 मिनट

🌀 भाग की अवधारणा को बार-बार घटाव (एक अंक) के संदर्भ में समझ सकें।



संसाधन
ब्लॉक्स।



- बच्चों के 12 ब्लॉक्स दिखाते हुए पूछें कि अगर इन्हें 4 बच्चों में बराबर बाँटना है तो कैसे बाँटेंगे।
- पहले चार साथियों को एक-एक ब्लॉक्स बाँटने को कहें। समझाएँ 12 कंचों में से 4 कम हो गए बचे 8। यानी $12 - 4 = 8$
- फिर एक-एक ब्लॉक्स और बाँटने को कहें। अब 8 में से 4 गए, बचे 4। यानी $8 - 4 = 4$
- फिर एक-एक ब्लॉक्स और बाँटने को कहें। अब 4 में से 4 गए, बचे 0। यानी $4 - 4 = 0$
- बच्चों से चर्चा करें कि 12 में से 4 को 3 बार घटाव किया तो शेष शून्य आया।
- समझाएँ कि किसी संख्या में से एक ही संख्या को बार-बार घटाव करने की संक्षिप्त प्रक्रिया को भाग कहते हैं।
- उनका परिचय भाग के चिह्न से भी कराएँ $12 \div 4$

बच्चों के लिए प्रश्न:

🌀 हल करें—

$$9 \div 3 = \underline{\quad}$$

$$10 \div 2 = \underline{\quad}$$



संसाधन : कंकड़। माचिस
तीली।



आवश्यक पूर्व ज्ञान : 1 से 99 तक की
संख्या समझ और घटाव की अवधारणा।



नये शब्द : भाग।



सामान्य भूल : कोई भूल नहीं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट




- शिक्षक बच्चों के साथ बैठें। कुछ तीलियाँ और एक कागज साथ रखें। किसी एक बच्चों को आगे बुलाएँ।
- **पूछें** : 9 मोमबत्तियों को अगर तीन पैकेटों में बराबर-बराबर रखना है। हर पैकेट में कितनी मोमबत्तियाँ होंगी?
- बच्चों को पर्याप्त समय दें और तीलियों का इस्तेमाल करने का

- सुझाव दें।
- **समझाएँ** : 9 तीलियाँ रखें। कागज पर तीन बॉक्स बनाएँ। एक-एक कर 9 तीलियों को बाँट दें।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट



- शिक्षक बच्चों के साथ बैठें। कुछ कंकड़ और एक कागज साथ रखें। किसी एक बच्चों को आगे बुलाएँ।
- **पूछें** : 8 लड्डुओं को 4 प्लेट पर बराबर-बराबर रखें तो एक प्लेट पर कितने लड्डु होंगे?
- बच्चों को पर्याप्त समय दें और कंकड़ का इस्तेमाल करने का सुझाव दें।
- अब शिक्षक कक्षा के बच्चों को समझाते हुए सवाल को हल करें।
- **समझाएँ** : 8 कंकड़ रखें। कागज पर चार

- प्लेट बनाएँ। एक-एक कर चार प्लेटों पर 8 कंकड़ों को बाँट दें।
- "8 लड्डुओं को बराबर बाँटा 4 प्लेटों में तो एक प्लेट में आए 2 लड्डु।"
- 8 बराबर बाँटा 4 में तो एक को मिला 2
- $8 \div 4 = 2$
- चारों समूह को देखते हुए कहें। "दो-दो लड्डु के चार समूह। कुल हुए 8 लड्डु।" मतलब 4 बार 2 बराबर 8
- $4 \times 2 = 8$
- इस प्रकार कुछ और सवालों के साथ प्रक्रिया को दोहराएँ।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट

$$6 \div 3 = ?$$

$$8 \div 4 = ?$$

$$4 \div 2 = ?$$

- शिक्षक बच्चों के सामने भाग के कुछ सवाल रखें।
- सभी बच्चे अपनी-अपनी कॉपी में चित्र/तीली की सहायता से सवाल हल करेंगे।

- ? $6 \div 3 = ?$
- ? $8 \div 4 = ?$
- ? $4 \div 2 = ?$

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक
सप्ताह-19 |1 कराएँ-पृष्ठ 144



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ



कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि
सप्ताह-19 |1 कराएँ-पृष्ठ 116



संसाधन : पेंसिल, पेन, सिक्का, चूड़ी, छड़ी और रस्सी।
आकार-परिवार।



आवश्यक पूर्व ज्ञान : बच्चे अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानते हैं।



नये शब्द : वक्र, तिकोन, गोला, वर्ग व आयत।




सामान्य भूल : बच्चे आकृतियों को अलग-अलग अभिविन्यास में नहीं पहचान पाते हैं।



1. परिचय (मैं करूँ)

10 मिनट



● शिक्षक कक्षा की शुरुआत इस कविता से करें।
समोसे-पराठे कोने वाले, रोटी-पूड़ी होती गोल।
बिस्कुट में होते छोटे कोने, पर कुछ बिस्कुट होते गोल।।
भाँति-भाँति की अजब वस्तुएं, कितने अलग-अलग आकार।
कोनों के कारण हम सीखें, होते

कितने भिन्न प्रकार।।
कविता में उक्त संसाधनों के चित्र श्यामपट्ट पर बनाएँ।



पूछें: कौन सी वस्तु सीधी है और कौन सी घुमावदार? किस वस्तु में कोने होते हैं?




शिक्षक के लिए बिन्दु : ऐसे और भी परिवेश की वस्तुओं के उदाहरण लेकर चर्चा करें।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

20 मिनट



● शिक्षक आकार-परिवार से अलग-अलग आकार के त्रिभुजाकार आकृति छाँटकर बच्चों को दें और अपनी कॉपी में ट्रेस करने को कहें।
? **पूछें:** क्या सभी आकृति एक जैसी हैं या अलग-अलग? इस आकृति में कितनी सीधी रेखा हैं?
● **समझाएँ:** सभी आकृति एक जैसी हैं। इसे त्रिभुज कहते हैं। आपने परिवेश से कुछ उदाहरण भी दें। बच्चों को भुजा और कोने भी

समझाएँ।



शिक्षक के लिए बिन्दु : इसी प्रकार वर्ग आयत और वृत्त पर बातचीत करें।



● अब शिक्षक माचिस की तीलियों से आकृति बनाएँ।



● बच्चे को तीली से वही आकृति बनाने को कहें।



? **पूछें:** इस आकृति का क्या नाम है? इस आकृति में कितनी रेखाएँ हैं? इस आकृति में कितने कोने हैं?




● कुछ और बच्चों के साथ प्रक्रिया को दोहराएँ।



3. अभ्यास (तुम करो)

10 मिनट



● शिक्षक श्यामपट्ट पर यह चित्र बनाएँ। बने हुए चित्रों के ऊपर बच्चों से सवाल करें।
? **पूछें:** पहला आकृति का नाम क्या है?
? अपने परिवेश से एक उदाहरण दो जो ऐसे दिखता है?
? तीसरे वाले आकृति में कितनी रेखाएँ और कोने हैं?
? दूसरी आकृति का नाम क्या है? अपने परिवेश से एक उदाहरण दो जो ऐसे दिखता है?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-19|2 कराएँ-पृष्ठ 145



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ



कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-19|2 कराएँ-पृष्ठ 116



वस्तुओं की विशेषताएँ जैसे सरकना और लुढ़कना को पहचान सकें।



संसाधन : गेंद, डस्टर, गुब्बारे, किताब और लकड़ी की बनी त्रि-विमीय आकृति (ठोस आकृतियाँ)।



आवश्यक पूर्व ज्ञान : बच्चे अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानते हैं।



नये शब्द : घन, घनाभ, बेलन और गोला।




सामान्य भूल : कोई नहीं।



1. परिचय (मैं करूँ)

10 मिनट



- शिक्षक किताब की मदद से एक फिसल पट्टी बनाएँ।
- **पूछें:** बच्चे लुढ़कने और खिसकने/फिसलने में क्या अंतर समझते हैं?
- बच्चों के अनुभवों को सुनें और फिर समझाएँ।
- एक-एक बच्चे को बुलाएँ।



पूछें: यह लुढ़केगा या सरकेगा?

- अब वस्तु को पट्टी पर रखने को कहें।
- इसी प्रकार गतिविधि को आगे बढ़ाएँ।
- अंत में किसी एक बच्चों को सभी वस्तुओं को दो समूह में वर्गीकृत करने को कहें।
- **समझाएँ:** बच्चों को वक्र पृष्ठ और समतल पृष्ठ में अंतर समझाएँ।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

20 मिनट




- शिक्षक कुछ वस्तुएं इकट्ठा करें। जैसे: गेंद, फुटबॉल, गुब्बारे, नींबू, पाइप, मोमबत्ती, बोटल, ग्लास, पासा, ईंटें आदि। अब श्यामपट्ट पर एक बेलन, गोला, शंकु और एक घनाभ का चित्र बनाएँ।
- बच्चों को बारी-बारी से बुलाकर इकट्ठा की गई वस्तुओं में से कोई एक वस्तु उठाने को कहें।
- **पूछें:** वस्तु का आकार चार्ट पर बने किस आकृति से मेल खाता है?

- **समझाएँ:** बच्चों द्वारा चुनी गई ठोस आकृति में कितने पृष्ठ, भुजा और कोने हैं।
- अब शिक्षक श्यामपट्ट पर एक घन और एक घनाभ का चित्र बनाएँ।
- **पूछें:** दोनों चित्रों में क्या अंतर है?
- **शिक्षक के बिन्दु:** जरूरत होने पर बच्चे को एक ठोस घन और घनाभ दें।
- **समझाएँ:** शिक्षक घन और घनाभ में अंतर स्पष्ट करें।



3. अभ्यास (तुम करो)

10 मिनट



- इकट्ठा की गई सभी आकृतियों को एक थैले में रखें।
- बारी-बारी से एक बच्चे को बुलाएँ और उसकी आँखों को किसी कपड़े से ढंक दें।
- बच्चे के हाथ में एक वस्तु दें।
- **पूछें:** इस ठोस आकृति का क्या नाम है?
- **पूछें:** अपने परिवेश से एक उदाहरण दो।
- **पूछें:** इस आकृति में कितने तल हैं?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-19|3 कराएँ-पृष्ठ 146



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ



कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-19|3 कराएँ-पृष्ठ 116




अभ्यास गतिविधि 01 ⌚ 40 मिनट

🌀 एक अंक की संख्याओं को भाग कर सकें।



संसाधन

गेंद/कंचे/कंकड़/फूल, बॉक्स आदि



- बच्चों के सामने भाग का कोई सवाल रखें। उदाहरण— 18 गेंद को 3 बॉक्स में बराबर रखना है, तो एक बॉक्स में कितनी गेंदें रखनी होंगी?
- शिक्षक, बच्चों को 3-3 के समूह में विभाजित कर, गेंद व बॉक्स, प्रत्येक समूह को प्रश्नानुसार वस्तुएं दें।
- बच्चों को वस्तुओं के द्वारा सवाल हल करने के पर्याप्त समय दें।
- शिक्षक बच्चों से चर्चा करें कि एक बॉक्स में कितने गेंद हैं? 18 गेंदों को 3 बॉक्स में कैसे बाँटा गया? गेंद बाँटने के बाद शेष क्या बचा?
- बच्चों को बताएँ कि किसी वस्तु को बराबर-बराबर बाँटते हैं, तो एक समूह में आई चीजें पता करने को हम भाग करते हैं। भाग करने पर मिला उत्तर भागफल कहलाता है। उदाहरण— उपरोक्त में भागफल 6 है।

बच्चों के लिए प्रश्न:

🔍 हल करें—

$$8 \div 4 = \underline{\quad}$$

$$10 \div 5 = \underline{\quad}$$


अभ्यास गतिविधि 02 ⌚ 40 मिनट

🌀 परिवेश और चित्रों में दो आयामी आकृतियों को पहचान सकें।



संसाधन

आकृतियों का टाइल्स।



- संपूर्ण कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करें।
- हर समूह को कुछ आकृतियाँ बैग से दें और उनसे मिलाकर कुछ सजाने को कहें।
- बच्चों को कोई भी एक आकृति का चित्र दिखाएँ।
- बच्चों से पूछें कि यह कौन सी आकृति है?
- आकृतियों के चित्र दिखाकर आकृतियों से परिचित करायें त्रिभुज, वर्ग और आयत।
- फिर बच्चों से पूछें कि जो उन्होंने मिलकर बनाया है वह क्या है और उसमें कितने वर्ग, कितने त्रिभुज और कितने आयत का इस्तेमाल किया है?
- बच्चों के जवाब एक तालिका में लिखें जैसे आकृति का नाम, वर्ग, त्रिभुज, आयत और उनके नीचे बच्चों के जवाब लिखें।

बच्चों के लिए प्रश्न:

🔍 वर्ग और आयत में क्या-क्या समानताएँ हैं?

🔍 आयत और त्रिभुज में क्या अंतर है?


अभ्यास गतिविधि 03 ⌚ 40 मिनट

🌀 वस्तुओं की विशेषताएँ जैसे सरकना और लुढ़कना को पहचान सकें।



संसाधन

टोस आकृतियाँ



- संपूर्ण कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करें
- प्रत्येक समूह को कुछ आकृतियाँ दें।
- एक शीट दें जिसमें लुढ़कने वाली वस्तु वह सरकने वाली वस्तु लिखा हो।
- बच्चों को ढलान पर आकृतियों को रखने को कहें, बच्चे जो आकृतियाँ लुढ़क रही हैं उनको लुढ़कने वाले स्थान पर लिखें।
- बच्चों से पूछें कि लुढ़कने वाली वस्तुएँ कौन-कौन सी हैं और सरकने वाली वस्तुएँ कौन-कौन सी हैं?
- बच्चों से सवाल करें कि यह वस्तुएँ लुढ़क या सरक कैसे रही हैं और क्यों?
- आकृतियों के पृष्ठों पर भी बच्चों से चर्चा करें।

बच्चों के लिए प्रश्न:

🔍 क्या कुछ ऐसी आकृतियों का उदाहरण दें सकते हैं जो लुढ़कती भी हैं और सरकती भी हैं?



संसाधन : टेनग्राम और आकार-परिवार।

आवश्यक पूर्व ज्ञान : बच्चे अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानते हैं।


नये शब्द : कोई नहीं।

सामान्य भूल : कोई नहीं।



1. परिचय (मैं करूँ)

10 मिनट




- शिक्षक बच्चों को चार-चार के समूह में बाँट दें।
- सभी समूह में एक-एक आकार-परिवार किट दें।
- शिक्षक श्यामपट्ट पर उक्त चित्र में से कोई एक चित्र बनाएँ।
- **समझाएँ:** श्यामपट्ट पर बने चित्र को दी गई आकृतियों की सहायता से बनाओ।

- **पूछें:** तुमने कितने वर्ग का इस्तेमाल किया? तुमने कितने आयत का इस्तेमाल किया?
- **शिक्षक के लिए निर्देश :** जरूरत पड़ने पर बच्चों की मदद करें।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

20 मिनट




- शिक्षक बच्चों को 4-4 के समूह में बाँट दें और सभी समूह में एक-एक टेन ग्राम किट दें। टेन ग्राम में मौजूद आकृतियों से कोई एक चित्र बनाने कहें।
- **पूछें:** चित्र में कितने त्रिभुज हैं? चित्र में कितने वर्ग हैं?
- कुछ और चित्र के साथ गतिविधि को दोहराएँ।
- **शिक्षक के लिए बिन्दु :** जरूरत होने पर बच्चों की मदद करें।

- अलग-अलग ओरिएंटेशन में रखीं आकृतियों पर बच्चों को ध्यान दिलाएँ।
- अब बच्चों को एक-एक डॉट शीट दें और डॉट शीट पर उक्त चित्र बनाने को कहें।
- **शिक्षक के लिए बिन्दु :** बच्चों को आकृति में रंग भरने को भी कह सकते हैं।
- सभी बच्चों से कहें कि वो अपना डॉट शीट दोस्तों को दिखाएँ।



3. अभ्यास (तुम करो)

10 मिनट



- शिक्षक श्यामपट्ट पर ये चित्र बनाएँ। पूछे गए सवालों के उत्तर बच्चों को कॉपी में लिखने को कहें।
- **पूछें:** कौन से आकारों से यह चित्र बना है?
- इसमें कितने वर्ग हैं?
- आयत की संख्या कितनी हैं?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-20|1 कराएँ-पृष्ठ 151



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-20|1 कराएँ-पृष्ठ 120



संसाधन : सबसे लम्बा या छोटा कौन है—चार्ट।



आवश्यक पूर्व ज्ञान : बच्चे अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानते हैं।



नये शब्द : कोई नहीं।



सामान्य भूल : कोई नहीं।



1. परिचय (मैं करूँ)

10 मिनट




- शिक्षक लंबा-छोटा चार्ट से चर्चा शुरू करें।
- ❓ पूछें: कौन-सी मीनार लम्बी है? कौन सी लड़की लम्बी है? शिक्षक आस-पास की कुछ वस्तुओं का उदाहरण लेकर भी बच्चों से बातचीत करें।
- ❓ पूछें: कक्षा के दो बच्चों में लम्बा कौन है? आपने कैसे पता किया?

विद्यालय में कौन ज्यादा ऊंचाई पर है घड़ी या घंटी?
सभी बच्चों से जवाब लें।
✍ शिक्षक के लिए निर्देश : देखें बच्चे क्या उत्तर देते हैं? बच्चों के तर्कों पर बातचीत करें।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

20 मिनट




- शिक्षक दो अलग-अलग लम्बाई की पेंसिल लें।
- ❓ पूछें: कौन सी पेंसिल लम्बी है? आपने कैसे पता किया?
- ✍ शिक्षक के लिए बिन्दु : देखें बच्चे क्या उत्तर देते हैं? क्या दोनों पेंसिल को एक-दूसरे के ऊपर रखने या बित्ते के इस्तेमाल का सुझाव देते हैं।
- अब शिक्षक बच्चों के साथ बैठें।
- कुछ वस्तुओं को अँगुली और

बालिशत का इस्तेमाल करते हुए माप कर दिखाएँ।
● समझाएँ— वस्तु की लम्बाई कितनी बालिशत और अंगुल है।
● अब एक-एक कर बच्चों को मेज, डेस्क, टेबल और श्यामपट्ट की लम्बाई मापने को कहें।
● इस प्रकार गतिविधि को आगे बढ़ाएँ।
✍ शिक्षक के लिए बिन्दु : ध्यान दें कि बच्चों के दो लगातार बालिशत या अँगुली के बीच कोई गैप नहीं हो।



3. अभ्यास (तुम करो)

10 मिनट



- शिक्षक कदम से किसी वस्तु को नाप कर दिखाएँ।
- ✍ समझाएँ: हम किसी वस्तु की लम्बाई या ऊंचाई मापने के लिए अँगुली, बालिशत, हाथ और कदम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को कदम से कक्षा की लम्बाई/ चौड़ाई, चटाई/दरी की लम्बाई मापने को कहें।
- ❓ चटाई की लम्बाई कितने कदम है?
- ❓ टेबल की लम्बाई कितने बालिशत है?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-20|2 कराएँ-पृष्ठ 152



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ



कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-20|2 कराएँ-पृष्ठ 120



🕒 वस्तुओं को विभिन्न समान अमानक इकाइयों से मापन कर सकें।



संसाधन : पेंसिल, डस्टर, रबर, लकड़ी का गुटका।



आवश्यक पूर्व ज्ञान : बच्चे अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानते हैं।



नये शब्द : कोई नहीं।




सामान्य भूल : कोई नहीं।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट




- शिक्षक दो बच्चों को आगे बुलाएँ।
 - 📏 शिक्षक के लिए बिन्दु : एक बड़े बच्चे और एक छोटे बच्चे को बुलाएँ।
 - अब दोनों बच्चों को बालिशत से मेज की लम्बाई मापने को कहें।
 - ❓ पूछें: मेज की लम्बाई कितना बालिशत है?
- अब शिक्षक मेज की लम्बाई नाप

- कर दिखाएँ।
- ❓ पूछें: हर बार मेज की लम्बाई अलग-अलग क्यों आ रहा है?
- सभी बच्चों से उत्तर लें।
- समझाएँ— तीनों लोगों के बालिशत की लम्बाई अलग-अलग होने की वजह से मेज की लम्बाई अलग-अलग आई है।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट



- शिक्षक डस्टर से मेज की लम्बाई कैसे नापते हैं दिखाएँ। अब बच्चों से मापने को कहें।
- ❓ पूछें: मेज की लम्बाई कितना डस्टर है?
- बच्चों को पेंसिल, डस्टर और लकड़ी के गुटके से अलग-अलग लम्बाई मापने को कहें।
- 📏 शिक्षक के लिए निर्देश : बच्चों से बातचीत करते रहें। ध्यान दें कि बच्चों के दो लगातार पेंसिल या

- डस्टर के बीच कोई गैप न हो।
- किसी एक बच्चे को बुलाकर रबर से मेज की लम्बाई मापने को कहें।
- ❓ पूछें: मेज की लम्बाई मापने के लिए आप किसका इस्तेमाल करना चाहेंगे रबर या डस्टर? और क्यों?
- समझाएँ: बच्चों को समझाएं कि मेज की लम्बाई डस्टर से जल्दी मापी जा सकती है जिससे हमें आसानी होगी।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक श्यामपट्ट पर एक रेखाखंड खींचें।
- एक एक बच्चे को रूलर/पटरी डस्टर, पेंसिल और रबर से मापने को कहें।
- ❓ रेखाखंड की लम्बाई कितनी रबर है ?
- ❓ रेखाखंड की लम्बाई कितनी पेंसिल हुए?
- ❓ किसका इस्तेमाल करना आसान रहा?



क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-20|3 कराएँ-पृष्ठ 153



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-20|3 कराएँ-पृष्ठ 120




अभ्यास गतिविधि 01 ⌚ 40 मिनट

🌀 विभिन्न आकृतियों को मिलाकर नई आकृतियों को बना सकें।



संसाधन
आकृतियों के टाइल्स।



- सम्पूर्ण कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करें।
- प्रत्येक समूह को टोस आकृतियों की टाइल्स दें।
- बच्चों से इच्छानुसार आकृतियां बनाने को कहें।
- समूह द्वारा बनाई गई वस्तुओं को सभी को दिखाने को कहें।
- दूसरे बच्चे अनुमान लगाकर बताएंगे कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है जैसे—मंदिर, चरखी, आदमी आदि।
- बच्चों से इन आकृतियों के बारे में बताने को कहें।
- बातचीत करें कि उन्होंने यह कैसे बनाया?
- इसी प्रकार दूसरे समूह को आमंत्रित करें और उनसे बातचीत करें।

बच्चों के लिए प्रश्न:


- ① आपने जो नई आकृति बनाई है उसमें कौन-कौन सी आकृतियां मिली हुई हैं?

अभ्यास गतिविधि 02 ⌚ 40 मिनट

🌀 वस्तुओं को विभिन्न असमान अमानक इकाइयों से मापन कर सकें।



संसाधन
स्टिक, रस्सी।



- सम्पूर्ण कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करें।
- कक्षा के एक छोर पर रेखा बनाकर START लिखें।
- दूसरे छोर पर END लिखें।
- श्यामपट्ट पर समूह का टेबल बना लें।
- बच्चों को निर्देशित करें आपको START से END तक की दूरी पता करनी है।
- यह देखना कि किसने दूरी कैसे पता लगाई, इसे श्यामपट्ट पर अंकित किया जाएगा।
- जिसकी जितनी कम माप में दूरी नापी जायेगी उतना ही अच्छा।
- हर एक समूह से एक बच्चे को अपने समूह द्वारा सुझाई वस्तु जैसे स्टिक, रस्सी इत्यादि से मापने को कहें।
- इसी प्रकार बालिशत या कदम से भी प्रतियोगिता करा सकते हैं।

बच्चों के लिए प्रश्न:


- ① नापने वाली वस्तु अगर बड़ी हो तो दूरी का माप बड़ा आएगा या छोटा?

अभ्यास गतिविधि 03 ⌚ 40 मिनट

🌀 वस्तुओं का विभिन्न समान अमानक इकाइयों से मापन कर सकें।



संसाधन
पेंसिल, डस्टर, चॉक आदि।



- कक्षा के बच्चों को उपलब्ध वस्तुओं द्वारा समूह में बांटें जैसे डस्टर, चॉक, पेंसिल आदि।
- प्रत्येक समूह को वह वस्तु दें।
- प्रत्येक वस्तु की लंबाई का अनुमान लगाने को बच्चों से कहें।
- समूह द्वारा पेंसिल, डस्टर और चॉक से कक्षा के श्यामपट्ट, खिड़की, दरवाजा आदि के एक सिरे को नापने को कहें।
- उनसे पूछें कि क्या सभी को नापने में बराबर-बराबर संख्या में वस्तुओं का प्रयोग हो रहा है?
- कमरे की फर्श को नापने में क्या पेंसिल, डस्टर तथा चॉक समान बार प्रयोग हो रहा है?
- उनसे बातचीत करें, यह किस प्रकार संभव है और उनसे उनके जवाब का आधार पूछें?

बच्चों के लिए प्रश्न:

- ① नापने वाली वस्तु अगर एक ही है तो क्या हर समूह का माप संख्या समान ही होगी?



📦 संसाधन : खेल मुद्रा।

⏪ आवश्यक पूर्व ज्ञान : 1 से 100 तक की संख्या का समझ।

👁️ नये : नोट, सिक्के।

! सामान्य भूल : संख्याओं की मात्रा का अंदाजा संख्या नाम सुनकर तुरंत नहीं लगा पाते।

👤 1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक मेज पर खेल-मुद्रा से कुछ नोट और सिक्के रखें और श्यामपट्ट पर एक गुल्लक का चित्र बनाएं।



- **समझाएँ:** इस गुल्लक में डालने के लिए रुपया चाहिए। एक बच्चा जितने रुपया बोले दूसरा बच्चा नोट या सिक्का की मदद से उतना



रुपया उठाकर दिखाए।

? दो बच्चों को बुलाकर गतिविधि शुरू करें।
पूछें: कितने रुपये डालने को कहा गया? कौन सी नोट या सिक्का उठाया गया? गतिविधि को और उदाहरणों के साथ दोहराएँ जिससे कि बच्चे सभी खेल मुद्रा पहचान पाएँ।

👤 2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट



- शिक्षक बच्चों को चार-चार के समूह में बाँट दें और प्रत्येक समूह को खेल मुद्रा दें।
- **समझाएँ**— जिस वस्तु का नाम लिया जाए उसकी कीमत का अनुमान लगाकर खेल मुद्रा से उचित रुपया निकाल कर दिखाना है।
- शिक्षक बारी-बारी से एक वस्तु का नाम लें जैसे-पतंग, गेंद, बैग, फुटबॉल, पेंसिल।

? **पूछें :** इसकी कीमत कितनी होगी?

किस खेल मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे? इसमें कितने नोट हैं और कितने सिक्के हैं?

- शिक्षक ऐसे और सवालों पर चर्चा करें।
👉 **शिक्षक के लिए बिंदु :** शिक्षक ध्यान दें कि बच्चे सही नोटों का चयन कर रहें हैं और उतनी ही खेल मुद्रा दे रहे हैं जितना वस्तु का मूल्य है।

👤 3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट



2 रुपये

- श्यामपट्ट पर यह चित्र बनाएँ और मिलान करने को कहें।
- एक-एक बच्चे को बुलाएँ और गतिविधि को आगे बढ़ाएँ।



10 रुपये

? पहले नोट को किससे मिलाया?
? दूसरे सिक्के को किससे मिलाया?
? सबसे ज्यादा कीमत कौन से नोट की है?



5 रुपये

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?

हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक
सप्ताह-21|1 कराएँ-पृष्ठ 158

नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ



कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:

संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि
सप्ताह-21|1 कराएँ-पृष्ठ 124



🎯 चित्रों और संख्या पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ा सकें।



संसाधन : श्यामपट्ट और चॉक।



आवश्यक पूर्व ज्ञान : बच्चे स्वाभाविक रूप से आसान पैटर्न में छिपे नियम को समझ लेते हैं।



नये शब्द : पैटर्न।




सामान्य भूल : बच्चे पैटर्न के कठिन नियमों का सामान्यीकरण करके उसे आगे नहीं बढ़ा पाते।



1. परिचय (मैं करूँ)

⌚ 10 मिनट



- शिक्षक कक्षा की शुरुआत ध्वनि पैटर्न से करें। शिक्षक ताली या चुटकी बजाकर पैटर्न का निर्माण करें। जैसे – दो ताली, एक चुटकी, दो ताली, एक चुटकी,। बच्चों को अपने साथ ताली और चुटकी बजाने को बोलें।

पूछें: ताली और चुटकी किस पैटर्न में बज रही है? इस ध्वनि पैटर्न को और आगे बढ़ा सकते हैं?

- ऐसे और ध्वनि पैटर्न पर चर्चा करें, जिससे बच्चे पैटर्न के नियम को समझ कर उसे सामान्यीकरण करते हुए आगे बढ़ा पाएँ।



2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

⌚ 20 मिनट

10,

15,

20,

25

_____ /

- शिक्षक श्यामपट्ट पर यह पैटर्न बनाएं। 5, 10, 15, ... ,
- **समझाएँ** : संख्याओं का एक पैटर्न बनाया गया है, जहाँ एक संख्या उसके पहले आने वाली संख्या से पाँच ज्यादा है। इस पैटर्न में 15 के बाद आएगा 20, फिर 20 के आगे आएगा 25। इस तरह से पैटर्न को आगे बढ़ाया जा सकता है।
- शिक्षक श्यामपट्ट पर ऐसे और कुछ पैटर्न बनाएँ।

- **पूछें** : इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? इस पैटर्न में कोई एक संख्या उसके पहले आने वाली संख्या से कैसे सम्बंधित है?
- अब बच्चों को समूह में बाँट दें, प्रत्येक समूह में एक बच्चे को अपने पसंद से कोई भी संख्या पैटर्न बनाने को कहें।
- बाकी बच्चे उसको आगे बढ़ाएँ।
- शिक्षक समूह में बच्चों की मदद करें।



3. अभ्यास (तुम करो)

⌚ 10 मिनट

- श्यामपट्ट पर यह पैटर्न बनाएँ।
- **पूछें** पैटर्न को और तीन कदम आगे बढ़ाएँ तो कौन सा चेहरा आएगा?
- इस पैटर्न में अगली आकृति क्या होगी?
- इस पैटर्न में कौन सा चेहरा आपको ज्यादा पसंद है और क्यों?

... ..

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-21|2 कराएँ-पृष्ठ 159



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ



कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:

संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-21|2 कराएँ-पृष्ठ 124



चित्रों से सामान्य सूचनाएं इकट्ठा कर अनुमान लगा सकें।

संसाधन : ब्लैक बोर्ड, चॉक।

आवश्यक पूर्व ज्ञान : बच्चे गिनना जानते हैं, छोटा-बड़ा की समझ है और अपने परिवेश के विभिन्न आकारों को समझ रखते हैं।

नये शब्द : आंकड़े।

सामान्य भूल : बच्चे दिए गए सूचना से निष्कर्ष नहीं निकल पाते।

1. परिचय (मैं करूँ)

10 मिनट


बच्चों के नाम	सदस्यों की संख्या

- शिक्षक बोर्ड पर दस बच्चों के नाम लिखें। बच्चों को उनके परिवार के सदस्यों की संख्या बतानी है।
- बच्चों से पूछ कर उनके नाम के आगे, परिवार के सदस्यों की संख्या लिखें।
- अब अलग-अलग सवालों पर चर्चा करें।

- ? पूछें: किसके परिवार में सबसे ज्यादा लोग हैं? किसके परिवार में सबसे कम लोग हैं? पहले तीन बच्चों के परिवार एक साथ आ जाएँ तो कुल लोगों की संख्या कितनी होगी?
- ऐसे और भी सवालों पर चर्चा करें।

2. अवधारणा निर्माण (हम करें)

20 मिनट



- शिक्षक इस चित्र को श्यामपट्ट पर बनाएँ।
- समझाएँ : चित्र में विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं। इन आकृतियों की संख्या को हम एक आंकड़ा कह सकते हैं। चित्र में उपस्थित सभी आकृतियों को कॉपी में बनाएँ। उदाहरण के लिए शिक्षक त्रिभुज या चतुर्भुज की आकृति को श्यामपट्ट पर बनाएँ।


? पूछें : कुल कितने प्रकार की

आकृतियाँ हैं?

- शिक्षक बच्चों को चित्र से देखकर प्रत्येक आकृतियों की संख्या कॉपी में लिखने को कहें।
- ? पूछें: कुल कितने त्रिभुज हैं? वर्गों की संख्या क्या है? क्या वर्ग की संख्या त्रिभुज की संख्या से ज्यादा है? कौन सी आकृति की संख्या सबसे ज्यादा है?
- शिक्षक ऐसे और सवालों पर चर्चा करें, जिससे कि इस आँकड़े से बच्चे कुछ निष्कर्ष निकाल पाएँ।

3. अभ्यास (तुम करो)

10 मिनट



- शिक्षक इस चित्र को श्यामपट्ट पर बनाएँ।
- ? कौन से रंग के पंछी सबसे ज्यादा हैं?
- ? कौन से दो रंगों के पंछियों की संख्या बराबर है?
- ? हरे रंग के पंछी कितने हैं?

क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?



हाँ: कार्यपुस्तिका-कार्यपत्रक सप्ताह-21|3 कराएँ-पृष्ठ 160



नहीं: शिक्षण योजना को दोहराएँ

कार्यपत्रक पूरा करने के बाद:



संदर्शिका-अभ्यास गतिविधि सप्ताह-21|3 कराएँ-पृष्ठ 124




अभ्यास गतिविधि 01 ⌚ 40 मिनट

🌀 सिक्कों और नोटों को पहचान सकें।



संसाधन
खेल मुद्रा।



- कक्षा के बच्चों को 5-6 के समूह में बांटें।
- प्रत्येक समूह को अलग-अलग मूल्यों के नोटों को वितरित करें।
- कुछ समूह को सिक्के दें।
- बच्चों से नोटों पर लिखी संख्या बताने को कहें।
- उन्हें रुपये तथा पैसे के अंतर को समझाएँ।
- श्यामपट्ट पर एक संख्या जैसे 100, 200, 500, 700 आदि लिखकर बच्चों को इतने रुपये निकालकर अलग करने को कहें।
- शिक्षक किसी वस्तु का मूल्य रुपये में बता कर उसके मूल्य के बराबर 10, 50, 100 आदि के कितने नोटों में दिया जा सकता है, बच्चों से चर्चा करने को कहें।
- श्यामपट्ट पर संख्या के साथ नोटों और सिक्कों की तालिका बनाकर बच्चों से पूछें।

बच्चों के लिए प्रश्न:


- 10 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे?
- 200 रुपये की किताब को खरीदने में कितने 50 रुपये के नोट होंगे?

अभ्यास गतिविधि 02 ⌚ 40 मिनट

🌀 चित्रों और संख्या पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ा सकें।



संसाधन
टाइल्स।



- बच्चों के साथ गोल घेरे में बैठे। बीच में आकृतियों से एक पैटर्न बनाए जैसे— एक लाल त्रिकोण, एक नीला त्रिकोण, एक लाल त्रिकोण, एक नीला त्रिकोण।
- बच्चों से पूछें— इसके बाद क्या आएगा? बच्चों से उनके जवाब का कारण पूछें।
- समझाएं कि यह एक पैटर्न है क्योंकि इसमें लाल और नीला त्रिकोण बार-बार दोहराया जा रहा है नीले त्रिकोण के बाद लाल त्रिकोण आएगा और लाल त्रिकोण के बाद नीला त्रिकोण।
- इसी प्रकार अलग-अलग पैटर्न बनाकर बच्चों से बातचीत करें और उस पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए कहें।
- पहले आसान पैटर्न से शुरू करें। फिर धीरे-धीरे कठिनाई स्तर बढ़ाते हुए पैटर्न की समझ बनाएं।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- क्या आप इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं?




अभ्यास गतिविधि 03 ⌚ 40 मिनट

🌀 चित्रों से सामान्य सूचनाएँ इकट्ठा कर अनुमान लगा सकें।



संसाधन
टाइल्स।



- शिक्षक संपूर्ण कक्षा के बच्चों को 2-2 के समूह में विभाजित करें।
- बच्चों के प्रत्येक समूह को टाइल्स का सेट दें।
- बच्चों को इनका उपयोग कर, कुछ भी, बनाने को कहें।
- बच्चों द्वारा कुछ बनाने के बाद प्रत्येक समूह को अपनी बनाई हुई वस्तु बारी-बारी से सभी को दिखानी है एवं शिक्षक इस पर चर्चा करेगा।
- अन्य बच्चे अनुमान लगाकर बताएंगे कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, जैसे: फूल, तारा, बिल्डिंग, घर आदि।
- शिक्षक आगे बातचीत करेंगे कि इसमें कौन-कौन से रंग का टाइल्स उपयोग किया गया है।

बच्चों के लिए प्रश्न:

- एक समूह द्वारा बताई गई आकृति में कितने टाइल्स का उपयोग हुआ है?
- किस आकृति का उपयोग सबसे कम किया गया है?




- सिक्कों और नोटों को पहचान सकें।
- चित्रों और संख्या पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ा सकें।
- चित्रों से सामान्य सूचनाएँ इकट्ठा कर अनुमान लगा सकें।



संसाधन : खेल मुद्रा, स्टैम्प पैड।

1. प्रक्रिया-1

⌚ 5 मिनट




- बच्चों को दो-दो के समूह में बाँटे। सभी को खेल मुद्रा दें।
- **समझाएँ**—मैं एक नोट या सिक्के का नाम बोलूँगी। आप सभी को वह नोट और सिक्का उठाकर दिखाना है।
- एक एक करके नोट या सिक्के का

- नाम बोलें जैसे 1 रुपये, 50 रुपये आदि।
- ध्यान दें कि सभी बच्चे सक्रिय भागीदारी कर रहे हों।
- शिक्षक बच्चों की आवश्यकतानुसार मदद करें।
- बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर दें।

2. प्रक्रिया-2

⌚ 15 मिनट




- स्टैम्प पैड की एक आकृति लें। उस आकृति में दो रंग की स्याही लगाकर पैटर्न बना कर दिखाएँ। आप बड़े चार्ट पेपर पर पैटर्न बना सकते हैं। जैसे—पहले लाल त्रिभुज, पुनः नीला त्रिभुज, फिर लाल त्रिभुज, ...। बच्चों से पूछें इस पैटर्न में आगे क्या आएगा।
- बच्चों को भी स्टैम्प पैड दें और

- उनसे यह पैटर्न बनाने के लिए कहें।
- इस तरह अलग-अलग रंग और आकृतियों से अलग-अलग पैटर्न बच्चों को बनाकर दिखाएँ और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कहें।
- शिक्षक बच्चों की आवश्यकतानुसार मदद करें।
- बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर दें।
- क्या बच्चे पैटर्न का नियम बता सकते हैं?

3. प्रक्रिया-3

⌚ 20 मिनट



- सभी बच्चों को 4 पंक्तियों में खड़ा करें।
- **समझाएँ**—एक पंक्ति के बच्चे पशु का नाम, दूसरी पंक्ति के बच्चे पक्षी का नाम, तीसरी पंक्ति के बच्चे फल का नाम और चौथी पंक्ति के बच्चे फूल का नाम बताएँगे।
- श्यामपट्ट पर 4 कॉलम बनाएँ—एक पशु का, एक पक्षी का, एक फल का और एक फूल का। जैसे—जैसे बच्चे

- नाम बताएँ आप उपयुक्त कॉलम में उनका नाम लिखते जायें।
- जब सभी नाम बता दें, तो पूछें—पशु पक्षी फल और फूल में कौन सबसे ज्यादा है?
- क्या आप पशु, पक्षी, फल और फूल को संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में बता सकते हैं?
- पशु पक्षी फल और फूल में कौन सबसे कम है?



- सिक्कों और नोटों को पहचान सकें।
- चित्रों और संख्या पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ा सकें।
- चित्रों से सामान्य सूचनाएँ इकट्ठा कर अनुमान लगा सकें।



संसाधन : खेल मुद्रा।

1. प्रक्रिया-1

⌚ 20 मिनट



- सम्पूर्ण कक्षा के बच्चों को 4 या 5 के समूह में विभाजित कीजिये।
- शिक्षक सभी समूह को नोट व सिक्के उपलब्ध करवाएँ।
- ☞ **समझाएँ:**
- शिक्षक प्रत्येक समूह को कुछ राशि जैसे 19 को नोटों और सिक्कों का इस्तेमाल करके दर्शाने के लिए कहें।
- शिक्षक इस दौरान अलग-अलग समूह में जाकर अवलोकन करें तथा चर्चा करें किन-किन तरीकों से ये धनराशि बनाई जा सकती है। शिक्षक बच्चों को तालिका भरने में मदद करें।

- उदाहरण के लिए 19 को तीन पाँच के नोट, 2 के दो सिक्के से दर्शा सकते हैं। या दस का एक नोट, पाँच का एक नोट, चार एक-एक के सिक्के से भी दर्शा सकते हैं। अलग-अलग बच्चों के जबाब अलग हो सकते हैं।
- ☞ **पूछें:** किन नोट या सिक्कों को मिलाकर राशि प्राप्त की—
- ? कौन नोट या सिक्का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है?
- ? कौन सा नोट या सिक्का सबसे कम उपयोग किया गया है?
- ? शिक्षक एक-दूसरे के जबाब को अवलोकन करने के लिए भी प्रेरित करें।
- ? एक ही राशि के लिए अलग-अलग संयोजनों पर चर्चा करें।

2. प्रक्रिया-2

⌚ 20 मिनट



- ☞ **समझाएँ:**
- शिक्षक खेल मुद्रा की सहायता से कोई पैटर्न बनाकर दिखायें।
- बच्चे इस पैटर्न का अवलोकन कर इसके नियम को बताएं।
- इस पैटर्न को आगे बढ़ा कर भी दिखायें।
- उदाहरण के लिए:
- एक 10 का नोट, एक पाँच का सिक्का, एक दस का नोट, एक पाँच का सिक्का...
- अब बच्चों को दो-दो के समूह में बांटे।

- प्रत्येक समूह में खेल मुद्रा उपलब्ध करवाएँ।
- एक बच्चा खेल मुद्रा की सहायता से पैटर्न बनाएँ, दूसरा इसे पहचान कर आगे बढ़ाएगा।
- इसके बाद दूसरा बच्चा पैटर्न बनाएँ व पहला बच्चा इसे आगे बढ़ाएँ।
- ☞ **पूछें:**
- ? क्या आप इस पैटर्न के नियम को बता सकते हैं?
- ? आपने अपने पैटर्न में कितने तरह के नोट व सिक्के उपयोग किए हैं?
- शिक्षक एक-दूसरे के पैटर्न को अवलोकन करने के लिए भी प्रेरित करें।



सावधिक आकलन



10. सावधिक आकलन पत्रक
{कार्यपुस्तिका}



पिछले 10 सप्ताह की रेमीडीयल गतिविधि
{शिक्षक संदर्शिका}

कालांश	1	2	3	1	2	3	1	2	3
सावधिक आकलन सप्ताह 			10			10			
			सावधिक आकलन कार्यपत्रक			रेमीडीयल गतिविधि			रिक्त कालांश




सावधिक ट्रैकर

शिक्षण अधिगम सामग्री


उपयुक्त वातावरण के निर्माण और शिक्षण कार्य के लिए संसाधन सभी विद्यालयों के लिए सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इनका कक्षा कार्य में अधिगम सहायक सामग्री के रूप में योजना के अनुसार उपयोग करें।

उपलब्ध शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों का विवरण और उनके उपयोग से संबंधित जानकारी यहाँ दी गई है।



पोस्टर (12)

बच्चों के दैनिक जीवन और बुनियादी गणित की अवधारणाओं को चित्रित करते पोस्टर कक्षा में उपयुक्त वातावरण निर्माण के लिए उपयोगी हैं।
कक्षा की दीवारों पर सभी पोस्टर को लगाएँ।



गणित किट (11)


शिक्षण कार्य के दौरान गणित किट के साथ कार्य करने के अवसर बच्चों को दक्षता प्राप्त करने में सहयोग करते हैं और अवधारणात्मक समझ को स्पष्ट करते हैं।
कक्षा में गणित किट को रखने के लिए गणित कोना बनाएँ।



गणित कार्ड और बोर्ड (7)

अवधारणात्मक समझ को स्पष्ट करने और उनके अनुप्रयोग में गणित कार्ड और बोर्ड उपयोगी हैं। गणित कार्ड और बोर्ड का उपयोग बच्चे में अवधारणाओं के संकेतीय पहलुओं को भी स्पष्ट करता है। गणित कार्ड और बोर्ड के साथ बच्चों को समूह में कार्य दें।

पोस्टर



कच्चा-नीचा, हल्का-भारी



मोटा-पतला, एक-अनेक, कम-ज्यादा



दूर-पास व ऊपर-नीचे



अंदर-बाहर, दायें-बाएँ



एक से दस की गिनती व शून्य

संख्या चार्ट										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	


1 से 100 की संख्या




जोड़ व घटाव

गुणा की समझ	
2x1 = 2	2
2x2 = 4	4
2x3 = 6	6
2x4 = 8	8
2x5 = 10	10
2x6 = 12	12
2x7 = 14	14
2x8 = 16	16
2x9 = 18	18
2x10 = 20	20

गुणा की समझ



वर्गीकरण व पैटर्न



भाग की अवधारणा



लंबाई, भार व धारिता



2 डी व 3 डी आकार

गणित किट

<p>ढोस आकृतियाँ</p>	<p>टाइल्स</p>	<p>स्टाम्पिंग पात्र और स्टाम्प पैड</p>	<p>डोमिनो संख्या कार्ड</p>
<p>स्थानीय मान कार्ड</p>	<p>घड़ी</p>	<p>पासे</p>	<p>खेल मुद्रा</p>
<p>ब्लॉक्स</p>	<p>रस्सी</p>	<p>संख्या कार्ड</p>	

गणित कार्ड और बोर्ड

संख्या कार्ड व डॉट कार्ड

संख्या चार्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

गुणा के लिये चार्ट

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

जोड़ के लिये चार्ट

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		5	6	7	8	9	10	11	12	13
6		6	7	8	9	10	11	12	13	14
7		7	8	9	10	11	12	13	14	15
8		8	9	10	11	12	13	14	15	16
9		9	10	11	12	13	14	15	16	17
10		10	11	12	13	14	15	16	17	18

संख्या कार्ड व डॉट कार्ड

संख्या चार्ट

गुणा के लिये चार्ट

जोड़ के लिये चार्ट

गिनती सीखने के लिये बोर्ड

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

अवधारणा बोर्ड (स्थानीय मान)

सहस्र	शत	दश	एक

अवधारणा बोर्ड

गिनती सीखने के लिये बोर्ड

अवधारणा बोर्ड (स्थानीय मान)

अवधारणा बोर्ड

कक्षा प्रबन्धन

कक्षा प्रबन्धन सभी बच्चों को सक्रिय रूप से कक्षा में हो रही गतिविधियों से जोड़े रखने और प्रतिभाग के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कक्षा प्रबन्धन की एक सीमित परिभाषा "अनुपालन" की ओर इंगित करता है जैसे कि बच्चे अपनी जगह पर बैठे हों या दिशा-निर्देश सुन रहे हों आदि।

कक्षा प्रबन्धन शिक्षण योजना का ही एक अंग है जो शिक्षण प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाता और बच्चों को कक्षा कार्य के दौरान समझने-सीखने में मदद करता है। शिक्षक का व्यवहार और वातावरण (बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और उनकी बातों को कक्षा में जगह देना), वास्तविक अपेक्षाएँ (बच्चों से अपेक्षित कार्य की जानकारी साझा करना), शिक्षण सामग्री का उपयोग (सार्थक एवं विभिन्न शिक्षण सामग्री का उपयोग), शिक्षण कार्य में विविधता और समय नियोजन आदि कक्षा प्रबंधन के महत्वपूर्ण आयाम हैं।

1. सहज वातावरण



- सभी बच्चों को अपनी बात रखने के भरपूर मौके दें। इसके लिए मौखिक प्रश्न और संवाद का प्रयोग करें।
- कक्षा व्यवस्था सम्बन्धी नियमों को बच्चों के साथ मिलकर आपसी सहमति से तय करें जैसे:
 - जब कोई एक बोल रहा हो तो सभी उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे।
 - सभी अपनी बारी का इन्तजार करेंगे और बारी आने पर अपनी बात सामने रखेंगे।
 - सभी एक दूसरे की मदद करेंगे और किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे।
- शिक्षण कार्य के दौरान सभी बच्चों के साथ बराबरी का व्यवहार करें जैसे:
 - अगर बच्चे दरी पर बैठे हों तो आप भी उनके साथ दरी पर ही बैठें।
 - लड़कियों और लड़कों को प्रतिभाग के समान अवसर दें।
 - बच्चों की घर की भाषा को कक्षा में शामिल करें और संवाद के पर्याप्त मौके दें।

2. बच्चों के साथ जुड़ाव



- शिक्षण के दौरान बच्चों के साथ बातचीत करें और उनकी भावनाओं के प्रति संवेदशील रहें। ऐसी बातचीत के कुछ उदाहरण यहाँ नीचे देखे जा सकते हैं।
 - आज आपको कैसा लग रहा है ?
 - गृहकार्य को पूरा करने के लिए घर में किसने मदद की ?
 - घर से विद्यालय तक के रास्ते में आप क्या-क्या देखते हैं और किन से मिलते हैं ?
- प्रतिदिन अलग-अलग बच्चों से उनके दैनिक अनुभव के बारे में कक्षा में बात करें ताकि कक्षा कार्य के लिए पर्याप्त समय हो और शिक्षण योजना प्रभावित न हो।

3. भौतिक वातावरण गणित शिक्षण के अनुरूप



- पोस्टर को दीवारों पर उचित ऊँचाई पर लगाएं जिसे बच्चे आसानी से देख और पढ़ सकें।
- बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने वाले TLM को कक्षा-कक्ष में व्यवस्थित तरीके से रखें या गणित कोना बनाएँ।
- बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों को कक्षा में प्रदर्शित करें।

4. बैठक व्यवस्था



- बैठक व्यवस्था कक्षा-कक्ष में हो रही गतिविधियों के अनुसार बनाएँ। सामूहिक कार्य जैसे कहानी सुनाने के दौरान बच्चों को नजदीक गोल घेरे में और गतिविधियों के दौरान छोटे-छोटे समूहों में बैठाएँ।
- बैठक व्यवस्था ऐसी बनाएँ, जिसमें सभी बच्चे आपस में घुल-मिलकर कार्य करें।
- जो बच्चे सहज नहीं हों या पीछे की तरफ बैठने की कोशिश करते हैं, उन्हें आगे बैठने के लिए प्रोत्साहित करें।
- सभी बच्चों श्यामपट्ट को स्पष्ट रूप से देख पाएँ।

5. बच्चों में रुचि लाने के लिए शिक्षण कार्य में विविधता



- कहानी, कविता या बातचीत से शिक्षण कार्य की शुरुआत करें।
- शिक्षण अभिगम सामग्री का प्रतिदिन उपयोग करें।
- सभी बच्चों को गणितीय कार्ड और श्यामपट्ट के उपयोग के लिए पर्याप्त अवसर दें।
- सभी बच्चों के अनुभव को कक्षा कार्य में शामिल करें।
- बच्चों को अपने पिछले कार्य को देखने और अपनी प्रगति को समझने का अवसर दें।

6. समय नियोजन



- कालांश को विद्यालय समय सारणी के अनुसार शुरू करें।
- शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक सामग्रियों को अपने साथ ले कर कक्षा में प्रवेश करें।
- बच्चों को अगले दिन या अगले कालांश में किए जाने वाले कार्य के बारे में बताएं।
- रिक्त कालांश का उपयोग आवश्यकता के अनुसार करें।
- बच्चों की कार्यपुस्तिका की जांच कक्षा कार्य के बाद करें। वस्तुओं के बारे में बताएं कि वे कहाँ से आती हैं और उनका क्या उपयोग होता है आदि।

व्यवधान प्रबंधन की रणनीति

इस बात की संभावना अभी भी बनी हुई है कि कोरोना के कारण इस अकादमिक सत्र में भी विद्यालय को कुछ समय के लिए बंद करने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो बच्चों की शिक्षण प्रक्रिया को पुनः बाधित करेगी। हमने पहले भी इस बात पर चर्चा की है कि विद्यालय के अचानक बंद होने से बच्चों के प्रगति में बाधा आती है और अधिगम क्षति होती है। इसलिए अब हमारे पास इस प्रकार के संभावित व्यवधानों से होने वाले नुकसानों से बचने और उसके प्रबंधन की प्रभावी रणनीति होनी चाहिए। जिसमें बच्चों के अधिगम क्षति का आकलन कर, पुनरावृत्ति और अभ्यास करने के उपयुक्त तरीके हों। इसके साथ-साथ हमे अभिवावकों के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे बच्चों को घर पर भी सीखने के अवसर और सहयोग प्राप्त होते रहें।

व्यवधान प्रबंधन के लिए दो तरह की रणनीति प्रस्तावित की गई है

1-4 सप्ताह का व्यवधान

यदि विद्यालय 4 सप्ताह या उससे कम समय के लिए बंद होते हैं तो विद्यालय के पुनः खुलने पर शिक्षक आखिरी सप्ताह में किए कार्यों के दोहराव से शुरुआत करें।

1. आखिरी सप्ताह का दोहराव



समूह बना कर अभ्यास गतिविधियाँ कराएँ।



श्यामपट्ट पर प्रश्न और मौखिक प्रश्न-उत्तर के माध्यम से कक्षा कार्य कराएँ।



समेकन गतिविधि कराएँ।



अतिरिक्त अभ्यास के लिए गृह कार्य दें।



रेमीडीयल गतिविधि कराएँ।

2. वार्षिक योजना के अनुसार आगे का शिक्षण कार्य करें

4. सप्ताह से अधिक का व्यवधान

यदि विद्यालय 4 सप्ताह से अधिक समय के लिए बंद होते हैं तो विद्यालय के पुनः खुलने पर शिक्षक समृद्ध कार्यक्रम के स्तर 1 और 2 पुस्तिका के मदद से 2-3 सप्ताह तक रेमीडीयल कार्य करें।

1. बच्चों को अपनी कक्षा में ही बैठाये
2. समृद्ध कार्यक्रम पुस्तिका-आकलन टूल के माध्यम से बच्चों का Baseline कर वर्तमान स्तर पता करें
3. बच्चों का स्तर के अनुसार समूह बना रेमीडीयल कार्य करें (2-3 सप्ताह)




4. समृद्ध कार्यक्रम पुस्तिका-आकलन टूल के माध्यम से बच्चों की Baseline कर वर्तमान स्तर पता करें

5. वार्षिक योजना के अनुसार आगे का शिक्षण कार्य करें



अभिभावकों के साथ मिलकर बच्चों को दैनिक रूप से सीखने-सिखाने की प्रक्रिया से जोड़े रखने के लिए लगातार संवाद करें और घर पर बच्चों के साथ कार्य करने के लिए सरल सुझाव दें।

अभिभावकों की भूमिका



बच्चों के साथ बात चीत

गृह कार्य घर पर करवाना

शिक्षक के साथ बातचीत

बच्चे निरंतर रूप से सीखने की प्रक्रियाओं में शामिल हों इसके लिए जरूरी है कि कक्षा-कक्ष में एक तरफ जहाँ शिक्षक उनके साथ काम करें वही दूसरी तरफ अभिभावक भी घर पर उन्हें पर्याप्त समय दें, और व्यवस्थित ढंग से उनके साथ काम करें। इसलिए हम शिक्षकों को सभी बच्चों के अभिभावकों के साथ नियमित रूप से बातचीत एवं चर्चा करते रहनी चाहिए। विद्यालय में आयोजित अभिभावकों एवं शिक्षकों की बैठकों (PTM) में उनसे यह बात करें कि उनके सक्रिय और सकारात्मक जुड़ाव से बच्चों के सीखने की गति बेहतर होती जाती है।


इस भाग में हम यह देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि एक अभिभावक की पूरी शिक्षण प्रक्रिया में क्या भूमिका हो सकती है। आप अभिभावकों तक यह बात पहुंचाएँ कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका को तीन मुख्य भागों में बाँटकर देखा जा सकता है



1. शिक्षक के साथ बातचीत

आप अभिभावकों को बताएँ कि अपने बच्चों की प्रगति पर ध्यान रखना अच्छा होगा ताकि बच्चों को समय से जरूरी मदद मिल सके। साथ में उनसे अपेक्षित है कि शिक्षकों से लगातार संवाद बनाएँ रखें और अपने बच्चे के बारे में संवाद करते रहें।

- विद्यालय से जुड़े कार्यों में अभिभावकों की भूमिका को नीचे देखा जा सकता है।
- वार्षिक लक्ष्य और बच्चों की प्रगति पर बात करें।
- शिक्षक से बच्चों को विद्यालय में सीखने में हो रही कठिनाइयों पर बात करें।
- बच्चों को घर में कक्षा कार्यों को दोहराने में प्रतिदिन मदद करें।
- कक्षा में किए गए कार्य के बारे में पूछें।
- गृह कार्य के बारे में पूछें।



2. साप्ताहिक रूप से गृहकार्य घर पर करवाएं

आप अभिभावकों को बच्चों से उनके विद्यालय में व्यतीत किए गए समय और उनके सीखने के अनुभवों के बारे में बात कर गृहकार्य को पूरा करने में सहयोग के लिए प्रेरित करें।

- बच्चों से शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देश के बारे में पूछें।
- बच्चों के साथ बैठ कर गृहकार्य को पूरा करवाएँ।
- बच्चों के साप्ताहिक कार्य और ट्रैकर को देखें।
- बच्चों को सीखने में हो रही कठिनाइयों को समझने का प्रयास करें।



3. बच्चों के साथ बात चीत

अभिभावक किन-किन सामान्य बातों का ध्यान रख सकते हैं इसे नीचे देखा जा सकता है।

- बच्चे मजे के साथ सीख सकें, इसके लिए घर पर अनुकूल वातावरण बनाना।
- बच्चों के सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को सराहें और उन्हें प्रोत्साहित करें।
- बच्चों के साथ खेलें और लगातार संवाद करें।
- बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और उन्हें टहलने, खेलने आदि को प्रोत्साहित करते रहें।
- बच्चों के गिनने, जोड़ने और घटाव करने जैसे कौशलों के विकास हेतु उनके साथ अलग-अलग मुद्दों पर लगातार संवाद करते रहें।
- कहानी या कविता के माध्यम से बच्चों से छोटे-छोटे सवाल करें जैसे कि घर में कितने दरवाजे हैं, हम सभी में सबसे लम्बा कौन हैं इत्यादि।
- बच्चों से चित्रकारी, रंग भरवाने, आटे, मिट्टी या कागज़ से कुछ बनवाने का काम करवाएँ।
- अपने परिवेश, घर की आवश्यक वस्तुओं के बारे में बताएं कि वे कहाँ से आती हैं और उनका क्या उपयोग होता है आदि।



साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 1



प्रत्येक बच्चे का सावधिक आकलन प्रपत्र में किए गए प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड दर्ज करें।

- **A--** सभी प्रश्नों के 50% भाग से कम का सही उत्तर
- **B--** सभी प्रश्नों के 50% भाग या ज्यादा का सही उत्तर



अनुक्रमांक	बच्चों का नाम	सप्ताह									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1											

अनुक्रमांक	बच्चों के नाम	सप्ताह									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



सावधिक आकलन ट्रैकर 1



प्रत्येक बच्चे का सावधिक आकलन प्रपत्र में किए गए प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड दर्ज करें।

- **A--** सभी प्रश्नों के 50% भाग से कम का सही उत्तर
- **B--** सभी प्रश्नों के 50% भाग या ज्यादा का सही उत्तर

जिला: ब्लॉक: स्कूल: कक्षा:

सप्ताह

अनुक्रमांक	बच्चों का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1											

अनुक्रमांक

बच्चों का नाम

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2



प्रत्येक बच्चे का सावधिक आकलन प्रपत्र में किए गए प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड दर्ज करें।

- **A--** सभी प्रश्नों के 50% भाग से कम का सही उत्तर
- **B--** सभी प्रश्नों के 50% भाग या ज्यादा का सही उत्तर



अनुक्रमांक	बच्चों का नाम	सप्ताह									
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1											

अनुक्रमांक	बच्चों के नाम	सप्ताह									
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21



सावधिक आकलन ट्रेकर 2



सप्ताह
22



प्रत्येक बच्चे का सावधिक आकलन प्रपत्र में किए गए प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड दर्ज करें।

- **A--** सभी प्रश्नों के 50% भाग से कम का सही उत्तर
- **B--** सभी प्रश्नों के 50% भाग या ज्यादा का सही उत्तर




जिला: ब्लॉक: स्कूल: कक्षा:

सप्ताह

अनुक्रमांक	बच्चों का नाम	सप्ताह													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1															

अनुक्रमांक	बच्चों का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10





भाषा एवं गणित के लिए प्रतिदिन 3-3 कालांश प्रस्तावित हैं। पहले 3 कालांशों में भाषा (हिन्दी) से संबंधित कार्य किए जाएंगे और बाद के 3 कालांशों में बुनियादी गणित पर कार्य किया जाना है।



22 सप्ताह



60 सप्ताह

- 1-99 तक की संख्याओं को समझ, लिख और तुलना कर सकें।
- 1-99 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई लिख सकें।
- दो अंक की संख्याओं का जोड़ और घटाव कर सकें (बिना हासिल और हासिल के साथ)।
- एक अंक की संख्याओं का गुणा और भाग कर सकें।
- परिवेश और चित्रों में दो आयामी आकृतियों को पहचान सकें और वस्तुओं की विशेषताएँ पहचान सकें
- वस्तुओं को विभिन्न अमानक इकाइयों से मापन कर सकें।
- रंग, आकार और आकृति के आधार पर बने पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ा सकें।
- परिवेश और चित्रों से वस्तुओं की सूचना एकत्रित कर वर्गीकृत कर सकें।
- सिक्कों और नोटों को पहचान सकें।

संसाधन



60 शिक्षण योजना



60 अभ्यास गतिविधि



4 समेकन गतिविधि



4 रेमीडीयल गतिविधि

ट्रैकर



वार्षिक ट्रैकर (2022-23)



साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 1 और 2



सावधिक आकलन ट्रैकर 1 और 2



राष्ट्रगान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे
भारत-भाग्य विधाता ।
पंजाब-सिंध-गुजरात-मराठा-
द्राविड़-उत्कल-बंग
विंध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा
उच्छल-जलधि तरंग
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे,
गाहे तव जय गाथा
जन-गण-मंगल दायक जय हे
भारत-भाग्य विधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे!

आवरण पृष्ठ के कागज का विशिष्टीकरण: प्रयुक्त कागज..... वर्जिन पल्पयुक्त 175 जी0एस0एम0 का आर्ट पेपर का प्रयोग किया गया है। जिसमें कागज का बस्टर्ड इण्डेक्स-न्यूनतम 0.9, वैक्स पिक्स-नो पिक्स ऑन 5ए, ग्लास परसेंट-न्यूनतम 55, ब्राइटनेस न्यूनतम 72 प्रतिशत और सरफेस पी0एच0 5.5 से 8.0 है। कागज की अन्य विशिष्टियाँ बी0आई0एस0 कोड आई0एस0-4658-1988 के अनुसार हैं एवं कागज 53.34 सेमी X 78.74 सेमी है। आवरण पृष्ठ का बाहरी भाग चार रंगों तथा अन्दर का भाग एक रंग में मुद्रित है।

उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद्

